



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22—जनवरी 28, 2010 (माघ 2, 1932)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22—JANUARY 28, 2010 (MAGHA 2, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

मुंबई, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

बैंपवि. सं. आरईटी. बीसी. 66/12.02.

001/2010-11—समय-समय पर यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा 28 अक्टूबर 2009 की अधिसूचना बैंपवि. सं. आरईटी.बीसी. 50/12.02. 001/2009-10 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि 18 दिसम्बर 2010 से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक 08 सितम्बर 2009 की अधिसूचना बैंपवि. सं. आरईटी. बीसी. 40/12.02.001/2009-10 में यथावर्णित आस्तियां भारत में बनाए रखेगा जिनका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मियादी देयताओं के 24 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

आनन्द सिन्हा

कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

(सहयोगी एवं अनुषंगी समूह)

मुंबई, दिनांक 26 दिसम्बर 2010

एसबीडी क्र. 06/2010-2011—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक श्री एस. ए. धिमैया के स्थान पर श्री बी. रमेश बाबू, उपमहाप्रबन्धक (सहयोगी एवं समनुषंगी), भारतीय स्टेट बैंक, सहयोगी एवं समनुषंगी समूह, मुंबई को दिनांक 25 दिसम्बर 2010 से निम्नलिखित सहयोगी बैंकों के निदेशक के रूप में नामित करता है :—

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
5. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

ओम प्रकाश भट्ट

अध्यक्ष

बैंक ऑफ बड़ौदा
(वित्त मंत्रालय)

दिनांक 23 दिसम्बर 2010

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श ने और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद् द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

- (1) ये विनियम बैंक ऑफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 2010 कहलायेंगे.
 - (2). ये विनियम जहाँ कहीं अन्यथा दर्शाया गया हो, उसे छोड़ कर 2 जून, 2005 से लागू होंगे.
2. बैंक ऑफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 (इसके बाद उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) में विनियम 3 में-

(i) खंड (जी) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा, अर्थात-

(जी) "परिवार" अर्थात अधिकारी का पति/की पत्नी (जो बैंक की कर्मचारी नहीं है) पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चे तथा कानूनी रूप से गोद लिए हुए बच्चों सहित) एवं माता-पिता जो सामान्यतया अधिकारी के साथ रहते हों एवं पूर्णतः आश्रित हों,

(ii) खंड (ओ) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा, अर्थात-

(ओ) "पूर्णतः आश्रित बच्चे या माता-पिता" का अर्थ है बच्चे या माता-पिता जिनकी आय रुपये 2,550/- प्रति माह से अधिक न हो.

टिप्पणी: यदि माता पिता में से एक की आय रुपये 2550/- प्रति माह से अधिक है या माता-पिता दोनों की कुल आय रुपये 2550/- से अधिक है, तो माता-पिता दोनों ही अधिकारी पर आश्रित नहीं समझे जाएंगे.

3. उक्त विनियमों में विनियम 4 में उप-विनियम (4) के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होगा, अर्थात:-

(4) नवंबर 2002 के प्रथम दिन और तब से प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित वेतनमान निम्नानुसार होगा-

ए) उच्च कार्यपालक श्रेणी :

$$\text{वेतनमान VII} = \text{रु. } 29340 - \frac{680}{2} - 30700 - \frac{900}{1} - 31600 - \frac{1000}{1} - 32600$$

$$\text{वेतनमान VI} = \text{रु. } 26620 - \frac{680}{4} - 29340$$

बी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

$$\text{वेतनमान V} = \text{रु. } 24140 - \frac{620}{4} - 26620$$

$$\text{वेतनमान IV} = \text{रु. } 20480 - \frac{560}{1} - 21040 - \frac{620}{5} - 24140$$

सी) मध्य प्रबंधन श्रेणी

$$\text{वेतनमान III} = \text{रु. } 18240 - \frac{560}{5} - 21040 - \frac{620}{2} - 22280$$

$$\text{वेतनमान II} = \text{रु. } 13820 - \frac{500}{1} - 14320 - \frac{560}{10} - 19920$$

डी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

$$\text{वेतनमान I} = \text{रु. } 10000 - \frac{470}{6} - 12820 - \frac{500}{3} - 14320 - \frac{560}{7} - 18240$$

टिप्पणी:

31 अक्टूबर, 2002 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित होने वाले प्रत्येक अधिकारी का नियतन 1 नवंबर, 2002 को इस उप-विनियम में निर्धारित वेतनमान में प्रक्रम-दर-प्रक्रम आधार पर किया जाएगा, अर्थात् पहले प्रक्रम से तदनुरूपी प्रक्रमों पर और वेतनवृद्धियां, अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, सामान्यतया अधिवर्षिता तारीख को देय होगी.

(4ए) उप-विनियम (1), (2) (3) एवं (4) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है.

4. उक्त विनियमों में, विनियम 5 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

5 वेतनवृद्धियां: विनियम 4 के उप विनियम (4) के उपबंधों के अधीन 1 नवंबर, 2002 को और उस तारीख से, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूर की जाएंगी, अर्थात:-

(ए) विनियम 4 के उप-विनियम (4) में वर्णित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होगी और जिस महीने में देय होती हो, उस महीने की पहली तारीख को दी जाएगी.

(बी) वेतनमान I तथा वेतनमान II के अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात, अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि (यां) सहित आगे की वेतनवृद्धियां केवल नीचे (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर दी जाएंगी, बशर्ते कि वे सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दक्षतारोध को पार कर लें.

(सी) ऊपर (बी) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II तथा III के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि (यां) दी जाएगी/जाएगी. वेतनमान II के अंतिम प्रकय पर पहुंच चुके अधिकारियों के मामले में रुपये 560/- की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियां दी जाएगी तथा वेतनमान III के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु.620/- की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी.

परंतु 1 नवंबर 1994 को या उसके बाद से मूल वेतनमान III में अधिकारियों को अर्थात् जो वेतनमान III में भर्ती या पदोन्नत हुए हैं, दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि पहली अवरोध वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष बाद प्रदान की जाएगी.

परंतु अगले उच्च वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि/यां अवरोध वेतनवृद्धि/यां उस अधिकारी को नहीं दी जाएगी जो प्रस्ताव किए जाने पर पदोन्नति हेतु इंकार करता है.

टिप्पणी: अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा. ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात् भी अधिकारी को, यथा स्थिति, उसके अपने मूल पद के वेतनमान I अथवा II के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, ड्यूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे.

- (2) सीएआईबी का भाग I/ भारतीय बैंकर संस्थान की जूनियर एसोसिएट तथा सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स भाग II /भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी.

स्पष्टीकरण : (ए) जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स) परीक्षा का भाग I अथवा भाग II उत्तीर्ण कर लिया हो, उसे नियत तिथि से, यथास्थिति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियां दी जाएंगी, बशर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो.

- (बी) दि.1 नवंबर, 1987 को तथा उसके बाद से, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को, जो पदोन्नति बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी दिशानिर्देशों के अधीन, यदि कोई हों, सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा:

टेबल

जिन्होंने सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स का केवल भाग-I उत्तीर्ण किया है :	(i) एक वर्ष पश्चात् रु.100/- प्र.मा. जिनमें से रु.75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे.
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं :	(i) एक वर्ष पश्चात् रु.100/-प्रति माह जिसमें से रु.75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे.
	(ii) 2 वर्ष पश्चात् रु.250/- प्रति माह जिसमें से रु.200/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे.

- (सी) दिनांक 1 नवम्बर, 1994 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते की मात्रा निम्नानुसार पुनरीक्षित रहेगी :

टेबल

जिन्होंने सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक्स परीक्षा का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है	(i) वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.120/- प्र.मा.
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक्स परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं :	(i) वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.120/- प्र.मा. (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष बाद रु.300/- प्र.मा.

परंतु, विनियम 5 के उप-विनियम (3) के खंड (बी) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र अधिकारी, यथास्थिति, क्रमशः भाग I या II के लिए ऐसा नियत वैयक्तिक भत्ता पाने के एक/दो वर्षों के पश्चात् व्यावसायिक अर्हता भत्ता प्राप्त कर सकेंगे.

(डी) दि.1 नवम्बर.1999 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते के भुगतान की मात्रा निम्नलिखित टेबल में दर्शाए गए अनुसार पुनरीक्षित होगी:

टेबल

जिन्होंने जूनियर एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक्स अथवा सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक्स का भाग-I उत्तीर्ण किया है:	(i) वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.150/- प्र.मा.
जिन्होंने जूनियर एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक्स एवं सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक्स अथवा सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक्स के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं :	(i) वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.150/- प्र.मा. (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष बाद रु.360/- प्र.मा.

परंतु जो अधिकारी वेतनमान I और II में हैं तथा वे उप-विनियम 1 के खंड (बी) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने के, यथास्थिति, एक/दो वर्ष पश्चात् व्यावसायिक अर्हता भुगतान प्राप्त करेंगे.

(ई) दिनांक 1 नवम्बर 2002 को एवं उसके बाद से अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते के भुगतान की मात्रा निम्नलिखित टेबल में दर्शाए गए अनुसार पुनरीक्षित होगी:

टेबल

जिन्होंने जूनियर एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा अथवा सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है.	(i) वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.300/- प्र.मा.
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं :	(i) वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.300/- प्र.मा. ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष बाद रु. 750/- प्र.मा.

परंतु जो अधिकारी वेतनमान I और II में हैं तथा वे उप-विनियम 1 के खंड (बी) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने के, यथास्थिति, एक/दो वर्ष पश्चात् व्यावसायिक अर्हता भुगतान प्राप्त करेंगे.

टिप्पणी :

- (i) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यावसायिक अर्हता भुगतान मिल रहा हो, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय, उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक जूनियर एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स/सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भुगतान पाने का पात्र होगा.
- (ii) दि. 1 नवम्बर 1994 को तथा उसके बाद से, यथास्थिति, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता भुगतान को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा.
- (iii) अधिकारी व्यावसायिक अर्हता भुगतान के पात्र नहीं होगा, यदि वह प्रस्ताव किए जाने पर पदोन्नति के लिए इंकार करता है.
- (iv) यदि कोई अधिकारी वेतन के उच्चतम वेतनमान में पहुंचने के बाद जूनियर एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स (एक या दोनों भाग) उत्तीर्ण करता है, तो उसे ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक अर्हता भुगतान की प्रथम किस्त मंजूर की जाएंगी एवं व्यावसायिक अर्हता भुगतान की बाद की किस्तें प्रथम किस्त विमुक्त किए जाने की तारीख के संदर्भ में विमुक्त की जाएंगी.

(v) यदि कोई अधिकारी, 2 जून 2005 को खंड (iv) में संदर्भित अर्हता प्राप्त कर चुका है एवं उसने ऐसी अर्हता प्राप्त करने पर कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक अर्हता भुगतान अर्जित नहीं किया है, उसे 1 नवंबर, 2002, या ऐसी अर्हता/एं प्राप्त करने की तारीख में से जो भी बाद में हो, से उपरोक्त उपबंधित किए गए अनुसार व्यावसायिक अर्हता भुगतान विमुक्त किया जाएगा.

(3) (ए) जो अधिकारी 01 नवम्बर 1993 को बैंक की स्थायी सेवा में है उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी और जो अधिकारी 01 नवम्बर 1993 को परीक्षा पर हैं उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी.

टिप्पणी : अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

(बी) जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुका है या जो 01 नवम्बर 1993 को अवरोध वेतनवृद्धि(यां) प्राप्त कर चुका है, वह 01 नवम्बर 1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा, जो 01 नवम्बर 1993 को अंतिम आहरित वेतनवृद्धि तथा उस पर देय महंगाई भत्ता तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते की मात्रा के बराबर होगा. यहां नीचे टेबल में दिया गया नियत वैयक्तिक भत्ता तथा साथ ही साथ मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो आगे संशोधित होने तक वैध बना रहेगा.

टेबल

वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर दि. 01.11.1993 को महंगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क)रु.	(ख)रु.	(ग)रु.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

(सी) दिनांक 1 नवंबर 1999 को या उसके बाद से अन्य चीजों के समान रहते हुए नियत वैयक्तिक वेतन, मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, सहित निम्नानुसार दिया जाएगा

टेबल

वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर दि 01.11.1997 को महंगाई भत्ता	बैंक द्वारा उपलब्ध आवासीय सुविधा की दशा में कुल देय नियत वैयक्तिक भत्ता
(क)रू.	(ख)रू.	(ग)रू.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

(डी) दिनांक 1 नवंबर, 2004 को एवं उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर नियत वैयक्तिक वेतन, मकान किराया भत्ता सहित, यदि कोई हो, नीचे टेबल में दर्शाए गए अनुसार होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए अवरुद्ध बना रहेगा.

टेबल

वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर दि. 01.12.2002 को महंगाई भत्ता	बैंक द्वारा उपलब्ध आवासीय सुविधा की दशा में कुल देय नियत वैयक्तिक भत्ता
(क)रू.	(ख)रू.	(ग)रू.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

टिप्पणी : (i) विनियम 5 के उप-विनियम (3) के खंड (बी), (सी) एवं (डी) में टेबल के कॉलम (सी) में दर्शाये गए के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता उन अधिकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है.

(ii) मकान किराया भत्ता के पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन विनियम 5 के उप-विनियम (3) के खंड (बी), (सी) एवं (डी) में विनिर्दिष्टानुसार संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने पर (ए) + (बी) + संबद्ध अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता होगा, जैसा कि विनियम (4) के उप-विनियम (2) एवं (3) में दर्शाया गया है.

- (iii) दिनांक 1 नवंबर 1999 को या उसके बाद से नियत वैयक्तिक वेतन की रिलीज के संबंध में उप विनियम (2) के (सी) में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार व्यावसायिक अर्हता वेतन रिलीज करने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

परंतु, जहां व्यावसायिक अर्हता भुगतान की कोई किस्त, जो पूर्व के प्रावधानों के कारण एक वर्ष तक बढ़ा दी गई थी तथा दिनांक 1 नवंबर 1999 को या उसके बाद जारी की जाने वाली है, अधिकारी को इस तिथि को या इस तिथि से दी जाएगी और व्यावसायिक अर्हता भुगतान, यदि कोई हो, की दूसरी किस्त 1 नवंबर 2000 को दी जाएगी.

- (iv) नियत वैयक्तिक भत्ते/ नियत वैयक्तिक भुगतान के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभ के लिए गिना जाएगा.

- (ई)) जिस अधिकारी को उपर्युक्त (ए) के अनुसार वेतनवृद्धि मिल चुकी है उसे ऊपर (बी), (सी) या (डी) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते/ नियत वैयक्तिक भुगतान की मात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् प्राप्त होगी.

5. विनियम 21 में उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

- (4) 1 नवंबर, 2002 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना इस प्रकार होगी:-

(ए) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, (सामान्य) - आधार 1960 = 100 के तिमाही औसत में 2288 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से देय होगा.

(बी) 1 नवंबर, 2002 से 31 जनवरी, 2005 तक की अवधि के दौरान महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :

- (i) रु. 9650/- तक 'वेतन' का 0.18% (+)
- (ii) रु. 9650/- के अधिक परंतु रु. 15,350/- तक 'वेतन' का 0.15% (+)
- (iii) रु. 15350/- से अधिक परंतु रु. 16350/- तक 'वेतन' का 0.19% (+)
- (iv) रु. 16350/- से ऊपर 'वेतन' का 0.04%

(सी) 1 फरवरी 2005 को और तबसे महंगाई भत्ता वेतन के 0.18% की दर से देय होगा.

टिप्पणी: (ए) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' से मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं.

(बी) विनियम 5 के नियम (2) के स्पष्टीकरण (सी) (डी) और (ई) में निर्दिष्टानुसार, व्यावसायिक अर्हता भत्ते/व्यावसायिक अर्हता वेतन को महंगाई के लिए गिना जाएगा.

6. इन विनियमों में विनियम 22 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

'22. मकान किराया भत्ता : (1) (ए) 1 नवम्बर, 1999 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 2.5% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा.

(बी) 1 नवम्बर, 1999 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया, भत्ता पाने का पात्र होगा.

टेबल

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख 'ए' वर्ग के शहर एवं समूह 'ए' में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 9% प्र.मा.
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह 'बी' में परियोजना क्षेत्र केन्द्र.	वेतन का 8% प्र.मा.
iii) क्षेत्र II अर्थात् उपर्युक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले सभी स्थान	वेतन का 7% प्र.मा.

परंतु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 2.5% के ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर कॉलम (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%, में से जो भी कम हो, होगा.

- (2) (ए) दि.01 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो वह जिस वेतनमान में है उससे प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 1.75% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा.

- (बी) दि. 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा.

टेबल

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) प्रमुख 'ए' वर्ग के शहर एवं समूह 'ए' में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5% प्र.मा.
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह 'बी' में परियोजना क्षेत्र केन्द्र.	वेतन का 7.5% प्र.मा.
iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5% प्र.मा.

परंतु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 1.75% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया, अधिकतम ऊपर दी गई टेबल के कॉलम (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%, .

- (3) यदि कोई अधिकारी अपने ही मकान में रहता है तो वह उप-विनियम (1) का खंड (बी) और उप विनियम (2) के खंड (बी) में उल्लिखित किए गए अनुसार समान आधार पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा, मानो वह नीचे (ए) अथवा '(बी)' में उच्चतर के वारहवें भाग के बराबर मासिक किराया दे रहा हो.

(ए)

निम्नलिखित का योग :-

- (i) निवास स्थान के लिए देय नगर पालिका कर, और
- (ii) भूमि की लागत सहित निवास स्थान की पूंजीगत लागत का 12% और यदि निवास स्थान किसी भवन का भाग है तो उतने भाग की भूमि के आनुपातिक हिस्से की पूंजीगत लागत, किंतु इसके अंतर्गत एयरकंडीशनर जैसे विशेष जुड़नार शामिल नहीं होंगे, या

(बी)

निवास स्थान के लिए नगरपालिका कर निर्धारण हेतु आंका गया वार्षिक किराया मूल्य.

स्पष्टीकरण:

(1) इस विनियम के प्रयोजन से “मानक किराया” अर्थात:-

- (ए) बैंक के स्वामित्व वाले निवास के मामले में मानक किराये की गणना सरकार में प्रवर्तमान ऐसी गणना की पद्धति के अनुसार की जाएगी.
- (बी) जहां कहीं निवास बैंक द्वारा किराये पर लिये जाते हैं, बैंक द्वारा देय संविदागत किराया या ऊपर (ए) में दर्शाई गई पद्धति के अनुसार आकलित किराया, इनमें से जो भी कम हो.

(2) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु ‘वेतन’ का अर्थ है-अवरोध वेतनवृद्धियां सहित मूल वेतन.

(3) 1 नवम्बर, 1994 से मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु, यथास्थिति, व्यावसायिक अर्हता भत्ता या व्यावसायिक अर्हता वेतन को गणना में लिया जाएगा.

(4) इस विनियम और विनियम 23 के उप-विनियम (1) एवं (2) के प्रयोजन हेतु, क्षेत्र I और क्षेत्र II से निम्न अभिप्राय है:-

- क्षेत्र - I - 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान
- क्षेत्र - II - वे सभी स्थान जो क्षेत्र I में शामिल नहीं किए गए हैं.

7. कथित विनियमों में विनियम 23 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

23 अन्य भत्ते :

- (1) 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से अधिकारी निम्नलिखित टेबल में दर्शाए गए अनुसार नगर प्रतिपूर्ति भत्ता पाने का पात्र होगा.

टेबल

स्थान	दरें
(1)	(2)
(ए) क्षेत्र-I और गोवा राज्य के स्थान	वेतन का 4.% अधिकतम रु.540/- प्रतिमाह
(बी) पांच लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पोंडिचरी और पोर्ट ब्लेयर जो ऊपर लिखित (ए) में नहीं आते हैं.	वेतन का 3.% अधिकतम रु.375/- प्रतिमाह
(सी) अन्य स्थान	शून्य

- (2) 1 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से विशेष एरिया भत्ते की दर इन विनियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी.
- (3) 1 नवंबर, 2002 को या उसके बाद से यदि कोई अधिकारी समूह ए या समूह बी के अंतर्गत आने वाले किसी प्रोजेक्ट क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है, तो वह समूह ए या समूह बी के रूप में क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रतिमास रुपये 210/- या रुपये 185/- की दर पर प्रोजेक्ट क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ता पाने का हकदार होगा.
- (4) 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद से यदि किसी अधिकारी का शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है और उसके एक या अधिक बच्चे हैं, जो पूर्व के स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वह बाद के स्थान पर रिपोर्ट करने की तारीख से सभी अध्ययनरत बच्चों के संबंध में शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक की अवधि हेतु रुपये 500/- प्रतिमास की दर पर मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते के लिए हकदार होगा.

परंतु यदि सभी बच्चे पूर्व के स्थान पर अध्ययन बंद करते हैं तो ऐसा भत्ता बंद कर दिया जायेगा.

- (5) 1 जून 2005 को और उसके बाद से, यदि किमी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है. विकल्पतः वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 7.75%, अधिकतम रु.1500/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते.

परंतु यदि उसे उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उनके वेतन का 4% अधिकतम रु.750/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा.

परंतु यह भी कि जिस अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु. 750/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा.

- (6) यदि किसी अधिकारी से कम से कम 7 दिन लगातार या महीने के दौरान कुल सात दिन किसी उच्चतर श्रेणी में किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य लिया जाता है तो उसे स्थानापन्न रूप में कार्य करने की अवधि के लिए उसके वेतन के 6% वेतन के समान स्थानापन्न अवधि हेतु आनुपातिक आधार पर स्थानापन्न भत्ता मिलेगा. स्थानापन्न भत्ते को भविष्य निधि एवं पेन्शन के लिए ही हिसाब में लिया जाएगा.

परंतु यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के तहत पदों के प्रवर्गीकरण के संपूर्ण पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप में कार्य करता है तो उसे प्रवर्गीकरण के पुनरीक्षण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ता नहीं मिलेगा.

- (7) यदि अधिकारी को किसी शाखा में तैनात किया जाता है जहां बहियां दिनांक 1 अप्रैल एवं 30 सितम्बर को बंद की जाती हैं, वह दो लेखाबंदी हेतु रुपये 250/- प्रत्येक की दर पर लेखाबंदी भत्ता पाने का हकदार होगा.

- (8) दिनांक 1 नवंबर, 2002 को एवं उसके बाद से यदि किसी अधिकारी के कामकाज के घंटे दिन में न्यूनतम दो घंटे के अंतराल पर बांट दिए जाते हैं, वहां वह अधिकारी रुपये 125/- प्रतिमाह की दर पर विभक्त (स्प्लिट) ड्यूटी भत्ता पाने का हकदार होगा.
- (9) यदि किसी अधिकारी को छुट्टी के किसी दिन वॉल्ट या लॉकर के अभिरक्षक के रूप में कार्य करना होता है तो वह उस दर पर दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा, जिसके लिए वह पात्र है.
- (10) 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से, अधिकारी नीचे दर्शाए गई टेबल के अनुसार पर्वत तथा ईंधन भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा :

टेबल

स्थान	दरें
(1)	(2)
(i) 3000 मीटर और उससे अधिक उंचाई वाले स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु. 1150/- प्रतिमाह
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम उंचाई वाले स्थान	वेतन का 2.5% अधिकतम रु. 500/- प्रतिमाह
(iii) 1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम उंचाई वाले स्थान और मडकारा नगर	वेतन का 2% अधिकतम रु.400/- प्रतिमाह

टिप्पणी :

- (ए) कम से कम 750 मीटर उंचाई पर स्थित स्थानों, जो उससे अधिक उंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हों और जिन तक पहुंचने के लिए 1000 मीटर या उससे अधिक उंचाई पार करनी पड़ती हो, पर तैनात अधिकारियों को 1000 मीटर और उससे अधिक उंचाई वाले केन्द्रों के लिए देय दर पर पर्वत और ईंधन भत्ता दिया जाएगा.
- (बी) उक्त वर्गीकरण के अंतर्गत न आनेवाले किसी भी केन्द्र में फिलहाल दिए जाने वाले पर्वत और ईंधन भत्ते समाप्त कर दिए जाएंगे.

परंतु यह भी कि जो अधिकारी 1 मई, 1989 से पूर्व ऐसे केन्द्र पर तैनात था और उस तारीख के बाद भी उसी केन्द्र पर तैनात रहता है तो उसे 30 अप्रैल, 1989 को मिल रहे भत्ते की प्रमात्रा संरक्षित की जाएगी और उसी वेतनमान में उस केन्द्र में उसके तैनात रहने तक प्रति माह अदा की जाएगी.

8. उक्त विनियमों में विनियम 24 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

24. चिकित्सा सहायता:

- (1) अधिकारी अपने लिए तथा उसके परिवार के संबंध में उसके द्वारा वास्तव में व्यय किए गए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा.

(ए) चिकित्सा व्यय: 1 फरवरी, 2004 को और उसके बाद से, अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे टेबल में विनिर्दिष्ट श्रेणी तथा प्रतिपूर्ति सीमा के अध्याधीन की जाएगी. इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाणपत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा:

टेबल

श्रेणी	प्रतिपूर्ति सीमा प्रतिवर्ष
कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी	रुपये 3750/- या व्यय की गई राशि - जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन तथा उच्च कार्यपालक श्रेणी	रुपये 5000/- या व्यय की गई राशि - जो भी कम हो

टिप्पणी-

- (i) अधिकारी को उसके द्वारा न ली गई चिकित्सा सहायता को उस सीमा तक संचयित करने की अनुमति दी जाएगी जो ऊपर उप बंधित अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक न हो.
- (ii) वर्ष 2004 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति 1 मास के लिए अर्थात् फरवरी 2004 से दिसंबर, 2004 तक आनुपातिक आधार पर बढ़ाई जाएगी.

स्पष्टीकरण: इस विनियम के उद्देश्य से किसी अधिकारी के परिवार से तात्पर्य होगा विनियम 3 के खंड (जी) में परिभाषित किए गए अनुसार परिवार.

- (बी) (i) जहां अस्पताल में भर्ती किया जाना आवश्यक हो ऐसे सभी मामलों में अधिकारी के मामले में 100% एवं उसके परिवार के सदस्य के मामले में 75% की सीमा तक अस्पताल प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी.

- (ii) 1 मई, 2005 को एवं उसके बाद से इस विनियम के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति कर्मकार कर्मचारी के लिए दिनांक 2 जून, 2005 के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत निर्धारित अस्पताल में भर्ती संबंधी योजना की शर्तों एवं नीचे टेबल में दर्शाई गई सीमा के अधीन होगी-

टेबल

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान I एवं मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II एवं III	<p>(i) बेड प्रभार स्वयं- रु. 600/ प्रतिदिन परिवार रु.450/- प्रतिदिन</p> <p>(ii) अन्य प्रभार कर्मकार कर्मचारी पर लागू अस्पताल में भर्ती संबंधी योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा के 125% के स्केल पर</p>
(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV एवं V तथा उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI एवं VII	<p>(i) बेड प्रभार स्वयं- रु. 800/ प्रतिदिन परिवार रु.600/- प्रतिदिन</p> <p>(ii) अन्य प्रभार कर्मकार कर्मचारी को लागू अस्पताल में भर्ती संबंधी योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा के 150% के स्केल पर</p>

- (2) ऊपर उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट किए गए चिकित्सा लाभों (अस्पताल में भर्ती सहित) एवं उसके पूर्णतः प्रतिस्थापन में चाहे जो भी हो, निदेशक मंडल नियत तारीख पर बैंक में जो उपलब्ध हो उन चिकित्सा लाभों को बिना किसी परिवर्तन के बनाए रखने का निर्णय कर सकता है और यदि निदेशक मंडल ऐसा निर्णय करता है तो सभी अधिकारी केवल चिकित्सा लाभों (अस्पताल में भर्ती आदि सहित) की मंजूरी हेतु नियत तारीख पर उपलब्ध शर्तों के अनुसार ही चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे.

(3) चिकित्सा सहायता एवं अस्पताल में भर्ती संबंधी सुविधा उन अधिकारियों को भी स्वीकार्य होंगी जो निलंबन के अंतर्गत हैं।

9. उपरोक्त विनियमों में विनियम 25 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ 25. रिहायसी आवास — (1) कोई अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा।

(2) किंतु, यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 01 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से, अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1.75% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा।

परंतु, जहां ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, वहां बैंक द्वारा अधिकारी से उसके वेतनमान, जिसमें वह रखा गया है, के प्रथम प्रक्रम के 0.4% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।

परंतु, जहां बैंक द्वारा ऐसा रिहायसी आवास उपलब्ध कराया जाता है जहां बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार संबंधित अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे।

10. उक्त विनियमों में विनियम 41 में, उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

(1) 2 जून, 2005 को और उसके बाद से अधिकारी ड्यूटी पर यात्रा करने के दौरान निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा, अर्थात्:-

I. कनिष्ठ श्रेणी का अधिकारी रेल से प्रथम श्रेणी या ए सी 2 टायर स्लीपर में यात्रा करने का हकदार है। तथापि, वह हवाई जहाज से (इकोनोमी श्रेणी) में यात्रा कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी व्यवसाय की आकस्मिकताओं या लोक-हित की दृष्टि से ऐसी अनुमति देता है।

- II. मध्य प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी ट्रेन से प्रथम श्रेणी या ए सी 2 टायर स्लीपर में यात्रा करने का हकदार है या वह हवाई जहाज (इकोनोमी श्रेणी) से यात्रा कर सकता है, यदि यात्रा 1000 कि.मी. से अधिक हो. परंतु यदि सक्षम प्राधिकारी व्यवसाय की आकस्मिकताओं या लोक-हित की दृष्टि से ऐसी अनुमति देता है तो वह कम दूरी के लिए भी हवाई यात्रा कर सकता है.
- III. वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी ए सी प्रथम श्रेणी या हवाई जहाज (इकोनोमी श्रेणी) से यात्रा करने का हकदार है.
- IV. वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी जो ऐसे स्थान की यात्रा करता है जो हवाई यात्रा या रेल से जुड़े हुए न हो, कार से यात्रा कर सकता है, बशर्ते अंतर 500 कि.मी. से अधिक न हो और जब दो स्थानों के बीच के अंतर के अधिकांश हिस्से की यात्रा हवाई जहाज या रेल से और केवल बाकी का अंतर सामान्यतया कार द्वारा कवर किया जा सकता है.
- V. अन्य किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय की आकस्मिकताओं के संबंध में उसके अपने वाहन से या टेक्सी से या बैंक के वाहन से यात्रा करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है.

उप विनियम 4 में खंड (ए) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा, अर्थातः

4 (ए) विराम भत्ता- अधिकारी 01 जून 2005 को और उसके बाद से, नीचे टेबल में दर्शाए गए अनुसार प्रतिदिन विराम भत्ता पाने का हकदार होगा:

अधिकारियों की श्रेणी/ वेतनमान	प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
(1)	(2)		
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	रु. 600	रु. 550	रु.500
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	रु. 550	रु. 500	रु.400

परंतु वेतनमान IV एवं उससे ऊपर के अधिकारी के मामले में चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में आउट स्टेशन कार्य हेतु प्रतिदिन विराम भत्ता रु. 700 देय होगा.

परंतु यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम, किंतु 4 घंटे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा.

स्पष्टीकरण

विराम भत्ते की संगणना के लिए “प्रतिदिन” का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विराम यात्रा के मामलों में रिपोर्ट करने के समय तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी. यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो “प्रतिदिन” से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटे से कम न हो.

11. कथित विनियमों में विनियम 42 में उप विनियम (3) के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3) 1 अप्रैल 1997 को एवं उसके बाद से अधिकारी स्थानांतरण पर पैकिंग, स्थानीय परिवहन, बैगेज का बीमा इत्यादि से संबद्ध व्यय के लिए नीचे टेबल में दर्शाए गए अनुसार एकमुश्त राशि आहरित करने का हकदार होगा, अर्थात्:-

टेबल

श्रेणी	एकमुश्त राशि
उच्च प्रबंधन एवं वरिष्ठ प्रबंधन	रु. 5,000.00
मध्य प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन	रु. 4,000.00

परंतु 1 मई 2005 को एवं उसके बाद से इस उप विनियम के प्रावधानों में ऐसा प्रभावित होगा, जैसे शब्द एवं अंक रु. “5000” एवं रु. “4000” क्रमशः “8750” एवं रु. “7000” से प्रतिस्थापित किए गए हों.

12. कथित विनियमों में विनियम 44 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

44 छुट्टी यात्रा रियायत:

- (1) चार वर्षों के प्रत्येक खंड के दौरान अधिकारी दो वर्षों के प्रत्येक खंड में एक बार अपने गृह नगर (होम टाउन) की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा का पात्र होगा। विकल्पतः वह दो वर्षों के एक खंड में अपने गृह नगर और दूसरे खंड में भारत में किसी भी स्थान की सबसे कम दूरी के मार्ग में यात्रा कर सकता है।
- (2) अधिकारी यथास्थिति चार वर्ष एवं 2 वर्षों के किसी ब्लॉक के दौरान किसी भी समय विकल्प का प्रयोग करते हुए छुट्टी यात्रा रियायत (गृह नगर की यात्रा के अलावा) का परित्याग कर सकता है और उस सीमा तक नकदीकरण ले सकता है, जिसके लिए वह क.प्र.श्रे/व. एवं म प्र श्रे व II और III के लिए 4500 कि.मी (एक तरफा) तथा म प्र श्रे में IV एवं उच्च श्रेणी के लिए 5500 कि. मी. (एक तरफा) तक के अंतर के लिए (ट्रेन से यात्रा हेतु) उसकी पात्रता के अनुसार किराये के 75% की राशि के बराबर की राशि प्राप्त कर सकता है और अपनी छुट्टी यात्रा रियायत के नकदीकरण का विकल्प चुनने के लिए यह सुविधा लेते समय उस ब्लॉक या अवधि में एक बार दावा कर सकता है तथा ऐसी छुट्टी यात्रा रियायत के नकदीकरण का लाभ उठाने के साथ विशेषाधिकृत छुट्टी का लाभ भी उठा सकता है।
- (3) छुट्टी किराया सुविधा के लिए अधिकारी उसी साधन और श्रेणी का उपयोग कर सकता है जिससे कि वह स्थानांतरण पर यात्रा करने का पात्र है और अधिकारी द्वारा छुट्टी किराया सुविधा के उपयोग की अन्य शर्तें एवं निबंधन निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निश्चित निबंधन एवं शर्तें होंगी।
- (4) चार वर्ष में एक बार जब अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाता है, तब उसे एक बार में 30 दिनों तक की उसकी विशेषाधिकृत छुट्टियों को अभ्यर्पित करने एवं उनका नकदीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है या जब वह दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने गृहनगर या अन्य ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान पर यात्रा करता है, उसे प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 15 दिनों या एक ब्लॉक में 30 दिनों तक की विशेषाधिकृत छुट्टियों के नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है और छुट्टी नकदीकरण के प्रयोजन से जिस मास के दौरान वह छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाता है, उस मास के लिए उसे दये सभी परिलब्धियां स्वीकार्य होंगी।

परंतु अधिकारी को अपने विकल्प से प्रधानमंत्री राहत निधि में दान देने हेतु एक दिन की अतिरिक्त विशेषाधिकृत छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति होगी, बशर्ते वह यह राशि निधि में भेजने हेतु प्राधिकृत करते हुए इस आशय का पत्र बैंक को देता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 की अनुसूची

(विनियम 23 का उप विनियम (2) देखें)

1 नवम्बर 2002 को एवं उसके बाद अधिकारी नीचे टेबल में दर्शाए गए अनुसार, उस समय तक विशेष क्षेत्र भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, जब तक कि ये वापिस नहीं ले लिए जाते अथवा पूर्णतः या अंशतः परिवर्तित नहीं किए जाते हैं, अर्थात:-

टेबल

क्रम सं.	वे स्थान, जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
1	मिजोरम (क) मिजोरम का चमटुईपुई जिला तथा मिजोरम के लुंगलेई जिले के लुंगलेई शहर से 25 किमी से अधिक दूरी वाले क्षेत्र (ख) पूरे लुंगलेई जिले में, लुंगलेई शहर से 25 किमी से दूर वाले क्षेत्र छोड़कर (ग) मिजोरम का पूरा आइजवाल जिला	रु. 1000 800 600	रु. 1300 1050 750
2	नागालैण्ड	800	1050
3	अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह (क) दक्षिण अंदमान (पोर्ट ब्लेयर सहित) (ख) उत्तर एवं मध्य अंदमान, लिटल अंदमान तथा नार्कोण्डम द्वीप समूह	800 1000	1050 1300
4	सिक्किम	1000	1300
5	लक्ष्य द्वीप द्वीप समूह	1000	1300
6	असम	160	200
7	मेघालय	160	200

क्रम सं.	वे स्थान, जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
8	त्रिपुरा		
	(क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	800	1050
	(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर पूरा त्रिपुरा	600	750
9	मणिपुर	600	750
10	अरुणाचल प्रदेश		
	(क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	1000	1300
	(ख) दुर्गम क्षेत्र के अलावा समस्त अरुणाचल प्रदेश	800	1050
	11 जम्मू एवं कश्मीर		
	(1) कठुआ जिला		
	(क) नियाबत बानी	1000	1300
	(ख) लोही		
	(ग) मलहार		
	(घ) मक्चोड़ी		
	2. (ए) उधमपुर जिला		
	(i) दादू बसंतगढ़	1000	1300
	(ii) लेंडर भमाग इलाका		
	(iii) ठकराकोटे		
	(iv) नगोटे		
	(बी) 2(सी) में शामिल किए गए क्षेत्रों को छोड़ कर तहसील महोर के सभी क्षेत्र	1000	1300
	(सी) कम्बन की ओर से गोयल तक तथा कीसू की ओर से अरनास तक के तहसील मोहरे के क्षेत्र	800	1050

क्रम सं.	वे स्थान, जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
	(3) डोडा जिला (क) किश्तवार तहसील में पाडेर एवं नियाबत नौगाम	1000	1300
	(4) लेह जिला लेह जिले के सभी स्थान	1000	1300
	(5) बारामुला जिला (क) समस्त गुरेज-नियाबत, तंगदार सब डिविजन तथा केरन इलाका (ख) मचिल	1000	1300
	(6) पुंछ तथा राजौरी जिला पुंछ और राजौरी नगरों को छोड़कर अन्य क्षेत्र तथा सुंदरबनी तथा अन्य शहरी क्षेत्र	800	1050
	(7) उपरोक्त (1) से (6) के अलावा अन्य क्षेत्र जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी. से कम दूरी पर है या वह क्षेत्र जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा उनके स्टाफ के लिये बार्डर भत्ते के रूप में घोषित किया जाता है	600	750
12	हिमाचल प्रदेश 1.चंबा जिला 1 (ए) पांगी तहसील 1.(बी) भरमौर तहसील के निम्नलिखित पंचायत एवं गांव (i) पंचायत:बड़गांव, बजोल, देवल कुगती, नायगांव एवं तुंडाह	1000 800 1	1300 1050

क्रम सं.	वे स्थान, जहाँ भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
	(ii) गांव: ग्राम पंचायत जगत का घाटु, ग्राम पंचायत चुहाटा का कनारसी		
	2. ऊपर भाग I बी में शामिल पंचायत एवं गावों को छोड़ कर भारमोर तहसील		
	3. भटियाट तहसील में झांदरु पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी शहर (वानीखेत खाश सहित)	600	750
	(2) किन्नौर जिला:		
	(ए) असरांग, चितकुल एवं हैंगोकुनो/चारंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिनमें छोटा खम्वा, नाथपा एवं रुपी, पूह सब डिविज़न, शामिल है, ऊपर दर्शाए गए पंचायत क्षेत्रों को छोड़ कर.	1000	1300
	(बी) ऊपर (ए) में शामिल क्षेत्रों को छोड़ कर पूरा जिला	600	750
	(3) कुल्लु जिला		
	3(ए) निरमंद तहसील के 15/20 क्षेत्र, जिनमें खारगा, कुश्वार एवं सारगा की ग्राम पंचायतें शामिल हैं	1000	1300

क्रम सं.	वे स्थान, जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
	3(बी) आउटर-सेरज (निरमंद तहसील के जकात- खाना एवं बुरोव गांवों को छोड़ कर) एवं पूरा जिला (आउटर सेरज क्षेत्र एवं पंदरबीस परगना को छोड़ कर परंतु निरमंद तहसील के जकात-खाना एवं बुरोव गांव सहित)	600	750
	(4) लाहौल एवं स्पिती जिला: लाहौल एवं स्पिती जिले के समस्त क्षेत्र	1000	1300
	(5) शिमला जिला: (ए) कूट, लवाना-सदाना, सारपारा एवं चदी-ब्रांदा पंचायत सहित रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र	1000	1300
	(बी) दोन्डा-कवार तहसील, रामपुर में दारकली ग्राम पंचायत काशापाठ तहसील एवं परगना सारहान के मुनिश, घोरी एवं चैबिस	800	1050
	(सी) चोपल तहसील एवं घोरिस, पंजगांव, पत्सनौ, नौबिस एवं तीन कोटी ऑफ परगना सारहन, तकलेश क्षेत्र की देओठी ग्राम पंचायत, परगना बाराबीस, रामपुर तहसील के परगना रामपुर का कस्बा रामपुर एवं घोरी एनओजी, शिमला शहर एवं सबर्ब (धल्ली, जतोग, कसुम्पति, मासोब्रा, तारादेवी एवं दूहू	600	750

क्रम सं.	वे स्थान, जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
	(6) कांगड़ा जिला:		
	(ए) बारा भांगल एवं छोटा भांगल के क्षेत्र	800	1050
	(बी) कांगड़ा जिले का धरमशाला शहर एवं निम्नलिखित कार्यालय जो म्यूनिसिपल सीमा से बाहर हैं परंतु धरमशाला शहर में शामिल किए गए हैं: महिला आईटीआई, दारी, मेकंसिया वर्कशॉप, रामनगर, चाइल्ड वेलफेयर एवं टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय, साकोह, कांगड़ा मिल्क सप्लाय स्कीम, दुगियार, एच आर टी सी वर्कशॉप, साधेर, ज़ोनल मलारिया ऑफिस, दारी, फॉरेस्ट कांफॉरमेशन ऑफिस, शामनगर, टी फैक्टरी, दारी आईपीएच सब डिविज़न, दान सेटलमेंट ऑफिस, शामनगर, बिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर, ऑफिस, जेरसी फार्म, बनुरी, सेरीकल्चर, ऑफिस/इंडो-जर्मन एग्रिकल्चर वर्कशॉप/एचपीपीडबल्यूडी डिविज़न, बुंदला, इलेक्ट्रिक सब डिविज़न, लोहना, डीपीओ, कांफॉरमेशन, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एचपीएसईई डिविज़न, घुग्गर	600	750
	(7) मंडी जिला		
	छुहार वेली ऑफ जोगिन्दरनगर तहसील, थुंग पंचायत	600	750

क्रम सं.	वे स्थान, जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
	तहसील-बागरा, चत्री, छोटधार गरागुसैन, गदहू, गरयास, जानेहिल, जरयार, जोहर, कल्हनी, कलवां, खोलनाल, लोठ, सिलिबागी, सोमचन, थचधार, ताची, थाना, धर्मपुर ब्लॉक-विन्गा पंचायत. कमलाह, सकलाना, तन्यार ताराखोलाह, पंचायत-कारसोग, तहसील बलीधर, बागरा, गोपालपुर, खाजोल, महोग, मेहुडी, मंज पेखी साइंज, सरहान एवं तेवान, पंचायत-सुंदरनगर, तहसील-बोही, बटवारा, धनयारा, पौरा, कोठी, सेरी एवं शोजा		
	(8) तिरमौर जिला:		
	(ए) वानी, बखाली पंचायत (पछाड तहसील), भारोग, भेनेरी (पौंता तहसील), बिरला (नाहन तहसील) दिब्बर (पछाड तहसील) एवं थाना कसोगा (नाहन तहसील)	600	750
	(बी) थंसगिरि ट्रैक्ट		
	(9) सोलन जिला:	600	750
	मंगल पंचायत		
	(10) ऊपर (1) से (9) में शामिल नहीं हैं ऐसे बाकी के सभी क्षेत्र	160	200

क्रम सं.	वे स्थान, जहाँ भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
13	उत्तर प्रदेश: चमोली, . पिथौरगढ़ और उत्तरकाशी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 2(ए) जिला पिथौरगढ़ और उत्तरकाशी के अन्य क्षेत्र (उत्तरकाशी के जिला मुख्यालयों सहित) 2(बी) चंपावत जिला (लोहाघाट के क्षेत्र सहित)	1000	1300
14	उत्तरांचल: रुद्रप्रयाग एवं चंपावत जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	800	1050

टिप्पणी: मुख्य विनियम सरकारी राजपत्र में दि.

को प्रकाशित हुए थे.

बाद के संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा अधिसूचित किए गए:

क्रम सं

राजपत्र अधिसूचना सं.

तारीख

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

इंडियन बैंक

चेन्नै, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंडियन बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्वारा इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 में पुनः संशोधन कर निम्नांकित विनियम बना रहा है :

1. (1) ये विनियम इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियमन, 2010 कहलाएँगे।
- (2) सम्बन्धित विनियम में जहाँ कहीं अन्यथा कहा जाए के अतिरिक्त ये विनियमन 02 जून 2005 से लागू होंगे।
2. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 में (यहाँ इसके पश्चात् कथित विनियमन कहे जाएँगे) विनियम 3 में,—
 - (i) धारा (जी) के लिए, निम्नांकित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः,—
 ‘(जी) “परिवार” का तात्पर्य अधिकारी की पत्नी/पति (जो बैंक का/की कर्मचारी नहीं है), पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (आश्रित सौतेले और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित) और अधिकारी के साथ सामान्यतः रहने वाले और पूर्णतः आश्रित माता-पिता से है;’
 - (ii) धारा (ओ) के लिए, निम्नांकित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—
 ‘(ओ) “पूर्णतः आश्रित बच्चे अथवा माता-पिता” का तात्पर्य ऐसे बच्चे अथवा माता-पिता से है जिनकी प्रति माह आय रु.2,550 से अधिक न हो’

ध्यान दें : यदि माता-पिता में से किसी भी एक की प्रति माह आय रु.2,550 से अधिक होती है अथवा माता-पिता दोनों की कुल आय प्रति माह रु.2,550 से अधिक हो जाती है तो माता-पिता दोनों ही कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माने जाएँगे।

3. कथित विनियमन में, विनियम 4 में, उप-विनियम (4) के लिए निम्नांकित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः:

“(4) नवम्बर 2002 के प्रथम दिन को और उससे प्रत्येक ग्रेड के समक्ष उल्लिखित वेतन के वेतनमान निम्नवत् होंगे :—

(क) उच्च कार्यपालक ग्रेड :

$$\text{वेतनमान VII} = \text{₹. } 29340 - \frac{680}{2} - 30700 - \frac{900}{1} - 31600 - \frac{1000}{1} - 32600$$

$$\text{वेतनमान VI} = \text{₹. } 26620 - \frac{680}{4} - 29340$$

(ख) वरिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड :

$$\text{वेतनमान V} = \text{₹. } 24140 - \frac{620}{4} - 26620$$

$$\text{वेतनमान IV} = \text{₹. } 20480 - \frac{560}{1} - 21040 - \frac{620}{5} - 24140$$

(ग) मध्यम प्रबन्ध ग्रेड :

$$\text{वेतनमान III} = \text{₹. } 18240 - \frac{560}{5} - 21040 - \frac{620}{2} - 22280$$

$$\text{वेतनमान II} = \text{₹. } 13820 - \frac{500}{1} - 14320 - \frac{560}{10} - 19920$$

(घ) कनिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड :

$$\text{वेतनमान I} = \text{₹. } 10000 - \frac{470}{6} - 12820 - \frac{500}{3} - 14320 - \frac{560}{7} - 18240$$

ध्यान दें : प्रत्येक अधिकारी को, जो 31 अक्टूबर 2002 को प्रवृत्त वेतनमानों द्वारा प्रशासित होता है, 01 नवम्बर 2002 को इस उप-विनियम में निर्दिष्ट वेतनमान में चरण दर चरण आधार पर रखा जाएगा अर्थात् सम्बन्धित वेतनमानों में पहले चरण से लेकर संगत चरणों में रखा जाएगा और वार्षिक वेतनवृद्धियाँ, सामान्य तौर पर, जहाँ कहीं अन्यथा दी जानी हों, को छोड़कर वार्षिक तारीख को दी जाएगी ;

(4क) उप विनियम (1), (2), (3) और (4) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक से यह अपेक्षा है कि वह हर समय इन सभी ग्रेडों में सेवा करने वाले अधिकारी रखे।”

4. कथित विनियम में, विनियम 5 के लिए निम्नांकित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :

“5. वेतन वृद्धियाँ :- (1) विनियम 4 के उप-विनियम (4) के प्रावधानों के अधीन 01 नवम्बर 2002 को और इस तारीख से निम्नांकित शर्तों के अधीन वेतनवृद्धियाँ प्रदान की जाएँगी, यथा,

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (4) में निर्धारित किए गए वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियाँ, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन रहते हुए, वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वह उस मास की पहली तारीख को प्रदान की जाएँगी, जिसमें वह देय होती हैं।

(ख) वेतनमान I तथा वेतनमान II के अधिकारियों को, अपने वेतनमानों में अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष पश्चात् नीचे दी गई धारा (ग) में किए गए उल्लेख के अनुसार स्थिर वेतनवृद्धियों (स्टैगनेशन इनक्रीमेंट्स) सहित और वेतनवृद्धियाँ अगले उच्चतर वेतनमान (स्केल) में ही दी जाएँगी, बशर्ते कि उन्होंने सरकार के अनुदेशों के अनुसार दक्षता अवरोध को पार कर लिया हो।

(ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) में बताए गए अधिकारियों सहित ऐसे अधिकारी जो मध्यम प्रबन्ध ग्रेड II और III के अधिकतम स्तर पर पहुँच गए हैं, वेतनमान II अथवा III, जैसी भी स्थिति हो, के अन्तिम चरण पर पहुँचने के पश्चात् सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए तीन वर्षों के लिए स्थिर वेतनवृद्धि (याँ) पाएँगे, जो कि वेतनमान II के अन्तिम चरण में पहुँच चुके अधिकारियों के लिए रु.560/- की अधिकतम ऐसी दो वेतनवृद्धियों तथा वेतनमान III के अन्तिम चरण में पहुँच चुके अधिकारियों के लिए रु.620/- की ऐसी एक वेतनवृद्धि के अधीन होगी।

परन्तु यह तब जबकि दिनांक 01 नवम्बर 1994 को तथा इस तारीख से वेतनमान III के अधिकारी, जिनकी भर्ती अथवा पदोन्नति वेतनमान III में हुई है, पहली स्थिर वेतनवृद्धि मिलने के तीन वर्ष पश्चात् दूसरी स्थिर वेतनवृद्धि के पात्र होंगे।

किन्तु यह और भी कि अधिकारी को, जो पदोन्नति लेने से इंकार कर देता है, अगले उच्च वेतनमान/स्थिर वेतनवृद्धियों में ऐसी वेतनवृद्धि की अनुमति नहीं होगी।

ध्यान दें : ऐसी वेतनवृद्धियाँ अगले उच्च वेतनमानों में देने से पदोन्नति नहीं मानी जाएगी। अधिकारी ऐसी वेतनवृद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी अपने वास्तविक वेतनमान I या वेतनमान II, जैसी भी स्थिति हो, के अनुरूप अधिकार, परिलब्धियाँ, कर्त्तव्य, जिम्मेदारियाँ या पदों को निरंतर प्राप्त करते रहेंगे।

(2) भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणपत्रित एसोशिएट की परीक्षा (सीएआईआईबी)/भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के कनिष्ठ एसोशिएट के भाग I तथा भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणपत्रित एसोशिएट की परीक्षा के भाग II को उत्तीर्ण करने पर प्रत्येक परीक्षा के लिए एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि उनके वेतनमान में दी जाएगी।

स्पष्टीकरण (अ) यदि किसी अधिकारी ने सीएआईआईबी परीक्षा के भाग I अथवा भाग II को एक अधिकारी के रूप में नियत तारीख से पहले उत्तीर्ण कर लिया है तो अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियाँ, यथास्थिति, नियत तारीख से दी जाएँगी, बशर्ते कि उन्हें कथित परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई भी वेतनवृद्धि न मिली हो अथवा सिर्फ एक वेतनवृद्धि मिली हो।

(आ) नवम्बर 1987 के प्रथम दिन को या उस दिन से जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँच गए हैं और पदोन्नति के अलावा आगे जाने में असमर्थ हैं तो सरकारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अधीन उन्हें अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के बदले में व्यावसायिक योग्यता भत्ता प्रदान किया जाएगा, जो कि निम्नलिखित सारणी में निर्धारित है :-

सारणी

वे लोग जिन्होंने सीएआईआईबी की सिर्फ भाग I परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।	i. 100 रुपए प्रति माह, जिसके एक वर्ष पश्चात् 75 रुपए अधिवार्षिकी प्रसुविधाओं के लिए होंगे।
वे लोग जिन्होंने सीएआईआईबी के दोनों भागों की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।	i. 100 रुपए प्रति माह, जिसके एक वर्ष पश्चात् 75 रुपए अधिवार्षिकी प्रसुविधाओं के लिए होंगे।
	ii. 250 रुपए प्रति माह, जिसके दो वर्ष पश्चात् 200 रुपए अधिवार्षिकी प्रसुविधाओं के लिए होंगे।

(इ) नवम्बर 1994 के प्रथम दिन को या उस दिन से अन्य बातें एक समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता भत्ते की मात्रा निम्नलिखित सारणी में जैसे निर्धारित की गयी है, संशोधित होगी।

सारणी

वे लोग जिन्होंने सीएआईआईबी की सिर्फ भाग I परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।	i. वेतनमान के उच्चतम स्तर तक पहुँचने पर एक वर्ष के बाद 120 रुपए प्रति माह।
वे लोग जिन्होंने सीएआईआईबी के दोनों भागों की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।	i. वेतनमान के उच्चतम स्तर तक पहुँचने पर एक वर्ष के बाद 120 रुपए प्रति माह।
	ii. वेतनमान के उच्चतम स्तर तक पहुँचने पर दो वर्ष के बाद 300 रुपए प्रति माह।

बशर्ते कि ऐसे अधिकारी जो नियमन 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (आ) की शर्तों के अनुसार नियत व्यक्तिगत भत्ता आहरित करने के पात्र हैं, वे यथा स्थिति, भाग I और भाग II के लिए क्रमशः ऐसे नियत व्यक्तिगत भत्ते की प्राप्ति के एक/दो वर्ष पश्चात् व्यावसायिक योग्यता भत्ता आहरित करेंगे।

(ई) नवम्बर 1999 के प्रथम दिन को या उस दिन से, अन्य बातें एक समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की मात्रा निम्नलिखित सारणी में जैसे निर्धारित हैं, संशोधित होगी।

सारणी

जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान की कनिष्ठ एसोशिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या सीएआईआईबी का भाग I उत्तीर्ण कर लिया है।	i. वेतनमान के उच्चतम स्तर तक पहुँचने पर एक वर्ष के बाद रु.150/- प्रति माह
जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान की कनिष्ठ एसोशिएट परीक्षा और सीएआईआईबी अथवा सीएआईआईबी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं।	i. वेतनमान के उच्चतम स्तर तक पहुँचने पर एक वर्ष के बाद रु.150/- प्रति माह ii. वेतनमान के उच्चतम स्तर तक पहुँचने पर दो वर्ष के बाद रु.360/- प्रति माह

बशर्ते कि ऐसे अधिकारी जो वेतनमान I और वेतनमान II में हैं और जिन्हें उप-नियमन (1) के खण्ड (आ) के अनुसार अगले उच्चतम वेतनमान में आगे की वेतनवृद्धियाँ दी गयी हैं, वे ऐसे उच्चतम वेतनमान में अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक या दो वर्षों के बाद, यथास्थिति, व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त करेंगे।

(उ) नवम्बर 2002 के प्रथम दिन को या उस दिन से अन्य बातें एक समान होने पर, व्यावसायिक वेतन की मात्रा निम्नलिखित सारणी में जैसे निर्धारित हैं, संशोधित होगी ।

सारणी

जिन्होंने जेएआईआईबी अथवा सीएआईआईबी का भाग I उत्तीर्ण कर लिया है।	i. वेतनमान के उच्चतम स्तर तक पहुँचने पर एक वर्ष के बाद रु.300/- प्रति माह
जिन्होंने सीएआईआईबी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं।	i. वेतनमान के उच्चतम स्तर तक पहुँचने पर एक वर्ष के बाद रु.300/- प्रति माह ii. वेतनमान के उच्चतम स्तर तक पहुँचने पर दो वर्ष के बाद रु.750/- प्रति माह

बशर्ते कि ऐसे अधिकारी जो वेतनमान I तथा वेतनमान II में हैं और जिन्हें उप विनियम (1) के खण्ड (आ) में बताए गए अनुसार अगले उच्च वेतनमान में अगली वेतन वृद्धियाँ प्रदान की गई हैं, वे ऐसे उच्चतर वेतनमानों में अधिकतम स्तर पर पहुँचने पर एक अथवा दो वर्षों के बाद, यथास्थिति, व्यावसायिक योग्यता वेतन आहरित करेंगे।

नोट:(i) जब कोई अधिकारी जो व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त कर रहा है, अगले उच्चतम वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है, उन्हें ऐसे उच्चतम वेतनमान में योग्यता पर भारतीय बैंकर संस्थान के कनिष्ठ एसोशिएट/भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोशिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने हेतु वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ प्रदान की जाएँगी तथा वेतनमान में वेतनवृद्धियाँ प्राप्त न होने पर वेतनवृद्धि(यों) के बदले व्यावसायिक योग्यता वेतन के लिए पात्र रहेंगे ।

(ii) नवम्बर 1994 की प्रथम तारीख को या उस दिन से व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन, जो भी स्थिति हो, महंगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता और अधिवार्षिकी सुविधाओं के लिए पात्र रहेंगे।

(iii) यदि कोई अधिकारी पदोन्नति देने पर उसे स्वीकार नहीं करता है तो वह उपर्युक्त व्यावसायिक योग्यता वेतन का पात्र नहीं होगा

(iv) जब कोई अधिकारी भारतीय बैंकर संस्थान के कनिष्ठ एसोशिएट या भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणपत्रित एसोशिएट की योग्यता वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के उपरांत प्राप्त करता है, उन्हें ऐसी योग्यता प्राप्त होने की दिनांक से व्यावसायिक योग्यता वेतन की प्रथम किस्त प्रदान की जाएगी तथा व्यावसायिक योग्यता वेतन की उत्तरवर्ती किस्त का विमोचन, व्यावसायिक योग्यता वेतन की प्रथम किस्त के जारी होने की तारीख से किया जाएगा ।

v) अगर किसी अधिकारी ने जून 2005 के द्वितीय दिन को खण्ड (iv) में संदर्भित योग्यताओं में किसी एक को पहले ही प्राप्त किया है तथा ऐसी योग्यताएँ प्राप्त करने पर उनको व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई भी वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं हुई तो, उन्हें नवम्बर 2002 की प्रथम तारीख से या ऐसी योग्यताएँ प्राप्त होने की तारीख से, जो भी बाद की हो, उपर्युक्त के अनुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन प्रदान किया जाएगा।

3(क) ऐसे सभी अधिकारी जो नवम्बर 1993 के प्रथम दिन को बैंक की स्थायी सेवा में हैं, उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त होगी तथा जो अधिकारी नवम्बर 1993 के प्रथम दिन को परिवीक्षा में हैं, उन्हें सेवा में स्थायी होने के एक वर्ष के बाद एक अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त होगी।

नोट: अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) ऐसे अधिकारी जो वेतनमान के उच्चतम स्तर पर हैं या जो नवम्बर 1993 के प्रथम दिन को स्थिर वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहे हैं, नवम्बर 1993 के प्रथम दिन से नियत वैयक्तिक भत्ता आहरित करेंगे, जो नवम्बर 1993 के प्रथमदिन को पिछले वेतनवृद्धि के समान रकम जोड़ बाद में देय महंगाई भत्ता जोड़ गृह किराया भत्ता ऐसी दरों पर जो नियमन 22 के शर्तों में लागू हैं तथा नियत वैयक्तिक भत्ता तथा गृह किराया भत्ता यदि हो जैसे सारणी में निर्धारित है वही होगी जब तक संशोधन नहीं किया जाता।

सारणी

वेतनवृद्धि संघटक	वेतनवृद्धि संघटक पर दिनांक 01.11.1993 को महंगाई भत्ता	कुल नियत वैयक्तिक भत्ता जहाँ पर बैंक का आवास प्रदान किया गया है।
(अ) रु.	(ब) रु.	(स) रु.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

(ग) नवम्बर 1999 के प्रथम दिन को और उस दिन से अन्य बातें एक समान होने पर, गृह किराया भत्ता यदि कोई हो तो उसको जोड़ते हुए नियत व्यक्तिगत वेतन, निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए अनुसार होगा।

सारणी

वेतनवृद्धि संघटक	वेतनवृद्धि संघटक पर दिनांक 01.11.1997 को महंगाई भत्ता	देय कुल नियत व्यक्तिगत भत्ता जहाँ पर बैंक का आवास प्रदान किया गया है।
(अ) रु.	(ब) रु.	(स) रु.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

(घ) नवम्बर 2004 के प्रथम दिन को और उस दिन से अन्य बातें समान होने पर, नियत व्यक्तिगत वेतन, गृह किराया भत्ता यदि कोई हो तो उसको जोड़ते हुए निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए अनुसार होगा तथा सम्पूर्ण सेवा काल के लिए स्थिर रहेगा।

सारणी

वेतनवृद्धि संघटक	वेतनवृद्धि संघटक पर दिनांक 01.11.2002 को महंगाई भत्ता	कुल नियत व्यक्तिगत वेतन जहाँ पर बैंक की आवास प्रदान किया गया है।
(अ) रु.	(ब) रु.	(स) रु.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

नोट: (i) जिन अधिकारियों को बैंक का आवास दिया गया है, उन्हें विनियम (5) के उप-विनियम(3) के खण्डों (ख), (ग) और (घ) के स्तम्भ (स) के अन्तर्गत दर्शाए गए अनुसार नियत व्यक्तिगत भत्ता/नियत व्यक्तिगत वेतन देय होगा।

(ii) गृह किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए नियत व्यक्तिगत भत्ता/नियत व्यक्तिगत वेतन, विनियम 4 के उपनियमन (2) और (3) में यथा निर्धारित संगत वेतनमान के वेतनवृद्धि संघटक पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आहरित नियमन 5 के उपनियमन (3) के खंड (ख), (ग) और (घ) में यथा विनिर्दिष्ट (अ)+(ब)+गृह किराया भत्ता अर्जित होगा।

(iii) नवंबर 1999 के प्रथम दिन को और उस दिने से नियत व्यक्तिगत वेतन के विमोचन के कारण उप-विनियम (क) स्पष्टीकरण (सी) के अनुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन के विमोचन की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

बशर्ते कि जहाँ किन्हीं पूर्व के उपबंधों के कारण किसी व्यावसायिक योग्यता वेतन की किस्त को एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया है तथा उसका विमोचन नवंबर 1999 की प्रथम तारीख को या उसके बाद किया जानेवाला है तो इस तारीख से उसका विमोचन किया जाएगा और व्यावसायिक योग्यता वेतन की द्वितीय किस्त, यदि हो, का विमोचन नवंबर 2000 की प्रथम तारीख को किया जाएगा।

(iii) नियत व्यक्तिगत वेतन / नियत व्यक्तिगत भत्ते का वेतनवृद्धि घटक, अधिवर्षिता के लाभों के लिए शामिल किया जाएगा।

(ड) कोई अधिकारी, जिन्होंने क्लाज़ (क) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि अर्जित की है, उस वेतनमान में अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष के बाद ऊपर क्लॉज़ (ख), (ग) या (घ) में उल्लिखित अनुसार नियत व्यक्तिगत भत्ता / नियत व्यक्तिगत वेतन आहरित करेंगे।

5. कथित विनियमनों में विनियम 21 में उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम को लगाया जाएगा, यथा :

“(4) नवंबर 2002 के प्रथम दिन को और उससे महंगाई भत्ता योजना निम्नवत् होगी :-

(क) अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) बेस 1960 = 100 के तिमाही औसत में 2288 प्वाइंटों से अधिक या कम पड़नेवाले प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए महंगाई भत्ता अदा किया जाएगा।

(ख) नवंबर 2002 के प्रथम दिन से जनवरी 2005 के 31 वें दिन तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित दरों पर महंगाई भत्ता अदा किया जाएगा :

- (i) रु.9.650 प्लस तक “वेतन” का 0.18 प्रतिशत
- (ii) रु.9.650 से अधिक और रु.15.350 प्लस तक “वेतन” का 0.15 प्रतिशत।
- (iii) रु.15.350 से अधिक और रु.16.350 प्लस तक “वेतन” का 0.09 प्रतिशत।
- (iv) रु.16.350 से अधिक के लिए “वेतन” का 0.04 प्रतिशत।

(ग) फरवरी 2005 के प्रथम दिन को और उससे वेतन के 0.18 प्रतिशत पर महंगाई भत्ता देय होगा।

नोट (अ) महंगाई भत्ते के प्रयोजनार्थ "वेतन" का अभिप्राय मूल वेतन से होगा जिसमें स्थिर वेतनवृद्धियां शामिल होंगी।

(आ) विनियमन 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग), (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट व्यावसायिक योग्यता भत्ता और व्यावसायिक योग्यता वेतन, महंगाई भत्ते के परिकलन के लिए शामिल किए जाएंगे।"

6. कथित विनियमन में विनियम 22 के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : —

"22. आवास किराया भत्ता — (1) (क) नवंबर 1999 के प्रथम दिन को और उससे जहाँ किसी अधिकारी को बैंक ने आवास सुविधा प्रदान की है, वे जिस वेतनमान में कार्यरत हैं, उसके प्रथम चरण में मूल वेतन के 2.5 प्रतिशत की समतुल्य राशि या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, उनसे वसूल की जाएगी।

(ख) जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवास सुविधा प्रदान नहीं की गई है, नवंबर 1999 के प्रथम दिन को और उससे नीचे टेबुल में विनिर्दिष्ट किए अनुसार आवास किराया भत्ता अदा किया जाएगा, यथा :—

सारणी

जहाँ कार्य स्थान निम्नलिखित जगहों में है	देय एचआरए निम्नानुसार होगा
(1)	(2)
(i) सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख "ए" क्लास नगर और ग्रूप "ए" में परियोजना क्षेत्र के केन्द्र	प्रति महीना वेतन का 9 प्रतिशत
(ii) क्षेत्र I में स्थित जगह और ग्रूप "बी" में परियोजना क्षेत्र के केन्द्र	प्रति महीना वेतन का 8 प्रतिशत
(iii) क्षेत्र II, अर्थात् ऊपर (i) और (ii) में कवर नहीं की गई सभी जगहें	प्रति महीना वेतन का 7 प्रतिशत

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उनको देय एचआरए, उनके द्वारा अपने आवास के प्रयोजनार्थ प्रदत्त वास्तविक किराए की राशि होगी, जो अधिकारी जिस वेतनमान में हैं, उसपर लागू वेतन के प्रथम चरण से 2.5 प्रतिशत अधिक की राशि या उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (2) के अनुसार देय आवास किराया भत्ते का 150 प्रतिशत जो भी कम हो, की समतुल्य राशि होगी।

- 2 (क) नवंबर 2002 की प्रथम तारीख को और उससे जहाँ किसी अधिकारी को बैंक ने आवासीय सुविधा प्रदान की है, उन्हें रखे गए वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.75 प्रतिशत की समतुल्य राशि या आवास सुविधा हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, उनसे वसूल किया जाएगा।
- (ख) जहाँ अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की गई है, वे नवंबर 2002 की प्रथम तारीख से नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट किए अनुसार आवास किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे : —

सारणी

	यदि कार्यस्थान निम्नलिखित क्षेत्रों में है	देय आवास किराया भत्ता निम्नानुसार होगा
	(1)	(2)
(i)	प्रमुख "ए" श्रेणी के नगर और ग्रुप "ए" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5 प्रतिशत
(ii)	क्षेत्र I में अन्य स्थान और ग्रुप "बी" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5 प्रतिशत
(iii)	अन्य स्थान	वेतन का 6.5 प्रतिशत

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है, तो उनको देय आवास किराया भत्ता, उनके द्वारा अपनी आवास सुविधा के प्रयोजनार्थ प्रदत्त वास्तविक किराए की राशि होगी, जो अधिकारी जिस वेतनमान में हैं, उसपर लागू वेतन के प्रथम चरण से 1.75 प्रतिशत अधिक पड़नेवाली राशि होगी तथा उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (2) के अनुसार देय एचआरए का अधिकतम 150 प्रतिशत अदा किया जाएगा।

- (3) जहाँ अधिकारी अपने घर में निवास करते हैं वे ऊपर उप-विनियम (1) के खण्ड (बी) और उप-विनियम (1) के खण्ड (बी) के परंतुक में उल्लिखित आधार पर ही आवास किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, मानो वे नीचे (अ) या (आ) में से अधिकतर राशि के 1/12 की राशि का भुगतान किराए के रूप में अदा कर रहे हों।

निम्नलिखित का योग : —

- (i) निवास के संबंध में देय नगरपालिका के कर; और
- (ii) निवास की पूंजीगत लागत, जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है और यदि निवास किसी भवन का एक अंश है, तो उस निवास के अंश के रूप में लिए जा सकनेवाले भूमि के समानुपातिक भाग की पूंजी लागत भी शामिल होगी तथा इसमें वातानुकूलन यंत्र जैसे विशेष फिक्स्चर की लागत शामिल नहीं होगी ; या

(आ)

निवास के नगरपालिका आकलन के लिए लिया गया वार्षिक किराया मूल्य।

स्पष्टीकरण :

- (1) इस विनियम के प्रयोजनार्थ “मानक किराया” का अभिप्राय निम्नवत् है : —
 - (क) बैंक के स्वामित्व में रहे निवास के मामले में मानक किराए का परिकलन, सरकार में ऐसे परिकलन में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है ;
 - (ख) जहाँ बैंक ने आवास को किराए पर लिया है, बैंक द्वारा देय संविदाकृत किराया या ऊपर (अ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार परिकलित किराया, जो भी कम हो।
- (2) आवास किराया भत्ते के प्रयोजनार्थ “वेतन” से मूल वेतन तथा अवरुद्धता वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।
- (3) व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतनवृद्धि, जैसा भी मामला हो, नवंबर 1, 1994 के प्रभाव से आवास किराया भत्ते के लिए विचार में लिया जाएगा।
- (4) इस विनियमन के उप-विनियम (1) और (2) तथा विनियमन 23 के प्रयोजनार्थ क्षेत्र I और क्षेत्र II का अभिप्राय निम्नानुसार है :—

क्षेत्र (एरिया) I : 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान

क्षेत्र (एरिया) II : ऊपर क्षेत्र I में शामिल नहीं किए गए सभी स्थान

कथित विनियमन में, विनियम 23 के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा ,

“23. अन्य भत्ते : —

- (1) नवंबर 2002 की प्रथम तारीख को और उस तारीख से कोई अधिकारी नीचे टेबुल में विनिर्दिष्ट किए अनुसार नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होंगे, यथा,

सारणी

स्थान	दरें
(1)	(2)
क) एरिया I तथा गोवा राज्य में स्थित जगहें	मूल वेतन का 4 प्रतिशत, रु.540/- प्रति महीने की अधिकतम राशि के अद्यधीन
ख) 5 लाख या उससे अधिक की जनसंख्यावाले स्थान और राज्य की राजधानी और चंडीगढ़, पांडिच्चेरी तथा पोर्ट ब्लेयर, जो ऊपर (क) में कवर नहीं किए गए हैं	मूल वेतन का 3 प्रतिशत, प्रति महीना अधिकतम रु.375/- के अद्यधीन
ग) अन्य स्थान	शून्य

- 2) नवंबर 2002 की प्रथम तारीख को और उस दिन से विशेष क्षेत्र भत्ता की दरें, इन विनियमनों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी।
- 3) नवंबर 2002 की प्रथम तारीख को और उस दिन से यदि कोई अधिकारी ग्रुप “अ” या ग्रुप “आ” में आनेवाले ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसे परियोजना क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जानेवाला है, तो वे ग्रुप “अ” या ग्रुप “आ” के रूप में उस क्षेत्र का वर्गीकरण के अनुसार परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होंगे।
- 4) जनवरी 2004 की प्रथम तारीख को और उस दिन से यदि कोई अधिकारी का स्थानांतरण किसी शिक्षा वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान में किया जाता है तथा उनकी एक या अधिक संतान पुराने स्थान में स्कूल या कालेज में पढ़ रहे हैं तो वे जिस तारीख को नए स्थान में रिपोर्ट करते हैं, उस तारीख से शिक्षा वर्ष के समापन तक, अध्ययन करनेवाले सभी संतानों के संबंध में रु.500/- प्रति महीने की

दर पर शिक्षावर्ष के बीच में हुए स्थानांतरण हेतु भत्ते के लिए पात्र होंगे। बशर्ते कि पुराने स्थान में बच्चे पढ़ना बंद कर देते हैं तो ऐसा भत्ता समाप्त हो जाएगा।

- 5) जून 2005 की प्रथम तारीख को और उस दिन से यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्ति किया जाता है तो वे जिस पद में प्रतिनियुक्त हैं, उस पर लागू परिलब्धियां प्राप्त करने का विकल्प दे सकते हैं या वे अपने वेतन के अतिरिक्त, 7.75 प्रतिशत की दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर सकते हैं जो प्रतिमाह रु.1500 की अधिकतम राशि तक हो सकता है तथा ऐसे अन्य भत्ते भी प्राप्त कर सकते हैं जो उस स्थान में उन्हें नियुक्त करने पर उनको प्राप्त हुए होंगे।

बशर्ते कि जहाँ उन्हें ऐसे संस्थान में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान में अवस्थित है जहाँ उन्हें प्रतिनियुक्त के तुरंत पहले नियुक्त किया गया था, उनको प्रतिमहीना रु.750/- की अधिकतम राशि के अद्यधीन उसके वेतन के 4 प्रतिशत की समतुल्य राशि का प्रतिनियुक्ति भत्ता अदा किया जाएगा।

बशर्ते कि आगे बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त अधिकारी, अपने वेतन के 4 प्रतिशत तक, रु.750/- की अधिकतम राशि के अद्यधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

- 6) यदि किसी अधिकारी को एक ही समय में सात दिनों से अधिक की लगातार अवधि के लिए या किसी कैलण्डर महीने के दौरान कुल सात दिनों के लिए उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहना पड़ता है, तो उनको अपने वेतन के 6 प्रतिशत की समतुल्य राशि, वे स्थानापत्ति पर जिस अवधि के लिए काम कर रहे थे, उसके दौरान स्थापनापत्ति भत्ते के रूप में समानुपातिक आधार पर अदा किया जाएगा और यह भत्ता सिर्फ भविष्य निधि और पेंशन के प्रयोजनार्थ वेतन के रूप में माना जाएगा।

बशर्ते कि जहाँ कोई अधिकारी विनियम 6 के अंतर्गत अनन्य रूप से पदों के वर्गीकरण के पुनरीक्षण के फलस्वरूप उच्चतर पद पर स्थानापत्ति पर आते हैं तो जिस तारीख से ऐसे वर्गीकरण का पुनरीक्षण लागू होता है, उससे एक वर्ष की अवधि तक वे स्थानापत्ति भत्ता प्राप्त करने के लिए अर्ह नहीं होंगे।

- 7) यदि किसी अधिकारी की नियुक्ति ऐसी शाखा में की जाती है जहाँ 01 अप्रैल और 30 सितंबर को बहियों का लेखा समापन किया जाता है, वे प्रत्येक ऐसे लेखा समापन के लिए रु.250/- का लेखासमापन भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- 8) नवंबर 2002 को और उस तारीख से यदि किसी कार्यालय के कार्य समय का विभाजन, न्यूनतम दो घंटों के अंतराल के साथ किया गया है तो अधिकारी प्रतिमहीना रु.125/- की दर पर कार्य-विभाजन भत्ता प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगे।

- 9) यदि किसी अधिकारी को अवकाश के दिन में किसी वॉल्ट या लॉकर के अभिरक्षक (कस्टोडियन) के रूप में काम करना पड़ता है तो वे उनको अर्ह प्रतिदिन के भत्ते की दर पर भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- 10) नवंबर 2002 की प्रथम तारीख को और उस दिन से अधिकारी नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट किए अनुसार पहाड़ और ईंधन भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, यथा : —

सारणी

स्थान	दरें
(1)	(2)
i. 3000 मीटर और उससे अधिक ऊँचाई में स्थित स्थान	प्रति महीना रु.1150 की अधिकतम राशि के साथ वेतन का 5 प्रतिशत
ii. 1500 मीटर की ऊँचाई से अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊँचाई पर स्थित स्थान	प्रति महीना रु.500 की अधिकतम राशि के साथ वेतन का 2½ प्रतिशत
iii. 1000 मीटर की ऊँचाई से अधिक परंतु 1500 मीटर से कम पर स्थित स्थान और मेरकारा शहर	प्रति महीना रु.400/— की अधिकतम राशि के साथ वेतन का 2 प्रतिशत

नोट : (क) ऐसे अधिकारियों को, जिनकी नियुक्ति 750 मीटर की ऊँचाई से कम न पड़नेवाले स्थानों में किया गया है तथा वह स्थान उससे भी अधिक ऊँची पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा 1000 मीटर या अधिक की ऊँचाई पर स्थित स्थान को पार किए बिना उनके कार्यस्थान में पहुँचा नहीं जा सकता है तो उनको 1000 मीटर और उससे अधिक ऊँचाई के स्थानों पर प्रयोज्य पहाड़ एवं ईंधन भत्ता अदा किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त वर्गीकरण में कवर नहीं किए गए किसी स्थान के लिए अदा किया जानेवाला भत्ता, अब समाप्त किया जाता है।

बशर्ते कि किसी अधिकारी के संबंध में, जिनकी नियुक्ति 01 मई 1989 के पहले ऐसे केन्द्र में की गई है और उस तारीख के बाद भी वे उसी केन्द्र में ही नियुक्त हैं, उनके द्वारा 30 अप्रैल, 1989 को आहरित भत्ते की राशि (मात्रा) को सुरक्षित रखा जाएगा तथा जब तक वे उसी केन्द्र में उसी वेतनमान पर नियुक्त रहते हैं, उनको प्रत्येक महीना यह राशि अदा की जाएगी।

8. कथित विनियमों में, विनियम 24 के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाए, यथा,

“24 : चिकित्सा सहायता :—

- (1) कोई अधिकारी अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए वास्तविक रूप से उठाए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, निम्नलिखित आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, यथा

- (क) चिकित्सा व्यय : फरवरी 2004 की प्रथम तारीख को और उस दिन से कोई भी अधिकारी अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए, अधिकारी द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र, जिसमें बताया गया हो कि उन्होंने ऐसे व्यय उठाए हैं नीचे टेबुल में निर्दिष्ट किए अनुसार दावा की गई राशियों के लिए लेखा विवरण के आधार पर प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे :—

सारणी

ग्रेड	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन ग्रेड	रु.3750/— या उठायी गयी व्यय की राशि, जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक ग्रेड	रु.5000/— या उठायी गयी व्यय की राशि, जो भी कम हो

नोट : (i) कोई अधिकारी, प्राप्त न की गई चिकित्सा सहायता की राशि को संचित करने के लिए अनुमत हैं तथा ऐसी संचित राशि, ऊपर प्रावधान की गई राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (ii) वर्ष 2004 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को ग्यारह महीनों के लिए, अर्थात् फरवरी 2004 से दिसंबर 2004 तक समानुपातिक रूप से बढ़ा दिया जाए।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजनार्थ अधिकारी के “परिवार” से विनियम 3 के क्लॉज़ (जी) में परिभाषित परिवार अभिप्रेत है।

- (ख) (i) अधिकारी के मामले में अस्पताल में भर्ती के प्रभार का 100 प्रतिशत तथा उनके परिवार के सदस्यों के मामले में 75 प्रतिशत के प्रभार, अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता पड़नेवाले सभी मामलों में प्रतिपूरित किए जाएंगे।

(ii) मई 2005 की प्रथम तारीख को और उस दिन से इस विनियम के अंतर्गत किसी अधिकारी को अस्तपाल व्ययों की प्रतिपूर्ति, नीचे टेबुल में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अद्यधीन जून 02, 2005 को कामगार कर्मचारियों के लिए किए गए द्विपक्षीय समझौते में दी गई शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी, यथा

सारणी

क) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल I तथा मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल II और III	(i) बिस्तर प्रभार स्वयं के लिए – रु.600 प्रतिदिन परिवार के लिए – रु.450 प्रतिदिन (ii) अन्य प्रभार – कामगार कर्मचारियों पर प्रयोज्य अस्तपाल भर्ती योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 125 प्रतिशत के स्केल पर
ख) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल IV और V तथा उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VI और VII	(i) बिस्तर प्रभार स्वयं के लिए – रु.800 प्रतिदिन परिवार के लिए – रु.600 प्रतिदिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों पर प्रयोज्य अस्तपाल भर्ती योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 150 प्रतिशत के स्केल पर

- (2) ऊपर उप-विनियम (1) में चिकित्सा लाभ (अस्पताल भर्ती आदि को शामिल करते हुए) के होते हुए भी उसको पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करते हुए बोर्ड निर्धारित तारीख को उपलब्ध चिकित्सा लाभों (अस्पताल भर्ती आदि सहित) को अपरिवर्तित रूप से बनाए रखने का निर्णय कर सकता है तथा बोर्ड द्वारा ऐसा निर्णय किए जाने पर सभी अधिकारी सिर्फ निर्धारित तारीख को बैंक में उपलब्ध रूप से तथा उन्हीं शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार चिकित्सा व्यय (अस्तपाल में भर्ती सहित) की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- (3) निलंबनाधीन रखे गए अधिकारियों के लिए भी चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती की सुविधाएँ स्वीकार की जाएंगी।

9. कथित विनियमनों में विनियम 25 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“25 आवास सुविधा — (1) बैंक द्वारा आवास सुविधा प्रदान किए जाने के लिए कोई भी अधिकारी हकदारी नहीं बन सकता है।”

(2) तथापि नवंबर 2002 के प्रथम दिन को और उस तारीख से कोई भी अधिकारी द्वारा वे जिस वेतनमान में कार्यरत हैं, उसके प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.75 प्रतिशत की समतुल्य राशि या मानक किराया, जो भी कम हो, अदा किए जाने पर बैंक उनको आवासीय सुविधा प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

बशर्ते कि जहाँ अधिकारी को ऐसे आवास में फर्नीचर प्रदान किया गया है, वे जिस वेतनमान में कार्यरत हैं, उसके प्रथम चरण के मूलवेतन के 0.4 प्रतिशत की समतुल्य राशि बैंक द्वारा उनसे वसूल की जाएगी।

बशर्ते कि आगे जहाँ ऐसी आवास सुविधा बैंक द्वारा प्रदान की जाती है, बिजली, जल, गैस और संरक्षण के प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे।”

10. कथित विनियमनों में विनियम 41 में उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाए, यथा,

(1) जून 2005 की दूसरी तारीख को और उस दिन से कोई अधिकारी जब कार्य पर यात्रा करते हैं, निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे :—

(i) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड में कार्यरत अधिकारी रेल में पहली श्रेणी या एसी 2 टियर स्लीपर में यात्रा करने के लिए हकदार हैं। तथापि वे व्यापार की अनिवार्यताओं और लोकहित को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत किए जाने पर हवाई जहाज से (इकानमी श्रेणी) यात्रा कर सकते हैं।

(ii) मध्यम प्रबंधन में कार्यरत अधिकारी रेल में प्रथम श्रेणी या एसी 2 टियर स्लीपर से या यात्रा की दूरी 1000 कि.मी. से अधिक होने पर हवाई जहाज से (इकानमी श्रेणी) यात्रा कर सकते हैं या व्यापार की अनिवार्यताओं और लोकहित को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत किए जाने पर उससे कम दूरी के लिए भी हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं।

(iii) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक ग्रेड में रहे अधिकारी रेल में एसी प्रथम श्रेणी से या हवाई जहाज में (इकानमी श्रेणी) में यात्रा करने के लिए हकदार हैं।

(iv) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक ग्रेड में रहे अधिकारी, हवाई जहाज़ या रेल से नहीं जुड़े गए दो स्थानों के बीच में कार से यात्रा कर सकते हैं बशर्ते कि उन स्थानों के बीच की दूरी 500 कि.मी. से अधिक नहीं है और जब दोनों स्थानों के बीच की दूरी का अधिकांश भाग जब हवाई जहाज़ या रेलयात्रा के जरिए कवर किया जाता है, सामान्यतया शेष दूरी को ही कार से कवर किया जा सकता है।

(v) व्यापार की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी उनकी अपनी गाड़ी से या टैक्सी से या बैंक की गाड़ी से यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं।

(ख) उप-विनियम (4) में खण्ड (क) के लिए निम्नलिखित कलाज़ को प्रतिस्थापित किया जाए, था : —

(क) विराम भत्ता — जून 2005 की प्रथम तारीख को और उस दिन से कोई अधिकारी नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रति दिन विराम भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

सारणी

अधिकारी का ग्रेड / वेतनमान	प्रमुख "ए" श्रेणी के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
1	2		
	रु.	रु.	रु.
वेतनमान IV और अधिक के अधिकारी	600	550	500
वेतनमान I/II/III में रहे अधिकारी	550	500	400

बशर्ते कि वेतनमान IV और उससे अधिक स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा बाहरी स्थानों में कार्य के मामले में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै महानगरों में विराम भत्ता प्रतिदिन रु.700/- होगा।

बशर्ते कि आगे जहाँ अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटों से कम परंतु चार घंटों से अधिक है, उपर्युक्त दरों की आधी राशि विराम भत्ते के रूप में देय होगी।

स्पष्टीकरण : विराम भत्ते के परिकलन के प्रयोजनार्थ, “प्रतिदिन” का अभिप्राय ऐसे चौबीस घंटों की अवधि या उसके किसी परवर्ती अंश से होगा, जो हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्ट किए जानेवाले समय से तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए निर्धारित समय से पहुँचने के वास्तविक समय तक किया जाएगा और जहाँ अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटों से कम है, “प्रतिदिन” से आठ घंटों से कम नहीं होनेवाली अवधि अभिप्रेत होगी।

11. कथित विनियमनों में विनियम 42 में उप-विनियम (3) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाए, यथा,

(3) अप्रैल 1997 के प्रथम दिन को और उस तारीख से स्थानांतरण पर जानेवाले अधिकारी, पैकिंग, स्थानीय परिवहन, बैगेज को बीमाकृत करने आदि के लिए होनेवाले व्यय हेतु नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट अनुसार एकमुश्त राशि आहरित करने के लिए अर्ह होंगे : —

सारणी

ग्रेड	एकमुश्त राशि
उच्च कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन	रु.5,000 /—
मध्यम प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	रु.4,000 /—

बशर्ते कि मई 2005 की प्रथम तारीख को और उस तारीख से इस उप-विनियम का प्रभाव ऐसा होगा मानो “रु.5,000” और “रु.4,000” के अंकों और शब्दों के लिए क्रमशः “रु.8,750 और रु.7,000” के शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं।

12. उपर्युक्त विनियमन में नियम 44 को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

“44. छुट्टी यात्रा रियायत

- 1) चार वर्ष के हर ब्लॉक के दौरान, एक अधिकारी, दो वर्ष के हर ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर की यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत हेतु अर्ह रहेंगे या उसके बदले वह 2 वर्ष के एक ब्लॉक में अपने गृह नगर की तथा दो वर्ष की दूसरी ब्लॉक में लघुतम रास्ते से भारत में किसी भी जगह की यात्रा कर सकते हैं ।
- 2) अधिकारी चार वर्ष या दो वर्ष के ब्लॉक के दौरान, यथा मामला, किसी भी एक विकल्प का चयन करते हुए अपनी छुट्टी यात्रा रियायत (गृह नगर की यात्रा के अलावा) को अभ्यर्पित (सरेन्डर) और भुना (एन्कैश) भी सकते हैं जिसपर कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड वेतनमान I और मध्यम प्रबंध ग्रेड वेतनमान II और III के अधिकारी रेलगाडी में यात्रा करने की अपनी पात्रता की श्रेणी के किराए के 75 प्रतिशत के बराबर की राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जो 4500 कि.मी(एक तरफ) की दूरी तक के लिए होगा और वरिष्ठ प्रबंध ग्रेड वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए यह दूरी 5500 कि. मी(एक तरफ)होगी। ऐसे अधिकारी अपनी छुट्टी यात्रा रियायत को भुनाने का विकल्प चुनते समय अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए उस ब्लॉक या अवधि (टर्म) के दौरान सिर्फ एक बार दावा कर सकते हैं, जिसमें इसे भुनाया गया हो तथा छुट्टी यात्रा रियायत को लेते समय साधिकार अवकाश(पीएल) भुनाने की सुविधा, छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा को भुनाते समय ही उपलब्ध रहेगी ।
- 3) अधिकारी जिस माध्यम या श्रेणी से छुट्टी यात्रा रियायत लेंगे, वह वही होगी जिसके लिए अधिकारी सामान्यतः स्थानांतरण पर यात्रा करने के पात्र होते हैं तथा अन्य शर्तें

और निबंधन, जिनके तहत अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत लेते, वही होंगे जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

- 4) हर चार वर्ष में एक बार जब एक अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा लेते हों, उन्हें अपनी साधिकार छुट्टी जो एक बार में तीस दिन से अधिक न हो, अभ्यर्पित कर भुनाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, या जब वह दो वर्ष के एक ब्लाक में अपने गृह नगर के या दूसरे ब्लाक में भारत में किसी भी जगह के लिए यात्रा करते हैं तो उन्हें हर ब्लाक में अधिकतम 15 दिन की तथा एक ब्लॉक में तीस दिन की साधिकार छुट्टी को भुनाने की अनुमति दी जा सकती है तथा उनकी छुट्टी भुनाई के प्रयोजनार्थ उस महीने के लिए, जिसके दौरान छुट्टी यात्रा रियायत उपलब्ध कराई गयी है, समस्त देय परिलब्धियां अनुमत होंगी।

बशर्ते कि एक अधिकारी को अपने विकल्प पर प्रधान मंत्री राहत निधि हेतु दान के लिए एक दिन की अतिरिक्त साधिकार छुट्टी को भुनाने की अनुमति दी जाएगी । यह कार्रवाई तभी की जाएगी जब वह बैंक को उस आशय का एक पत्र लिखकर यह राशि इस निधि में भेजने के लिए बैंक को प्राधिकृत करें ।

इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 की अनुसूची

(कृपया विनियमन 23 के उप विनियम (2) देखें)

नवम्बर, 2002 के प्रथम दिन के प्रभाव से, एक अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ता उस समय तक प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे जब तक उसे पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द या संशोधित नहीं किया जाता हो, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	ऐसे स्थान, जहाँ पर भत्ता देय है	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से 14,000 तक वेतन	14,001 से और उससे अधिक वेतन
1.	मिज़ोरम	₹	₹
	(क) मिज़ोरम के चिम्पटूयपुय जिला एवं मिज़ोरम की लुंगली जिला के लुंगली शहर से 25 कि.मी. के बाद वाले क्षेत्र	1,000	1,300
	(ख) सारा लुंगली जिला, मिज़ोरम के लुंगली शहर से 25 कि.मी. के बाद वाले क्षेत्रों को छोड़कर	800	1,050
	(ग) मिज़ोरम के सम्पूर्ण ऐजवाल जिला	600	750
2.	नागालैंड	800	1,050
3.	अंडमन तथा निकोबार द्वीप		
	(क) दक्षिण अंडमन (पोर्ट ब्लेयर को शामिल करते हुए)	800	1,050
	(ख) उत्तर तथा मध्य अंडमन, लिटिल अंडमन, निकोबार तथा नरकोंडम द्वीप	1,000	1,300
4.	सिक्किम	1,000	1,300
5.	लक्षद्वीप	1,000	1,300
6.	असम	160	200
7.	मेघालय	160	200

क्रम सं.	ऐसे स्थान, जहाँ पर भत्ता देय है	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से 14,000 तक वेतन	14,001 और उससे अधिक वेतन
		₹	₹
8.	त्रिपुरा		
	(क) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र	800	1,050
	(ख), कठिन क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण त्रिपुरा	600	750
9.	मणिपुर	600	750
10.	अरुणाचल प्रदेश		
	(क) अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र	1,000	1,300
	(ख) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश	800	1,050
11.	जम्मू और कश्मीर		
	(1) कतुआ जिला	1,000	1,300
	(क) नियाबट बनी		
	(ख) लोही		
	(ग) मलहर		
	(घ) मचौडी		
	(2) (क) उधमपुर जिला	1,000	1,300
	i) डूडू बसंतगढ़		
	ii) लेंडर बमग इलाका		
	iii) तक्रकोट		
	iv) नगोट		
	(ख) 2(ग) में शामिल किये गये क्षेत्रों के अलावा मोहरे तहसिल के सभी क्षेत्र	1,000	1,300
	(ग) कंबन की तरफ से गोयल तक के क्षेत्र तथा मोहरे तहसिल में केइसी तरफ से अर्नास तक	800	1,050
		₹	₹
	(3) डोडा जिला	1,000	1,300
	किश्तवार तहसिल में पददेर तथा नियाबट नौगाम के इलाके		
	(4) लेह जिला	1,000	1,300
	संपूर्ण जिला		
	(5) बारामुल्ला जिला		
	(क) संपूर्ण गुरेज-निराबत, तंगदर उप प्रभाग तथा केरन इलाका	1,000	1,300
	(ख) मैचहिल	800	1,050
	(6) पूंच तथा रजौरी जिला		
	पूंच तथा रजौरी तथा सुदर बनी शहरों को छोड़कर पूंच तथा रजौरी जिले के क्षेत्र तथा दो जिलों में अन्य शहरी क्षेत्र	600	750

क्रम सं.	ऐसे स्थान, जहाँ पर भत्ता देय है	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से 14,000 तक वेतन	14,001 और उससे अधिक वेतन
		₹	₹
	(7) उपर्युक्त (1) से (6) तक, में शामिल नहीं किये गये क्षेत्र, लेकिन वास्तविक नियंत्रण के लाइन से 8 कि.मी दूरी के अंदर हैं या ऐसे स्थानों के लिए जिन्हें घोषित किया जा सकता है कि वे बार्डर भत्ते के लिए अर्ह हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अपने कर्मचारियों के लिए घोषित किया जाता है ।	600	750
	हिमाचल प्रदेश		
	(1) चम्बा जिला		
	(1)(क) पंगी तेहसिल	1,000	1300
	(1)(ख) भरमौर तेहसिल के निम्नलिखित पंचायत तथा गाँव (i) पंचायत : बंडगांव, बजोल, दियोल कुगटी, नयागाम और तुंडा	800	1,050
	(ii) गाँव : जगत ग्राम पंचायत के घटु, चौहाता ग्राम पंचायत के कनरसी		
	2. भरमौर तेहसिल, उपर्युक्त भाग I (ख) में सम्मिलित पंचायतों तथा गाँवों को छोड़कर	600	750
	3. भटियट तेहसिल में झंद्रु पंचायत, घुराह तेहसिल, डलहौसी शहर (बनिकेत प्रॉपर सहित)		
	(2) किन्नौर जिला :		
	(क) असरंग, चिटकुल और हंगोकुनो/चरंग पंचायत, छोटा खंभा, नथपा और रूपी के ग्राम पंचायत के क्षेत्र का 15/20 क्षेत्र, पूह उप प्रभाग जिससे ऊपर बताए गए पंचायत क्षेत्र छोड़े गये हों	1,000	1,300
	(ख) उपर्युक्त (क) में शामिल किये गये क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण जिला	600	750
	(3) कुल्लु जिला :		
	(3) (क) निरमांड तेहसिल का 15/20 क्षेत्र जिसमें करघा, खुशवार व सरगा के ग्राम पंचायत शामिल हैं ।	1,000	1,300

क्रम सं.	ऐसे स्थान, जहाँ पर भत्ता देय है	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से 14,000 तक वेतन	14,001 और उससे अधिक वेतन
		₹	₹
	(3)(ख) बाह्य सेरज (निरमांड तेहसिल के जकत-खाना और बरो के गांवों को छोड़कर) तथा संपूर्ण जिला (बाह्य सेरज क्षेत्र तथा पंझाबिस के परगना को छोड़कर लेकिन निरमांड तेहसिल के जकत-खाना तथा बरो गांवों सहित)	600	750
	(4) लाहौल तथा स्फीति जिला :		
	लाहौल तथा स्फीति का सारा क्षेत्र	1,000	1,300
	(5) शिमला जिला		
	(क) रामपुर तेहसिल के 15/20 क्षेत्र , जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपरा तथा चडी-ब्रांडा के पंचायत शामिल हैं ।	1,000	1,300
	(ख) डोडरा - कवार तेहसिल, रामपुर में दरकली ग्राम पंचायत, कशापथ तेहसिल और मुनीश, परगना सरहन के घोरी चौबिस	800	1,050
	(ग) चोपल तेहसिल तथा गोरिस, पंजगाँव, पट्सनौ, नौबिस तथा परागना सरहन के तीन कोटि, टकलेश क्षेत्र के दियोती ग्राम पंचायत, परगना बरबिस, रामपुर तेहसिल के रामपुरा परगना के कस्बा रामपुर और गोरी नोग, शिमला शहर और उसके आस पास के क्षेत्र (धल्ली, जतोग, कसुम्पटी, मशोब्रा, तारादेवी और टूटू)	600	750

क्रम सं.	ऐसे स्थान, जहाँ पर भत्ता देय है	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से 14,000 तक वेतन	14,001 और उससे अधिक वेतन
		₹	₹
	(6) कंगडा जिला		
	(क) बड़ा भंगल तथा छोटा भंगल के क्षेत्र	800	1,050
	(ख) कंगडा जिले का धर्मशाला शहर तथा निम्नलिखित कार्यालय जो मुनिसिपल सीमा से बाहर स्थित हो, मगर धर्मशाला शहर में शामिल हो, विमानस आईटीआई, दरी, मेकानिकल वर्कशाप, रामनगर, शिशु कल्याण और शहर तथा ग्राम परियोजना कार्यालय साकोह, लोयर साकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, कंगडा दूध आपूर्ति योजना, दुगियार, एचआरटीसी वर्कशाप, सादेर, जोनल मलेरिया कार्यालय, दरी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, टी फाक्टरी, दरी, आईपीएच उप प्रभाग, डैन, निपटान कार्यालय, शामनगर, बिनवा परियोजना, शामनगर, कार्यालय/जेसी फार्म, बनुरी, सेरिकल्चर कार्यालय/इंडो जर्मन कृषि, वर्कशाप/ एचपीपीडब्ल्यूआई प्रभाग, बुंदला, विद्युत उप प्रभाग, लोहना, डीपीओ निगम, बुंदला, विद्युत एचपीएसईई प्रभाग, घुग्गार	600	750
	(7) मंडी जिला		
	जोगिन्दरनगर तहसिल के चुहार घाट, तुनाग के पंचायत	600	750

क्रम सं.	ऐसे स्थान, जहाँ पर भत्ता देय है	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से 14,000 तक वेतन	14,001 और उससे अधिक वेतन
		₹	₹
	बग्रा, छत्री, चोटधर, घरगुशैन, गट्टू, गरयास, जनजेहली, जरयर, जोहर, कल्हानी, कल्वान, कोलानल, लोत, सिलीबगी सोमचन, तचदर, तची, ताना के तेहसिल, धर्मपुर ब्लाक में बिंगा, कमलाह, सकलाना तनयर तथा ताराखोला के पंचायत करसोग तेहसिल में बलीधर, बग्रा, गोपालपुर, कजोल, महोग, मेहुदी, मंज, पेखी, सैज, सरहन तथा तेबन के पंचायत, सुंदरनगर तेहसिल में बोही, बटवारा, धनयारा, पौरा-कोती, सेरी और सोजा के पंचायत		
	(8) सिरमौर जिला		
	(क) बनी, बखली (पछाड तेहसिल) भरोग बेनेरी (पउन्टा तेहसिल), बिडला (नहन तेहसिल), डिब्बेर (पछाड तेहसिल) तथा ताना कसोगा (नहन तेहसिल)	600	750
	(ख) तंसगिरि ट्राक्ट		
	(9) सोलन जिला	600	750
	मंगल पंचायत		
	(10) उपयुक्त (1) से (9) में शामिल न किये गये हिमाचल प्रदेश के बाकी क्षेत्र ।	160	200

क्रम सं.	ऐसे स्थान, जहाँ पर भत्ता देय है	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से 14,000 तक वेतन	14,001 और उससे अधिक वेतन
		₹	₹
13.	उत्तर प्रदेश : चमोली, पितौरागढ़ तथा उत्तर काशी के तहत क्षेत्र	1,000	1,300
	2(क) जिला पितौरागढ़ तथा उत्तरकाशी जिले के अन्य क्षेत्र (उत्तर काशी के जिला मुख्यालय सहित)		
	2(ख) चम्पावत जिला (लोहाघाट क्षेत्र सहित)		
14.	उत्तरांचल		
	रुद्रप्रयाग तथा चम्पावत जिलों के तहत आने वाले क्षेत्र	800	1,050

टी जयशंकर
सहायक महाप्रबंधक (मा.सं.प्र)

नोट : इंडियन बैंक अधिकारी सेवा विनियमन, 1979 में इसके पहले किये गए संशोधनों को नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित किया गया था :

क्रम सं.	एस.ओ. सं.	दिनांक
1.	22	31.05.1997
2.	25	16.03.2000
3.	34	25.08.2001
4.	1	04.01.2006
5.	72	01.05.2006
6.	02	16.10.2006

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

मुम्बई-400005, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3 डब्ल्यू सी ए (4)/1/2008-09 : चार्टर्ड अकाउंटेंट रेग्युलेशंस 1988 के प्राधान के अनुसार एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एक्ट 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के आधार पर दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आवेदन पर सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया है और यह नाम के आगे दर्ज की गयी तिथि से प्रभावी है।

क्र.सं.	एमआरएन	सदस्य का नाम	दिनांक
1	001576	श्री बोरा शांतिलाल पोपटलाल	01/04/2008
2	002820	श्री शाह कांतिलाल रामचंद	01/04/2008
3	033431	श्री शानबाग नित्यानंद रघुनाथ	11/07/2008
4	034001	श्री सावंत अशोक शंकरा	01/04/2008
5	100905	श्री मेहता अमरेंद्र अविनाश	01/01/2009
6	103641	श्री चौगुले परितोष सहदेव	01/04/2008

टी. कार्तिकेयन
सचिव

3- डब्ल्यू सी ए (4)/2/2008-09 - चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1988 के प्राधान 18 के अनुसार एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 की धारा 20 के खण्ड (ए) एवं उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कोसिल ने निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनकी मृत्यु के कारण दी हुई तिथि से रद्द किया जाता है।

क्र.सं.	एमआरएन	सदस्य का नाम	क्र.सं.	एमआरएन	सदस्य का नाम	दिनांक
1	000993	श्री मधुसूदन चंदलाल मशरुवाल	40	011232	श्री सिंगल रमेश कुमार	23/02/2008
2	001011	श्री सतीशचंद विराचंद घाटालीया	41	011240	श्री भिंगे लमरा रामन	02/10/2007
3	001085	श्री दलाल नटवरलाल ठाकुरदास	42	011264	श्री डक इंदरल घोगमत	28/10/2008
4	001330	श्री चौधरी हरिसुखजी बेहरामजी	43	011472	श्री मेहता जीतेन्द्र धनसुखलाल	04/07/2007
5	001705	श्री गांधी देवेंद्र चिमनलाल	44	011483	श्री ठक्कर ठाकुरलाल रविरामभाई	07/05/2008
6	002257	श्री गांधीवीर्य जेहानबक्त्त जहांगीरजी	45	013063	श्री मट्ट रोहितकुमार एम	09/09/2008
7	002262	श्री शीरोडर फिरोज मर्दान	46	013074	श्री शाह अश्विन चिमनलाल	28/09/2007
8	002305	श्री शाह गुणवंतलाल जैरामभाई	47	013978	श्री संधवा हरीश नटवरलाल	22/01/2008
9	002448	श्री देसाई कांतिलाल छोटालाल	48	014033	श्री परमार वल्लभदास रामजीभाई	09/07/2007
10	002681	श्री हरिभक्त इरवरलाल रतनलाल	49	014749	श्री मोदी धीरुष मीरखरलाल	03/03/2008
11	003020	श्री पांडे मुकुंदलाल हीरालाल	50	016403	श्री दुलदुले गुलाम अहमद सिकंदर	26/01/2008
12	003039	श्री बावे मधुसूदन रामचंद	51	016664	श्री देशजडे अनिल कुमार गोविंदराव	31/07/2005
13	003142	श्री देसाई भार्गव जगन्नाथ	52	017073	श्री दोशी नवीनचंद्र ब्रजलाल	22/05/2007
14	003143	श्री डोगरी डिनशाब केरसासपजी	53	017211	श्री घक्करी कल्याणेश्वर बी	06/05/2008
15	003776	श्री दोषी जमनादास दुर्लभदास	54	030211	श्री मट्ट अतुल चिमनलाल	06/06/2008
16	004122	श्री धीकर सांभी इराव	55	030708	श्री होमाई जहांगीर इटालिया	05/02/2009
17	004216	श्री मेहता मनहरलाल नानेकलाल	56	031473	श्री छाजेड पृथ्वीराज सजनराज	02/05/2007
18	005037	श्री अम्यंकर श्रीकृष्ण भालचंद	57	033124	श्री पालेरावाला सप्त नरीमन	08/02/2008
19	005632	श्री मंसाली धनसुख मनीलाल	58	033721	श्री किरनजी बेहरुज नोशीर	14/10/2006
20	005755	श्री खंबाटा इरुच जहांगीरजी	59	033735	श्री ददीया मरतकुमार बाबुलाल	06/07/2008
21	006012	श्री खंडेलवाल गौरी शंकर	60	034160	श्री नगरराव मानुदास श्रीपाद	26/07/2008
22	006112	श्री शाह चंदकांत चिमनलाल	61	035983	श्री श्रीकुमारन सी	25/06/2008
23	006136	श्री राजेंद्र दामजी प्रसाद	62	036142	श्री भुल नरत घांदमल	03/03/2008
24	006676	श्री घांडक रतनलाल सुंदरलाल	63	036712	श्री देशजडे सतीश वेंकटेश	21/11/2007
25	006717	श्री गुप्ता हरिश घंद	64	037523	श्री शाह बसंत मानेकलाल	02/02/2009
26	006881	श्री छाजेड सोहनराज पुखराजजी	65	037603	श्री बहिनसाद नागमुष्णम नायडू	12/01/2009
27	006925	श्री रेगे श्रीपाद राजाराम	66	037612	श्री साननंद ई कामथ	27/12/2007
28	007044	श्री संजय लोहरी	67	037847	श्री राजेंद्र शशांक मेघाल	04/12/2008
29	007335	श्री परमार पुनमचंद चंदलाल	68	037972	श्री भोले रामकृष्ण घनाजी	05/06/2008
30	007490	श्री पटेल बसंत रविदनाथ	69	039001	श्री दलाल अनिल जयतीलाल	06/12/2007
31	008764	श्री मुन्दा त्रिंबकदास कचरदास	70	014963	श्री पंडित मिलिंद मनोहर	04/09/2008
32	009379	श्री मट्ट नरसिन्हा कृष्णा	71	044089	श्री संतोष बन्सीलाल गांधी	15/10/2008
33	009450	श्री सेठ विनयचंद अमृतलाल	72	045073	श्री रामनाथन विरवनाथन	25/07/2008
34	009466	श्री शाह श्यामचंद मानजी	73	048935	श्री मकरंद विद्याधर घाटे	02/01/2009
35	009721	श्री गुप्ता विरेंद्र	74	105854	श्री प्रदीप मनोहर आठवले	12/05/2008
36	009757	श्री दवे अनिल दत्तपतराम	75	107506	श्री चंदकांत नारायण चंदुरे	13/02/2008
37	010299	श्री स्वामीप्रधान टी एस	76	117578	श्री हतल पुनसुखलाल कक्कड	05/02/2008
38	010663	श्री तिमये विक्रम विष्णु	77	118330	श्री अश्विन प्रविण भाई कथिरिया	08/10/2008
39	010939	श्री कुलकर्णी कृष्णा वसंतराव	78	126257	श्री आनंदप्रकाश रामनिवास लाहोरी	01/06/2008

टी. कार्तिकेयन
सचिव

3 डब्ल्यू सी ए (4)/3/2008-09 : चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रेग्यूलेशन 1988 के प्रावधान के अनुसार एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के आधार पर दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके द्वारा देय शुल्क का भुगतान नहीं करने की वजह से सदस्यों के रजिस्टर से 1/10/2008 से हटा दिया है।

क्र.सं.	एमआरएन	सदस्यों के नाम	क्र.सं.	एमआरएन	सदस्यों के नाम
1	001586	श्री चोकसी रणछोड़लाल गणिताल	40	008441	श्री सहस्त्रबुद्धे विजयकुमार गणेश
2	001821	श्री नेरुरकर मंगेश शांताराम	41	000782	श्री मरुच दरायुस सोहराव
3	002239	श्री पिंटो सिडनी लियोनार्ड	42	008855	श्री मोदी सोहन रामनीकलाल
4	002244	श्री साधवी छोटालाल निमचंद	43	008863	श्री पारिख अरुण कुमार नटरत्नाल
5	002330	श्री फाटक गोविंद दिनकर	44	008979	श्री भाटिया सुभाष एच
6	002770	श्री पटवर्धन भगवंत कृष्णाजी	45	009963	श्री कोठारी महेश वसन्तजी
7	002917	श्री सोनी रणछोड़लाल विठ्ठलदास	46	009343	श्री बुच जनार्दन चंदलाल
8	002921	श्री शाह रमेशचन्द्र त्रिकमलाल	47	009734	श्री चावड़ा शांतिलाल रणछोड़भाई
9	002991	श्री खरे गोपाल पारशराम	48	009938	श्री कंडिया सुदर्शन
10	003038	श्री गनु लक्ष्मण महादेव	49	010008	श्री त्रिलोकीनाथ बंसल
11	003216	श्री हबीब मोहम्मद म्यान कोठवाल मोहम्मद	50	010205	श्री चोकसी महेंद्र चंदलाल
12	003325	श्री बोरा शफीउद्दीन फिदाली	51	010403	श्री टोनापी श्रीकांत वसंतराव
13	003464	श्री अर्जुन रामकृष्ण गोपालन	52	010595	श्री मजमूदार शक्ति त्रिदास
14	003570	श्री प्रधान सुरीलकुमार अमृतराव	53	010721	श्री कुलकर्णी धनंजय गोपाल
15	003574	श्री रमेशचंद्र कांतिलाल नानावटी	54	010753	श्री भाटिया दीपक चंद्रसेन
16	003696	श्री महादेवन टीकी	55	010857	श्री राजेंद्रकुमार सुखलाल पटनी
17	003770	श्री कासिम युसुफ इब्राहिम	56	010920	श्री मुप्ता विमल कुमार
18	003858	श्री तालपडे गणपत माधवराव	57	010938	श्री दामनी विजयकुमार वृजगोपाल
19	003892	श्री सेलारका चंदलाल भगवानजी	58	011141	श्री एकांबर एम एस
20	004181	श्री जरीवाला प्रदीपकुमार बाबूभाई	59	011243	श्री रमण पी एस
21	004287	श्री श्रवसे रसिकलाल विठ्ठलदास	60	011351	श्री गोहिल राजित सिंह पुरुषोत्तम
22	004483	श्री वाणी नरसाई लाल बंसीदास	61	011750	श्री भ्रमरोज डेरियस सोली
23	004849	श्री मट्ट गणेश प्रेमशंकर	62	011785	श्री नरेश शांतिलाल शाह
24	004884	श्री पोंद्रे जगन्नाथ त्रिभुक्त	63	011859	श्री सुहास विष्णु जोशी
25	004908	श्री सगाताले वसंत महादेवराम	64	011916	श्री रमणकुमार सेठ
26	005075	श्री शाह दिलीप आशाभाई	65	011976	श्री राजेंद्र प्रसाद
27	005202	श्री देसाई महेंद्र नटरत्नाल	66	012182	श्री आरसीवाला शापर जमशेदजी
28	005588	श्री कृष्णराव पी वी	67	012216	श्री धावाले सुभाष विनायक
29	005635	श्री मेहता धीरजलाल शांतिलाल	68	012301	श्री अग्रवाल कृष्ण कुमार
30	005640	श्री पें ब्रह्मवर गोविंदराय	69	012306	श्री हरिशंकर सावरमल वयाल
31	005973	कुमारी रमासुमती कुमार दोशी	70	012432	श्री बुच अनंतराम हरिशंकर राय
32	006410	श्री चौपड़ा जगमोहन लाल	71	012542	श्री पटेल भरतकुमार गोवर्धनदास
33	006883	श्री मेहता नादिर फरसोस	72	012914	श्री नागनाथ गणपतराव रुद्रावर
34	007572	श्री सुनावाला बहराम दारा	73	012970	श्री शाह वसंतलाल मोहनलाल
35	007749	श्री नाईक ईश्वरलाल छोटूभाई	74	013024	श्री दादासाहेब प्रह्लादराव जाधव
36	007777	श्री भागवा आदि होमी	75	013237	श्री खाटावी किशोर कृष्णकुमार
37	007953	श्री कूपर एस्पी डेडी	76	013453	श्री गंभीरवाला महेश विहारीलाल
38	008005	श्री जयवंत जगदीश वसंत	77	013495	श्री ककरीया कांतिलाल कन्हैयालाल
39	008119	श्री मट्ट हरिवंदन रामलाल	78	013647	श्री एस शिवरामकृष्ण

79	013654	श्री रमाकांत नागपाल	141	029641	श्री सुरेश कंसी
80	013730	श्री देसाई अरुण दिनकर	142	029700	श्री नीलकांत जी के
81	014066	श्री केवल कृष्ण के मन्ना	143	030033	श्री चितनीस रविंद वसंतराव
82	014124	श्री कलवाचवाला नोजर फिरोज	144	030103	श्री दुतिया सतीश डुंगसी
83	014158	श्री रामजी बेलजी चौहान	145	030176	श्री फडके अरविंद रघुनाथ
84	014191	श्री शाह लक्ष्मीचंद रतनशी	146	030340	श्री झवेरी मनोज मोहनचंद
85	014196	श्री तालयारखान फेरदून रुस्तम	147	030368	श्री श्रीधर शेषादि
86	014268	श्री क्रिएडो एस्तर थोमस	148	030391	श्री राजकोटवाला सलीम अब्दुल हुसैन
87	014291	श्री रविमेषण पोपलाय	149	030399	श्री पटेल जगदीश भाई हरजीभाई
88	014373	श्री पटेल नंदलाल मोहनलाल	150	030444	श्री मेहता दिनेश जयंतीलाल
89	014656	श्री सेवक श्रीपाद दामोदर	151	030465	श्री शाह योगेश जयंत
90	014679	श्री बडजाते रमेशचंद गुलाबचंद	152	030599	श्री शाह मनहरलाल केशवलाल
91	014804	श्री बिजूर सतीश आनंद	153	030707	श्री बाना नौजर होमी
92	015244	श्री वालजी बारकु शिंदे	154	030740	श्री प्रेमचंद
93	015336	श्री उदयपुरवाला शब्बीर अकबरअली	155	030785	श्री दिनेशचंद उमीयशंकर गोपीयानी
94	015383	श्री कानू जशभाई पटेल	156	030813	श्री कर्णावत सुरेंद्र सरदारसिंह
95	015625	श्री माल्डे हरकचंद पदमशी	157	031045	श्री कैदजाहेर अलीमोहम्मद पेदीवाला
96	015749	श्री डोलामाई अमर धनसुखलाल	158	031097	श्री पी कृष्णन परमेश्वरन
97	015787	श्री महादलकर प्रकाश सदाशिव	159	031145	श्री इक्बाल फखरुद्दीन झवेरी
98	015791	कुमारी पटेल मधुबन ईशरलाल	160	031203	श्री दीपक मफतलाल शाह
99	015835	श्री पै के मोहन	161	031301	श्री पारिख सुरील कांतिलाल
100	016230	श्री फिरोज अब्दुलतयब धासेवाला	162	031380	श्री शुक्ला अजय मानुप्रसाद
101	016334	श्री बानाजी परसिस जहांगीर	163	031416	श्री वैकट चेल्लाराव थोटा
102	016378	श्री तापारीया बृज मोहन	164	031443	श्री रोहितन नरीमन पटेल
103	016669	श्री भरतकुमार कांतिलाल शाह	165	031444	श्री रामकृष्णन गोपालकृष्णन
104	016851	श्री शाह महेंद्र मोहनलाल	166	031679	श्री दीपक नारायण जुवेकर
105	016876	श्री अहमद मुस्ताक	167	031746	श्रीमती वृंदा शरद बाल
106	016891	श्री पारेख भूपेंद्र रामनिकलाल	168	031855	श्री पटेल रजनीकांत लत्तुभाई
107	016930	श्री मालोदकर राजेंद्र चंद्रकांत	169	032112	श्री आर रामजी
108	016966	श्री मदनलाल जांगिड़	170	032151	श्री अमीन अब्दुकर इस्माइल
109	017095	श्री श्रीकांत रघुनाथ खाटकर	171	032237	श्री राहतेकर महेंद्र सुखशान
110	017236	श्री बंसल विष्णु कुमार	172	032245	श्री तालाती भारत भास्कर
111	017318	श्री साने माधव हरि	173	032328	श्री पारेख रजनीकांत नोतमलाल
112	017394	श्री जोशी धनंजय रघुवीर	174	032388	श्री पारेख जयेशकुमार कोदरलाल
113	017516	श्री डोलकिया बकिमचंद्र बी	175	032543	श्री गुप्ते रंजीत मनोहर
114	017878	श्री सेठ अब्दुलरहमान अब्दुलरहम	176	032647	श्री अतुल नवनीत मचेंद्र
115	017914	श्री कपूर राकेश	177	032663	श्री जलान दीन बंधु
116	017984	श्री वैद्यनाथन के	178	032788	श्री डाल्बी निहाल अजीत
117	018049	श्री सुंदररामन एम	179	032811	श्री संजीव मल्होत्रा
118	018973	श्री वीरमद्रप्पा जीई	180	032825	श्री अग्रवाल कैलाश द्वारकादास
119	019216	श्री भट बालाकृष्ण यू	181	032894	श्री प्रदीप देवीप्रसाद अंजोरिया
120	019706	श्री बालकुमार एस	182	032920	श्री पटेल योगेशकुमार जयंतिलाल
121	020317	श्री सुब्रमण्यन एस	183	032965	श्री पै टोंसे विवेक
122	020829	श्री श्रीनिवासन सी	184	032983	श्री श्रीनिवासन एन गोविंदराजन
123	021599	श्री विजय बंका	185	033008	श्री म्हेत्रे सुभाषचंद्र गुरुपादप्पा
124	021655	श्री मणिक्रम वी	186	033055	श्री मिस्त्री कंकी गिनु
125	021811	श्री के ईश्वरन	187	33063	श्री शर्मा दिनेश
126	022836	श्री पी चंद्रशेखर	188	033107	कुमारी अमीता शाह
127	023424	श्री वगीज एपेन	189	033122	श्री बरई नंदकुमार सुंदरलाल
128	023431	श्री नागाराजन शंकर	190	33183	श्री सुनिल गोपाल फडनीस
129	023655	श्री शंकर एन	191	033207	श्री अनवर सईद
130	025321	श्री रविन्द्रन एस	192	033233	श्री अजय मनोहर देशमुख
131	025519	श्री पार्थसारथी वी	193	033293	श्री अम्देकर दिलीप माधव
132	025899	श्री श्रीधर के	194	033307	श्री गोसाविया भरत ईश्वरलाल
133	026163	श्री आर चंद्रशेखरन	195	033310	श्री ब्रजेशचंद्र रमनलाल सरया
134	026502	श्री श्रीराम चंदर	196	033368	श्री नितिन अमृतलाल डोलकिया
135	026706	श्री गणेश एस	197	033406	श्री निगाधि नितिन लक्ष्मीदास
136	026750	श्री विनयकुमार एन पांड्या	198	033438	श्री गांधी धमेश विरेन्द्र
137	027083	श्री विश्वनाथन पी	199	033617	श्री जैसानी महेश लालचंद
138	027356	श्री रविलोचन पी	200	033638	श्री रामकृष्णन आर एन
139	028237	श्री फ्रांसिस एन जे	201	033643	श्री पटेल मयंक दिनकरभाई
140	028944	श्री शेषादि के	202	033776	श्री मोहम्मद जाहिद भटकली

203	033785	श्री सुरेश श्रीपादराव भट्ट	265	035978	श्री दुकले अक्षुत वैकटेश
204	033843	श्री लालबानी गुलु गोपे	266	035979	श्री दिलीपकुमार जेस्सासाम फटवानी
205	033906	श्री मिस्त्री रमेश रणछोड़दास	267	036053	श्री अंबानी संजय रसिकलाल
206	033913	श्री गुप्ता विष्णु कुमार एम	268	036076	श्री माहेश्वरी प्रकाश रुपचंद
207	033967	श्री चोकरसे अमय भगवानदास	269	036097	श्री धृत वेणुगोपाल मदनलाल
208	034014	श्री पिंटो इग्नेशियस बेजामिन	270	036106	श्री जंबनाथन वी
209	034043	श्री पटेल गीतमकुमार बल्लभभाई	271	036119	श्री काने नितिन महादेव
210	034048	श्री सिकंदर निजामसाहेब काजी	272	036121	कुमारी मेहता मनीषा अमृतलाल
211	034077	श्री ताराचंद जैन	273	036169	श्री कासुकर सैमसोन सैमुएल
212	34084	श्री जतानिया संजीव प्रागजी	274	036171	श्री पारेख मुकेश कंचनलाल
213	034117	श्री मापारा विपिनचंद्र रामलाल	275	036215	श्री कोठारी विजयचंद्र गुप्त
214	034185	श्री किशोर छोटुभाई पटेल	276	036226	श्री जयंत कांतिलाल पोपट
215	034193	श्री यशोधर नटवरलाल देसाई	277	036237	कुमारी विरानी शैनाज कसमअली
216	034204	श्री सुरेश कुमार	278	036244	श्री आर्यंगर गोविन्दराजन पार्थसारथी
217	034226	श्री राधाकृष्णन एस	279	036283	श्री उपाध्याय रामबाबू
218	034253	श्री गिरीश विठ्ठलराव लाखे	280	036291	श्री काजरेकर दिवेंक सदाशिव
219	034277	श्री शंकर कालिदास मांजरेकर	281	036449	श्री मिडे संजय दिनकर
220	034298	श्री गांधी बिपीनचंद्र मनुभाई	282	036463	श्री घनश्याम दत्तात्रय भुशी
221	034301	श्री बावडेकर हेमन्त कृष्णा	283	036493	श्री बखरु ललित हरिकृष्णा
222	034308	श्री नरसिम्हन रविचंद्रन	284	036510	श्री दुभाशी अजीत वसंत
223	034332	श्री महेश सिताराम शेट्टी	285	036516	श्री दावडा सुनीलकुमार चोपटलाल
224	034375	श्री दमानी राजेन जयंतिलाल	286	036605	श्री दिनेश सोमनाथ भट्ट
225	034417	श्री रेलवानी मदन मोहन गुरमुख	287	036649	श्री माखिजा सुनिल हरीराम
226	034462	श्री मास्टर भूपेन्द्र अमृतलाल	288	036659	श्री अय्यर सुंदरराजन सिद्धमूर्ति
227	034466	श्री देसाई लक्ष्मीकांत यशवंत	289	036720	श्री डेडिया केतन छगनलाल
228	034494	श्री दवे जगदीश जगन्नाथ	290	036754	श्री शरद गजानन सोहोनी
229	034590	श्री बक्सी मयंक हसमुखलाल	291	036802	श्री पटेल अहमदहसन कसम
230	034612	श्री शाह किरीट कुमार रमनलाल	292	036856	श्री सोनी मुकुंद रामछोड़लाल
231	034639	श्री रामचंद्ररामा पणिककर	293	036922	श्री श्रीरामसुब्रमण्यम वैद्यनाथ
232	034656	श्री केतन रमेश कुमार	294	037087	श्री बाबू एलेक्जेंडर
233	034695	श्री विजयकुमार रामकृष्णन मेनन	295	037108	श्री झा धर्मेस विष्णुप्रसाद
234	034717	श्री मोदी दीपककुमार मनहरलाल	296	037125	श्री वासा दीपक मेहेंद्र
235	034740	श्री गदिया सुरेशकुमार	297	037145	श्री शाह आशित विनोद
236	034745	श्री जयेशकुमार भाईलालभाई पटेल	298	037256	श्री नवीन कुमार हरिराम कर्णेश
237	034771	श्री देवानी किशोर पेस्सुलाल	299	037286	श्री सबदा विजय फकीरचंद
238	034825	श्री मिस्त्री बोमी धनजीवा	300	037308	श्री शाह दिनेश हरिकिशनदास
239	034885	श्री शर्मा पियूष कुमार एम	301	037336	श्री बरवे रुपेन्द्र गणेश
240	034918	श्री शाह नितिन दशरथलाल	302	037353	श्री राजेश शिवानंद ऐंदूर
241	034987	श्री शुक्ला सुभाष शांतिलाल	303	037356	श्री हजारे सदानंद पुण्डलिक
242	034998	श्री फोनसेका मार्क साइमन	304	037366	श्री श्रीधर वैकटरमन
243	035032	श्री सोढा बिमल छबिलदास	305	037398	श्री दुर्गदसीमी विरुप्प बसप्पा
244	035204	श्री मेहता नितिनकुमार पनालाल	306	037548	श्री गजानन भवुकर चिघवडकर
245	035264	श्री वैकटरमण शिवकुमार	307	037585	श्री जोशी श्रीकृष्ण श्रीकाज
246	035318	श्री शाह उदय पुरुषोत्तमदास	308	037618	श्री नादकर्णी जयंत शंकर
247	035379	श्री अजीत दामोदर धित्तल	309	037639	श्री पचिंगर बकुलचंद्र वसंतलाल
248	035415	कुमारी प्रोवर जयश्री	310	037677	श्री रमानी राजन भवानी
249	035529	श्री कनकिया किरित जेठालाल	311	037692	श्री ऋषिकेश भारूति चव्हाण
250	035530	श्री दवे कमलेश चंद्रशेखर	312	037754	श्रीमती वंदना संजीव फडके
251	035545	श्री वैकट्यालम के	313	037833	श्रीमती सारस्वत रामकृष्णन
252	035552	श्री सुब्रमण्यन सीवी	314	037837	श्री शाह दीपक दिनेशचंद्र
253	035585	कुमारी किनी गायत्री	315	037861	श्री बाळे गिरीश मधुकर
254	035632	श्री झवेरी हितेन्द्र सुरविर	316	037863	श्री इदनानी सुरिंदर जेठानन
255	035672	श्री वेलमपराम्पिल बाबू जैकब	317	037878	श्री नायर विनोद कृष्ण
256	035725	श्री शाह दिव्येश नवीनचंद्र	318	037897	श्री शाह कमलेश हिमतलाल
257	035742	श्री शाह शिरीष शांतिलाल	319	037923	श्री कपिला कमल रामस्वरूप
258	035761	श्री खानोरकर राहुल भास्कर	320	037945	श्री प्रधान गिरीश सुशीलकुमार
259	035813	श्री मेहता चंद्रेश एच	321	037951	श्री कृष्णमूर्ति वैकटेश्वरन
260	035849	श्री संजीव मेहेंद्रभाई झवेरी	322	037963	श्री वादुवर शेबादि रमण
261	035879	श्री सोनार दिलीप गणपतराव	323	037992	श्री रोड्रिगुज-लियो मार्शल
262	035910	श्री फौजदार केरसी एरुच	324	038037	श्री वेण्णव नितिन महादेव
263	035942	श्री मेहता राजेश अमृतलाल	325	038047	श्री अकलेश्वरिया किरिट जयंतिलाल
264	035956	श्री देवेंद्र विनायक सिनाई काकोदकर	326	038135	श्री जननी किशोरचंद्र जयंतिला

327	038188	श्री पारिख अमीत राजेन्द्र	389	040569	श्री कोलहटकर अनिल नरहरि
328	038192	श्री मर्चेन्ट दीपक धैर्यसिंह	390	040628	श्री डागा अतुल सतीश
329	038220	श्री वखरिया परेश विनोदचन्द्र	391	040647	श्री गोडबोले प्रदीप महादेव
330	038242	श्री धर्मेश भुपेन्द्र मेहता	392	040687	श्री अप्पू मोहनदास
331	038278	श्री सराफ विजयकुमार हरिप्रसाद	393	040696	कुमारी सावतगीता चंद्रशेखर
332	038305	कुमारी फर्नांडीज एंथोनी	394	040725	श्री अम्यकर राजा शेखर सदाशी
333	038322	श्री फर्नांडीज एंथोनी लियो	395	040736	श्री साबू नरेश कुमार सत्यनारण
334	038333	श्री रामोस मर्विन एड्रयु जॉन	396	040754	श्री रामकृष्ण टीएन
335	038374	श्री गांधी सुनीलकुमार खीमचंद	397	040770	श्री शाह रूपेश सुरेन्द्र
336	038460	श्री हेमंत केशव कोलवडकर	398	040771	श्री दोशी मुकेश कुमार
337	038496	श्री अशेष अनंतराय पारिख	399	040797	कुमारी संध्या बालकृष्ण
338	038506	श्री विश्वनाथन विजय कुमार	400	040879	श्री बोरा आनंद कांतिलाल
339	038513	श्री पारिख तेहमास्य होमी	401	040917	श्री कानन एस
340	038542	श्री हितेन अम्बालाल पटेल	402	040925	श्री शेख नईम अहमद
341	038558	श्री लक्ष्मण पी एस	403	040982	श्री सुब्रह्मण्यमर्बकटकृष्ण
342	038589	कुमारी रिमता मनुभाई देसाई	404	041007	श्री सुनील प्रताप सेंटिया
343	038683	श्री भावेश प्रफुल्लचन्द्र मडका	405	041049	श्रीमती सुमंगलि मुगांक शाह
344	038699	श्री कांटावाला मुस्तफा जोयेब	406	041067	श्री चांदीरमानी रोमी
345	038711	कुमारी अर्चाय रेनु	407	041080	श्री झेसवाला नैलेश चिमनलाल
346	038715	श्री केशवानी गोविन्द कुमार लखमीचंद	408	041098	श्री भागवत गोविंद रामराव
347	038748	श्री शाह संदीप रमेश चंद्र	409	041140	श्री ओमप्रकाश केशवदेव हर्षवाल
348	038772	श्री श्रीधर राममूर्ति	410	041166	कुमारी मालती आर
349	038798	श्री श्रीराम चंद्रशेखर	411	041201	सीए. उदय कुमार जैन
350	038831	श्री कृष्ण रमेश	412	041218	श्री जठावट दिनेश कुमार
351	038879	श्री सबनीस महेश प्रभाकर	413	041227	श्री पणिकर विनोद कुमार माधवन
352	038884	श्री शाह दिनेश विनोदचन्द्र	414	041250	श्री गदा शांतिलाल नरशी
353	038888	श्री शाह नितिन सेवतिलाल	415	041304	श्री दोराबजी आदिल नवल
354	038921	श्री शाह निशिद बाबुलाल	416	041356	श्री चौहान रमेशमाई लाखामाई
355	038940	श्री साठे निखिल सत्यरंजन	417	041374	श्री मियाला कुतबुद्दीन राजबली
356	038961	कुमारी नामजोशी रजनी राजेश	418	041413	श्री देशपांडे मुकुंद वासुदेव
357	039059	श्री तलति रजत भाष्कर	419	041463	श्री अत्रे मिलिंद गंगाधर
358	039182	श्री मकरंद मुरलीधर काले	420	041465	श्री रामकृष्ण एस
359	039191	श्रीमती राजकुमारी साबू	421	041480	श्री राजीव माधव भिडे
360	039334	श्री देसाई अमित दौलतराय	422	041503	श्री पटेल पियूष सोमनाथभाई
361	039346	श्री शेष श्रीनिवास मल्लादी	423	041521	श्री जब्बार एच अब्दुल
362	039371	श्री चबलानी अशोक आत्माराम	424	041543	श्री शहाणे विवेक केशव
363	039445	श्री वेणुगोपाल चंद्रशेखर नायर	425	041575	श्री कलेरा राजू पेत्सुमल
364	039472	कुमारी शीला फिलिप	426	041599	श्री रजवाड़े प्रताप रामचंद्र
365	039476	श्री शाह संजय विरेन्द्र	427	041606	श्री शाह कमल शैलेषभाई
366	039512	श्री छेड़ा रमेश दामजी	428	041658	श्री शर्मा मनोज बजरंगलाल
367	039518	श्री कृष्णकुमार शिवरामकृष्ण अय्यर	429	041682	श्री संजय युवराज पाटिल
368	039522	श्री लाढा गिरिराज	430	041683	कुमारी काधवाला शमीना ताहर
369	039589	श्री सुरेश तासचंद जैन	431	041686	श्री मनोज जी
370	039626	श्री टेकचंदानी विनोद प्रकाश	432	041735	श्री भदवीय भरत लाल
371	039664	श्री शाह भरतकुमार हिमलाल	433	041748	श्री दर्जी अरविन्दकुमार मगनभाई
372	039760	कुमारी बेदे संगीता मुकुंद	434	041858	श्री तेलंग महेश यशवंत
373	039845	श्री राजकुमार नारायणन	435	041897	श्री पीठावाला कर्मन रुसी
374	039994	श्री सुवेदार राजीव श्रीकृष्ण	436	041916	श्री पारिख रोमक नरेन्द्र कुमार
375	040150	श्री एहतेशाम अहमद अब्दुलहबीब छतरीवाला	437	041930	श्री जोशी अभय भालचन्द्र
376	040179	श्री श्यामसुंदर काशीनाथ कामत	438	041942	श्री मेहता अजीत प्राणजीवन
377	040199	श्री खोट रविन्द्र अनंत	439	042066	श्री अम्बरीश रतिकान्त गालिंदे
378	040261	श्री मर्चेन्ट अश्विन हरिसिंह	440	042090	श्री सेवियो सेबेसियन गोम्स
379	040285	श्री फर्नांडीज ल्युक बेनेडिक्ट	441	042109	श्री पसुपलेटी पुरंदर
380	040293	श्री नुरानी बालाकृष्ण कृष्ण	442	042129	श्री शंभु गणेश श्रीनिवास
381	040344	श्री मेहता प्रतीक एस	443	042135	श्री शर्मा संजय रामगोपाल
382	040366	श्री मुरली मोहन शिंगला	444	042198	कुमारी कृतिन्हो कैरेन
383	040394	श्री कटारिया रविन्द्र कनकमल	445	042200	श्री मनीष अरविंद पारीख
384	040409	कुमारी टाटा फरीदा श्यामक	446	042201	श्री जीतेन्द्र मधुकर मराठे
385	040440	श्री शेटी अशोक कुमार महाबाला	447	042253	कुमारी वजाज दीपा श्यामकिशन
386	040462	श्री किनी सुजीत	448	042294	श्री राव सत्यदेव रमणा
387	040513	श्री गिरीश गोविंद गंगल	449	042349	श्री भंसाली जयशील अरुण
388	040530	श्री मनीष पाठक	450	042373	श्री गिरीश मनोहर बालेकुंदी

451	042396	श्री महेश श्रीपाद कस्वकार	513	044494	श्री पटेल शशिकांत शंकरलाल
452	042406	श्री गंगाधरन मुरलीधर	514	044586	श्री भट्टार श्याम सुंदर
453	042432	श्री डियास मर्विन एम्बोजियो	515	044588	श्री दोशी अभय प्रदीपचन्द्र
454	042451	श्री भंसाली असित हरेश	516	044589	श्री पेट्रिक एथोनी रोजेरियो
455	042472	श्री त्रिवेदी अशोक अमृतलाल	517	044602	श्री शाह अजीतकुमार कांतिलाल
456	042514	श्री प्रवीण कुमार चौधरी	518	044613	श्री ठक्कर भूपेन्द्र चंदलाल
457	042525	श्री देसाई संजय वसंतभाई	519	044620	श्री एल्लोयसिस विकेट
458	042689	श्री मोदक कौशिक	520	044626	श्री सुनील सुनीलाल खिनवसार
459	042702	श्री जानी तुषार योगेन्द्र	521	044642	श्री शाह केयूर बघुभाई
460	042706	श्री दादाचानजी रोहिंटन बर्जर	522	044671	श्री शुकला राजेश हरिप्रसाद
461	042829	श्री भालेराव दिनकर काशीनाथ	523	044701	श्री जोसे के
462	042848	श्री पटोदिया राम अवतार	524	044708	श्री धूपकर सुदिन प्रभाकर
463	042868	श्री डोहड़वाला शब्बीर अकबरअली	525	044729	कुमारी कांति मनोज राव
464	042892	श्री हितेशकुमार किशोरभाई जोशी	526	044737	श्री गांधी भवेश गुणवंत
465	042955	श्री चिंदबरम मुरली	527	044749	कुमारी देशपांडे अश्विनी मुकुन्द
466	043000	श्री हेगडे गणपति शिवराम	528	044758	श्री चौकर सचिन रविन्द्र
467	043005	श्री नदीम कुरेशी मुहम्मद	529	044761	श्री चौहान अतुलकुमार गोविन्दभाई
468	043037	श्री मीरचंदानी सुनील राम	530	044775	श्री फौजदार भाविन सुधीरभाई
469	043078	श्री भंसाली आशीष महेंद्रभाई	531	044787	श्री प्रभुदेसाई सचिन गोविन्द
470	043121	श्री कांगले अभय पुरुषोत्तम	532	044791	श्री कमल कुमार जितेन्द्रकुमार व्यास
471	043170	श्री नालमट्ट जयराम चन्नाबसप्पा	533	044814	श्री सराफ महेश कुमार
472	043287	श्री कस्वकार निरंजन गजानन	534	044823	श्री पराजपे अभय वसंत
473	043304	श्री उपाध्याय चंद्रकांत नटवरलाल	535	044828	श्री सोमैया कल्पेश नवनीत
474	043308	श्री जैन राजकुमार अमरनाथ	536	044870	श्री पटेल प्रणव बालू
475	043327	श्री मर्चेंट विरेन शांतिकुमार	537	044962	श्री मनीष प्रवीणभाई हकानी
476	043339	श्री राव पी लक्ष्मीप्रसाद	538	045140	श्री घानेकर रविन्द्र त्रिम्बक
477	043353	कुमारी अन्नारेकर सुजाता सोनू	539	045148	श्री किरण शरद विद्यारे
478	043467	श्री राजा निखिल छोटालाल	540	045157	श्री हरि वेंकट सुब्रमण्यन एच
479	043483	श्री मेहता जितेंद्र कालिदास	541	045158	श्री जितेन्द्र काशीनाथ तवरी
480	043497	कुमारी अनुराधा रामकृष्ण	542	045183	श्री ज्योति प्रसाद राठो
481	043518	श्रीमती सीमा प्रकाश पोद्दार	543	045203	श्री अय्यर शिवकुमार कासिनासयण
482	043582	कुमारी अनामिका संजय वर्मा	544	045223	श्री बाज सुनील पीटर एडविन
483	043743	श्री रमाकांत श्रीनिवास कोनी	545	045244	श्रीमती राजश्री कृष्णाकांत परब
484	043754	श्री मेहता विकास नवनीतलाल	546	045265	श्री चोकसी श्रेणिक अरविन्द्र
485	043766	श्री विजयसाखी राघवन	547	045279	श्री दलाल नीरव भूपेन्द्र
486	043786	कुमारी वच्छरजनी पुर्तिमान	548	045323	श्री विक्रम अरविंदर जर्तींदर
487	043794	श्री झवेरी महेंद्र पोपटलाल	549	045337	श्री धकप्पा यतीश त्रियम्बक
488	043804	श्री शाह अपूर्व अजीत	550	045355	श्री जगदीश बाबू रामनाथन
489	043807	श्री देसाई दिव्येश कांतिलाल	551	045431	श्री शंभाग रमेश रामदास
490	043830	कुमारी स्वाति हसमुखभाई पारीख	552	045525	श्री कारंदीकर नील विठ्ठल
491	043851	कुमारी रोहणी सुप्रिता गोविन्द	553	045538	श्री शिवरामन रामचंद्रन
492	043854	श्रीमती कल्पना किशोर साह	554	045548	श्री शाह प्राणेश चंद्रकांत
493	043867	श्री तुलसीयन पियूष	555	045569	श्री देसाई विपुल बलवंतराय
494	043917	श्री जैन राजीव	556	045609	श्री मुंद्रा पवन कुमार मानिकचंद
495	043953	कुमारी अय्यर लता कृष्ण	557	045612	श्री शाह धर्मेन हरीशकुमार
496	043987	श्री सुनील मोरेश्वर गोखले	558	045637	श्री बगई हरिंदर सुरींदर
497	043993	श्रीमती अंजलि दीपक माखिजा	559	045640	श्री दीपक रामचंद्र माखिजा
498	043997	श्री ओबेरॉय आसित	560	045648	श्री कोतवाल अतुल अरविन्द्र
499	044017	श्री राणे प्रवीण कृष्ण	561	045675	श्री पारेख प्रशान्त दिनेशचन्द्र
500	044026	श्री कोपरकर प्रसाद यशवंत	562	045679	श्री किरितकुमार नरसीदास गांधी
501	044037	श्री राजे सचिन रमेश	563	045843	श्री जॉर्ज नोएल थॉमस
502	044109	श्री मल्लिक जे	564	045866	श्री अय्यर अशोक रामचंद्रन
503	044198	श्री फ्रांसिस अरेकपराविल थोमस	565	045920	कुमारी आरती वैद्यनाथन
504	044217	श्री राजेन्द्र कुमार हरिकृष्णजी धूत	566	045978	श्री शाह हीरेन रसिकलाल
505	044234	श्री दवे भाविन निरंजनभाई	567	046013	कुमारी कदम संगीता श्याम
506	044245	श्री नेगी गोविन्द सिंह	568	046040	श्री सुनील शाह
507	044340	श्री मेहता खुसरो	569	046074	श्री नलवाड़े राजेन्द्र पांडुरंग
508	044376	श्री देवराजन वैकिट सुब्रमण्यन	570	046087	श्री करीम ए एम गंगानी
509	044384	श्री सुंदर राम गोविंदराघवन	571	046099	श्री शंघाई सुनीलकुमार केदारनाथ
510	044399	श्री कपाड़िया वकुल भगवानजी	572	046101	कुमारी पारुल दीपेश नंदु
511	044434	श्री शर्मा गोविन्द प्रसाद	573	046276	श्री ताजपुरिया राजेश गोविन्द
512	044482	कुमारी क्रिस्टबेल रैलियाराय	574	046291	श्री विपुल कांतिलाल सोमैया

575	046317	श्री महाजन अनिल रामचंद्र	637	047804	श्री डीसूजा ऑगस्टीन जीवन
576	046329	श्री सुनील नवीनचंद्र त्रिपाठी	638	047811	श्री जैन निरंजन कुमार
577	046348	श्री गांधी विमलकुमार नटवरलाल	639	047815	श्री भाविनकुर्वे अजय सुरेशचंद्र
578	046414	श्री गुप्ता समीर हरिशंकर	640	047854	कुमारी जररिया सविता शेखर
579	046417	श्री अतुल विनोद राय मोदी	641	047877	कुमारी आर्य शैल वेदव्यास
580	046452	श्री जैन प्रवीण कुमार	642	047881	श्री शर्मा राजेशकुमार मंगतुराम
581	046464	श्री देवांग जसवंतलाल शाह	643	047895	श्री उदेशी विक्रम विजयसिंह
582	046473	श्री स्वामी रमेश नारायण	644	047959	श्री वरदराज सुब्रमण्यन
583	046474	कुमारी डावडा इंदिरा डुंगरि	645	048001	श्री खडवाला हवीब
584	046478	श्री जाजू संजयकुमार रमाकांत	646	048007	श्री कोठारी राकेश भूपतराय
585	046517	कुमारी टास्कर निहारिका रमेश	647	048048	श्री अनील देवपाल सेठी
586	046554	श्री डेडिया मनीष विश्वनाथजी	648	048069	श्री हठी प्रदीप नेताइचन्द्र
587	046555	श्री बटिया दिनेशमल्ल जीतमल्ल	649	048088	श्री तवीन्द्र सिंह रावल
588	046585	श्री आचार्य सुधीर श्रीनिवास	650	048226	श्री पांडेय अभय चन्द्र
589	046650	श्री शर्मा अतुल कुमार सीताराम	651	048228	कुमारी कल्पना डुंगरि दावडा
590	046656	कुमारी घाडगे शुभांगी रेवान	652	048248	श्री अमित गुणवंतभाई शाह
591	046659	श्री विश्वनाथप्रसाद नारायणस्वामी	653	048251	श्री मालवडकर जितेन्द्र मारुत राव
592	046680	श्री नेवाटिया विशाल जी	654	048291	श्री शाह विपुल जयसुखलाल
593	046698	श्री शाह अतय प्रवीण	655	048320	श्रीमती सुलेखा नीलकांतन
594	046749	श्री शाह राजेन्द्र प्रसाद	656	048329	कुमारी शैला पररा
595	046757	श्री शाह हिमांशु कानुभाई	657	048352	श्री दोशी राजेन्द्रकुमार पूनचंद्र
596	046772	श्री अग्रवाल किशोरकुमार लक्ष्मीनारन	658	048365	कुमारी अय्यर गायत्री कृष्णन
597	046776	श्री नायर उन्नी कृष्णन आर	659	048370	श्री वेंकटेश गणेशन
598	046789	श्री शाह कौशिक रजनीकांत	660	048405	कुमारी मिस्त्री हज्जत फिरोज
599	046808	श्रीमती रूकसाना फरशीद सावधा	661	048407	श्री दलाल किंजल भूपेन्द्र
600	046816	श्री वाट्स स्टीवन	662	048413	श्री अनिल जयराम शेट्टी
601	046825	श्री जैन सुनील कुमार हनुमानमल्ल	663	048448	श्रीमती संगीता मिलिन्द सरदेसाई
602	046872	श्री असपंडियार कायकुशरु कवासिया	664	048461	श्री वीरराघवन पी आर
603	046915	श्री अगबोटवाला सकीब सलीम	665	048497	श्री छाबरा गौरव प्रकाश
604	046952	श्री शिरपुरकर दीपक प्रभाकर	666	048515	श्री संजयकुमार मधुकर कराडे
605	047008	श्री रमेश भगवानदास वीरवानी	667	048518	श्री अजमेरा सुनील
606	047034	श्रीमती पंक्ति चेतन मंसाली	668	048593	श्री मुकेश कुमार समदरिया
607	047093	श्री अजय बालकृष्ण भटवाल	669	048655	श्री मेहता किरत निरंजन
608	047101	कुमारी पद्मा बालकृष्णन	670	048659	श्री कक्कड़ पारितोष विनोदराय
609	047111	श्री मयूर मनोहर अकोलेकर	671	048673	कुमारी लिनेट योगेश गौर
610	047114	श्री वोस विजयकुमार जमनादास	672	048693	कुमारी मेहता कश्मीरा दरायुस
611	047118	श्री बोरकर शैलेष शांताराम	673	048702	श्री सइद आसिफ अली फिरोज हसन
612	047125	कुमारी रुक्मिणी भास्करन	674	048742	श्री कुलकर्णी शंकर गजानन
613	047193	श्री खालिद निहाल फैज	675	048760	श्री मृत्यु केंदार परशुराम
614	047227	श्री पारेख फारुख होमी	676	048787	श्री नामजोशी प्रदीप मधुकर
615	047237	श्री क्रात्रक नवरोज कर्सेस	677	048804	श्री राव समीर
616	047255	श्री पाटिल सूर्यकांत देवगोड़ा	678	048828	श्री वाज विलियम मार्टिन
617	047267	कुमारी राजस सुबोध कुते	679	048831	श्री वेमुरी उदयभास्कर
618	047269	श्री जैन अजय कुमार	680	048858	श्री अय्यर नारायणन शंकरन
619	047274	श्री मोहालयन पवन कुमार	681	048873	कुमारी लालवानी सारंग ओमप्रकाश
620	047276	श्री परैया इयान रेमण्ड	682	048909	श्री मिस्त्री संजय सुंदरलाल
621	047359	श्री कोहरा तहरी इनायत हुसैन	683	048931	श्री नालवाडी शांतनु यशवंत
622	047380	श्री कामत मधुकर रामदास	684	048956	श्री मनियर मूर्तजा नजमुद्दीन
623	047384	श्री जितेन्द्र राजपाल दरयानी	685	048995	श्री माथुर हरि रवि प्रकाश
624	047386	श्री बकलीवाल संजय कुमार	686	048999	श्री जैन गणेश बृजलाल
625	047464	श्री शाह हरीश रणछोड़	687	049033	श्री दिनेश बनवारीलाल सराफ
626	047476	श्री आचार्य श्रीपाद पुष्पसेन	688	049042	श्री पारिख उर्विशकुमार कांतिलाल
627	047507	कुमारी रिबेलो सुनीला रयुबेन	689	049047	श्री राजेन्द्र कुमार चेवानी
628	047536	श्री चेवानी जगदीश चन्द्र	690	049178	श्री शेनवी विनायक प्रभाकर
629	047541	श्री अनुप कुमार हरिकृष्ण विजे	691	049221	श्री बंदुकावाला अब्दुलहसन अब्बास
630	047571	कुमारी थडानी हीरू दयाल	692	049249	कुमारी सविता ब्रगंजा
631	047634	श्री ससनवर नरेश पर्वत	693	049250	श्री महाते सचिन नारायण
632	047670	श्री ठक्कर नीलेश बंशीलाल	694	049295	श्री एलेविया फारुख जिम्मी
633	047710	श्री महार प्रशांत सुंदरलाल	695	049300	श्री सेलियन सुधीर कुमार श्रीनिवास
634	047728	कुमारी शाह कविता राकेश	696	049310	श्री मालपानी आलोक ओमप्रकाश
635	047743	कुमारी दासवानी कल्पना रामचंद्र	697	049371	श्री कामत वामन रमेश
636	047744	श्री सिराज मुहम्मदअली भावनगरवाला	698	049388	श्री अतीक अब्दुलगाफूर मुंशी

699	049421	श्री सोनेजी जयेश वीरकुमार	761	057294	श्री खत्री तंजय
700	049433	श्रीमती वीणा संतोष बडे	762	057667	श्री दिव्य भाद्रा
701	049468	श्री हीरा लाल खत्री	763	057684	श्री धृत अविनाश
702	049519	श्री शेट्टी सुरेन्द्र सोन्या	764	057709	कुमारी रुपाली उडानी
703	049543	श्री गणात्रा अनीश प्रवीणकुमार	765	057739	श्री राजगिरिया प्रमोद
704	049605	श्री उमेश अनिलकुमार देसाई	766	057777	श्रीगरोडिया आलोक
705	049606	श्री आप्टे गणेश श्रीधर	767	057818	श्री मेहता नृदिप
706	049612	श्री प्रजापति हेमंतकुमार करसनदास	768	058090	श्री लिंगा लक्ष्मण कुमार
707	049619	श्री गांधी संजय अनंतरेय	769	058100	श्री पंजरी सुरेश कुमार
708	049685	श्री समीर किरित पारेखजी	770	058147	श्री मनोज कुमार डुगर
709	049720	श्री मन्दसोरवाला अलीअसगुर-ए-मुहम्मद	771	058171	श्रीमती इस्मिता बनर्जी
710	049724	श्री अगरवाल विकास सुरेन्द्रकुमार	772	058431	श्री बोहरा मनीष
711	049732	श्री पारेख दीपक केशवलाल	773	058714	श्री झा विजेंद्र कुमार
712	049753	श्रीमती मेरी ग्रेगरी	774	058901	श्रीमती सिन्धी गुगनानी
713	049780	श्री खेतान अमित	775	059082	श्री मोदी विकास कुमार
714	049816	श्री पिटो हरमन जॉन	776	059219	श्री सेनगुप्ता निलादि
715	049834	श्री संजीव हीराचन्द्र झवेरी	777	059252	श्री शर्मा हनुमान कुमार
716	049847	श्री गोरे योगेश नंदकुमार	778	059263	श्री खेतन रवि कुमार
717	049903	श्री ओझा पराग रमेश	779	059369	कुमारी अगरवाल रंजीता
718	049999	श्री महाराज अमित सिद्धार्थ	780	059394	श्री खन्नावाल रूपेश
719	050628	श्री समीर कुमार साहा	781	059600	श्री मंडल राजकुमार
720	050687	श्री अशोक कुमार जैन	782	059630	श्री सिन्हा देवव्रता
721	050701	श्री निरंजन भट्टाचार्य	783	059821	श्री लखमेश विनय
722	050977	श्री बसु प्रतीप कुमार	784	059947	श्री हेमानी आसित कुमार एच
723	051242	श्री मोहन जॉर्ज	785	059987	श्री कृष्ण ऊर्ध्व
724	051294	श्री सेट्ट विवेक	786	060149	श्री बी नटराज सेनापति
725	051489	श्री कोटक नितिन विशनजी	787	060193	श्री छादछरिया अमित
726	052015	श्री आदि नारायण वेंकटेश	788	060244	कुमारी गुप्ता निधि
727	052056	श्री कृष्णास्वामी आर	789	060510	श्री गुप्ता संनक
728	052069	श्री बच्छावत तिलक चंद	790	060561	कुमारी मेह सुरभि
729	052110	श्री गरोडिया अरुण कुमार	791	060625	कुमारी मेहका प्रियंका
730	052153	श्री सुकमल मुखर्जी	792	060667	कुमारी जैश्री संजय
731	052347	श्री प्रसाद अजय नाथ	793	060682	कुमारी मनुनदार मधुमिता
732	052573	श्री हरजीत सिंह सोदी	794	061041	श्री बैनर्जी अभिषेक
733	052635	श्री राजीव भार्गव	795	061109	श्री गुप्ता नमित
734	052670	श्री किशन कांत राठी	796	061230	श्री पंकज कुमार
735	052874	श्री दिलीप चक्रवर्ती	797	061255	श्री गुप्ता जूष्ण कुमार
736	053247	श्री बजरंग कुमार बरडिया	798	061389	श्री तोरनीवाल हिमांशु शिवनंदन
737	053333	श्री सुनील टोडी	799	061581	श्री मुखोपाध्याय श्रीदीप
738	053336	श्री शाह परेश	800	062076	श्री सेन सप्राट
739	053725	श्री मंडारी महेन्द्र	801	062106	श्री माला नीरम
740	053827	श्री शर्मा आलोक	802	062245	श्री सिंह अभिषेक
741	053863	श्री मनोज कुमार सोनी	803	062386	श्री मनीष जैन
742	053926	श्री साहा सीमित्र	804	062558	श्री भारतीय चंद्रशेखर
743	054012	श्री सुजीत चंद पॉल	805	062842	श्रीमती नमिता सिंघानिया
744	054174	श्री दास मानस	806	063048	श्री जैन मोरव
745	054533	श्री चक्रवर्ती सुदीप	807	063217	श्रीमती बेनानी पाण्डे
746	054787	श्री चटर्जी ऋजु	808	063552	कुमारी नेहता श्रेया विनोद
747	054936	कुमारी अंजना पॉल	809	063687	सीए अंजिता साहा
748	055225	श्री बेहेरा बारिदा बरन	810	063740	श्री कुंतिया सुर्य कांत
749	055426	श्री रॉय आसितव	811	063743	श्री मदनलाल हरीश
750	055569	श्री सिल संतानु	812	063900	श्रीमती श्रुति दारुका
751	055646	श्री फारुक सिद्दिकी	813	063942	श्री सिंह विकास कुमार
752	055711	श्री रामदास एच एल	814	063948	श्री अगस्त्यन विकास
753	055807	श्री बैनर्जी संवित	815	064133	श्री सुराना निशांत कुमार
754	056018	श्री होर सीम्य	816	064376	श्री दीपक कुमार अगरवाल
755	056477	श्री वेंकटेश के	817	064464	कुमारी रंजिता सिंह
756	056531	श्री डालुका कमल	818	064473	श्री राहुल अगरवाल
757	056583	श्री प्रदीप कुमार मेनन	819	064667	श्री अनंत कुमार अगरवाल
758	056637	श्री अनुज गोयल	820	064876	सीए विजयस बंद
759	056937	कुमारी सेन शर्मा मीमिता	821	065315	सीए रूहा तोसनीवाल
760	057096	श्री राठी श्याम सुंदर	822	065330	सीए रमेशचंद मुधरा

823	065629	सीए. सुश्री शख दास	804	078721	श्री कुम्भट अनुज
824	070256	श्री तारा चन्द चेजारा	805	079099	श्री जैन यतीन
825	070344	श्री फडनीस अमरेंद्र रमेश	806	079143	श्री आशीष माथुर
826	070702	श्री उमेश चन्द	807	079234	श्रीमती मोनिका धवन
827	070726	श्री प्रकाश चन्द बच्छावत	808	079364	श्री बहादुर गोपेन्द्र
828	070832	श्री मुखोपध्याय सिद्धार्थ शंकर	809	079369	श्रीमती प्रियंका बाया
829	070951	श्री सुमित दत्त	810	079381	श्री गुमनमल जैन
830	071106	श्री अगरवाल शंभु कुमार	811	079870	श्री बोकाड़िया संजय
831	071323	श्री सोनी आनंद स्वरूप	812	079964	श्री बंसल कमलेश
832	071445	श्री अगरवाल राजीव	813	079975	श्री जैन दीपक राज
833	071706	श्री पंकज बोस	814	081077	श्री गोयल विनोद कुमार
834	071746	श्री नंद किशोर गोयल	815	081154	श्री प्रकाश केशव गौर
835	071896	श्री अनंदय दत्ता	816	081165	श्री रघु एस
836	072064	श्री अजय जैन	817	083380	श्री रामानुजन आर वी
837	072118	श्री बोकारिया मोहनलाल	818	083905	श्री रामचंद्रन जी
838	072211	श्री ललित सिंघवी	819	084197	श्री राजेश दुट्टा
839	072620	श्री राज कुमार मेहता	820	084406	श्री राकेश मेहरा
840	072729	श्री गर्ग गोपाल चन्द	821	084950	श्री अरोरा संजय
841	072872	श्री अगरवाल आलोक कुमार	822	084991	श्री बग्गा अमर जीत सिंह
842	073058	श्री सुमित नीलकण्ठ कुमार	823	085181	श्री तिवारी अरविंद कुमार
843	073144	श्री राव चंदन वैकट नाग भूषण	824	085796	श्री प्रमानंद एमजी
844	073215	श्री कांति मल भंडारी	825	086193	श्री घनश्याम राठी
845	073344	श्री भंडारी नरेन्द्र कुमार	826	086512	श्री शर्मा मदन कृष्ण
846	073359	श्री अगरवाल उमेश	827	086771	श्री बसु संदीप
847	073636	श्री विजय कुमार अजमेरा	828	086834	श्री आशु गुलाटी
848	073715	श्री मिठा राजीव	829	088368	श्री दुआ सुरेश कुमार
849	073750	श्री कुम्भट विरेन्द्र कुमार	830	088884	श्री जैन विवेक
850	074146	श्री सुरेश चंद्र गट्टानी	831	089235	श्री अगरवाल उमा शंकर
851	074254	श्री नवीन कुमार अगरवाल	832	089574	श्री पुनीत मट्टा
852	074566	श्री नामा नाथलाल	833	090272	श्री सूरि परिक्षित
853	074567	श्री सुरेश महेश्वरी	834	090698	श्री थिलिड्याल गिरीश चन्द
854	074759	श्री गुप्ता अजय कुमार	835	091581	श्री शोवर भूपेश
855	074921	कुमारी उषा जानकीरमण	836	091849	श्री भंडारी गौतम
856	075115	श्री घोश पार्थ सारथी	837	092448	श्री मल्होत्रा राजेश
857	075149	श्री सिंघवी संजय	838	092857	श्री मानोत विवेक
858	075265	श्री त्रिपाठी कमल	839	093079	श्री सेनी सोमनाथ
859	075465	श्री नागेश कुमार	840	093152	श्री विक्रम तुषार
860	075578	श्री जैन विमल कुमार	841	093741	श्री राजेश बग्गा
861	075691	श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता	842	093931	श्री गुप्ता संजीव कुमार
862	075711	श्री देवपूरा जीवन सिंह	843	093973	कुमारी शोवर रचना
863	075832	श्री मुनहोट नवनीत	844	094167	श्रीमती नील चौधरी
864	075929	श्री मुरलीधर के	845	095277	श्री गोयल पंकज
865	076116	श्री भित्तल अजय	846	095849	श्री सरकार अमिजित
866	076139	श्री व्यास दिलखुश	847	096030	श्री केडिया सिद्धार्थ
867	076215	श्री श्रीमल अरविन्द कुमार	848	097149	श्री शर्मा सुरील कुमार
868	076293	श्री गुलेच्छा विशाल	849	097160	श्री सिपानी दीपक
869	076413	श्री मेहता रोहित	850	098718	श्री लाठ कमल कुमार
870	076574	श्री अगरवाल राजेश कुमार	851	098803	श्री तिवारी शैलेन्द्र कुमार
871	076800	श्रीमती सीमा भूमिक तुरखिया	852	098933	श्री कस्तुरीवाल पराग
872	076943	श्रीमती निधि मल्होत्रा	853	099531	श्री रवि बाबू
873	077084	श्री बाया गगन	854	099569	कुमारी गुप्ता दीप्ति
874	077431	श्री पुंगलिया संजय	855	100015	श्री इंजीनियर अब्दुल कैयुम खान अमानुल्लाह खान
875	077551	श्री हरीश कुमार	856	100054	श्री जयराम नाथन
876	077615	श्री आनंद मोहन गुप्ता	857	100061	श्री तुलसियान आदित्य कुमार
877	077877	श्री गर्ग नीरज कुमार	858	100078	श्री आत्रेय शंकर सुब्रमण्यन
878	078202	श्री सूरज जयसवाल	859	100136	श्री पटनकर निलेश अरविन्द
879	078380	श्री मेहता सौरभ	860	100188	श्री हरजोत सिंह रिहान
880	078409	श्री सिद्धार्थ जैन	861	100198	श्री मोवेदजी होमयार जिम्मी
881	078608	श्री महेश्वरी सुनील	862	100218	श्री बिल्लिमोरिया फरहाद दारा
882	078660	श्री गार्गिय शरद कुमार	863	100221	श्री कुलकर्णी कैलाश पांडुरंग
883	078696	श्री राकेश राठी	864	100267	श्री मनोहर शैलेश रामचन्द्र

945	100269	श्री शाह अमित भुपेन्द्र	1007	101420	श्री लाडू लाल सोनी
946	100274	श्री नरपत कुमार चोपड़ा	1008	101455	श्रीमती कैस्टेलिनो लिनेट मरिना क्रिस्टीन
947	100364	श्री शेन अजय माधव	1009	101505	श्रीमती समीरा अमीन मर्बूत
948	100367	श्री रविन्द्र गणेश रजवाड़े	1010	101528	श्री सितानी विक्रान्त रमेश चंद्र
949	100375	श्री शाह निमीश नलिन	1011	101559	श्री मुगेन हरिद्रनाथ त्रिवेदी
950	100389	श्रीमती जयना नीलेश गांधी	1012	101646	कुमारी शाह शीतलबेन सेवकभाई
951	100406	कुमारी शर्मिन नैटी कोसेस आलमेडा	1013	101698	श्री शर्मा रमेश देवदेवेश
952	100448	श्री शाह आशीष हसमुखलाल	1014	101731	श्री संजय एस सोमानी
953	100451	श्री दलाल समीर भुपेन्द्र	1015	101732	कुमारी लक्ष्मी लक्ष्मीनारायणन
954	100463	श्रीमती राधिका गोपालकृष्णन	1016	101744	श्रीमती रुतिका एम लालवानी
955	100465	श्री केटी विनोद नाथियार	1017	101752	श्री गुप्ता नवल किशोर
956	100466	श्री हरिहरन विनोद अनंत सुब्रमण्या	1018	101761	श्री शाह समीर प्रफुल्लचन्द्र
957	100476	कुमारी शाह रीना हसमुख	1019	101775	श्री शाह जिगनेश हरीश
958	100494	श्री सकपाल अजय रघुनाथ	1020	101786	श्री सावता जतिन हीरालाल
959	100507	श्री बज्रदावाला होजेफा फकरुद्दीन	1021	101812	श्री मेनन प्रदीप नारायण
960	100561	कुमारी अराध्या राधिका अनन्त	1022	101818	श्री मराठे जयदीप प्रभाकर
961	100576	कुमारी फोर्बस बर्जीन रोहिन्टन	1023	101835	श्री आर्यगर रादेश रामास्वामी
962	100579	श्री रोशन कुमार अगरवाल	1024	101869	श्री राजेश सदानन्द शेटी
963	100600	श्री भरत दिलीपकुमार गुप्ता	1025	101880	श्री शाह जयेश रमेशचन्द्र
964	100607	श्री राजदत्ता श्रीराम ओक	1026	101921	कुमारी शाह जिगना किशोर
965	100608	कुमारी पाटिल संगीता शंकर	1027	101925	श्री सोनार राजेशकुमार छोटेलाल
966	100619	श्री काटकर राजेन्द्रनाथ श्रीरंग	1028	101951	श्री सातपुते सिद्धार्थ सतीश
967	100625	कुमारी मुल्ये कीर्ति केदार	1029	101956	कुमारी आटे सोनल गणेश
968	100626	श्री पांड्या जिगनेश घनश्याम	1030	101971	श्री पैला अनील सुब्बा राव
969	100644	श्री अशार राकेश द्वारकादास	1031	101974	श्री सुकृत शादूल मेहता
970	100669	श्री जैन जितेन्द्र शांतिलाल	1032	102003	श्रीमती अन्नपूर्णा सविन्द्र डेने
971	100673	श्री मास्करेनहस क्रिस्टोफर	1033	102017	श्री मुकेशकुमार रामकरण शाह
972	100694	श्रीमती डी कोस्टा साण्डू	1034	102036	श्री देसाई आशुतोष अरविन्दकुमार
973	100724	कुमारी रेशमा अशोक नारंग	1035	102041	श्री तुषार चंद्रकांत सावंत
974	100793	कुमारी खोजा सलमा नजीर	1036	102045	श्री गोरे अजीत वसंत
975	100807	श्री बालिगा विनय सुरेन्द्रनाथ	1037	102064	श्री मंदार गजानन शेटी
976	100817	श्री प्रकाश लवजी बाघेला	1038	102081	श्री सिदीक गुलामअली पटेल
977	100868	श्री आशेर भाविन नरेश	1039	102142	श्री दीपक भाष्कर नागदेकर
978	100878	श्री जीतेन विठलदास दनानी	1040	102143	श्री बागानी पुनीत कांतिलाल
979	100885	श्री कृष्णमूर्ति विश्वनाथन	1041	102165	श्री टाटली रवीश मोहम्मद हुसैन
980	100955	श्री धारिया जगन रसिकलाल	1042	102169	श्री कोटवानी अरुण चेल्लाराम
981	100971	कुमारी लंगोटे मृणमयी भगवान	1043	102170	श्रीमती उषा आनंद अहूजा
982	100989	कुमारी सोमैया कविता माधवजी	1044	102172	श्री जैन संजय कुमार
983	100998	श्री अगरवाल अभिषेक बालकुमार	1045	102177	श्री टन्ना अमित कुमार किशोरचन्द्र
984	101025	श्री प्रदीप कृष्णचन्द्र पंत	1046	102202	श्री साने मनीष सुरेश
985	101030	श्री रमानी महेशकुमार जीवराज भाई	1047	102213	श्रीमती शिल्पा तरुण कुमार गुप्ता
986	101089	श्री मुस्तफा अब्दुलहसन मोमिन	1048	102216	श्री शाह परेश किशोरचन्द्र
987	101100	कुमारी वीरमानी प्रबजोतकौर अवतारसिंह	1049	102222	श्रीमती माधवी उदय नाईक
988	101109	श्री कीनी कार्तिक रमेश	1050	102228	श्री सावता प्रशान्त लखमशी
989	101141	श्री दवे तुषार गणेशलाल	1051	102240	कुमारी आनंद रचना के
990	101152	श्री शाह आशीष भाईलाल	1052	102258	श्रीमती शिल्पा समीर फनसे
991	101161	श्री शेवाल चन्द्रमुख नानावटी	1053	102263	श्री प्रधान रोहन विजय
992	101165	कुमारी केलकर बागेश्री श्रीनिवास	1054	102264	श्री लेले विश्वास शाम
993	101175	श्री उपाध्याय पिकेश हंसमुखलाल	1055	102267	श्री जोग केतन दत्तात्रय
994	101239	श्रीमती फाल्गुनी एच राजगौर	1056	102275	श्री इंदोरवाला हुसैन गुलाम अब्बास
995	101266	श्री सोमानी संजयकुमार प्रमोदयाल	1057	102280	श्री वकील बाकूल अमृतलाल
996	101271	श्री शिवाजी हनुमंतराव पाटिल	1058	102314	श्री शाह मालवकुमार बंसीलाल
997	101276	श्री बापट दत्तात्रय नारायण	1059	102334	श्री एकबोटे अभिजीत गजानन
998	101285	श्रीमती फरजाना मुनवर अनवारे	1060	102342	श्री दोशी देवेन्द्र पी
999	101311	श्री बालकृष्ण जाजू	1061	102358	श्री शाह निमेष देवेन्द्र
1000	101337	श्री मुनवर मोहिउद्दीन अनवारे	1062	102365	श्री खाले अमोल अरुण
1001	101348	श्री राठी अमित आनन्द	1063	102386	श्री जिंदल अनुपम
1002	101350	श्री त्यागी प्रवीण	1064	102395	कुमारी ध्रुव तेजल दिलीप
1003	101359	श्री पाठक दर्शन भद्रकर	1065	102402	श्री अय्यर रामकृष्ण रामास्वामी
1004	101393	श्री शिकर सुबोध दामोदर	1066	102430	श्री अगरवाल अमित गुलजारीलाल
1005	101409	श्री प्रदीप कुमार अगरवाल	1067	102439	श्री मालुशे आशीष सदानन्द
1006	101415	श्री आशीष रामचन्द्र शैल्ये	1068	102460	श्री शर्मा नवीन नंदलाल

1069	102498	श्री धीरेन शांतिलाल गाला	1128	103699	कुमारी गुप्ते नीना विलास
1070	102637	श्री केदार प्रकाश राजे	1129	103704	श्री पलितनवाला होजेफा शब्बीर हुसैन
1071	102642	दीवानजी आशीष नीलकण्ठ	1130	103751	श्री उमेश के
1072	102701	श्री वीर जिग्नेश नवीनचन्द्र	1131	103767	श्री नीलेश चंद्रशेखर श्रीखंडे
1073	102725	कुमारी हेतल शंकरभाई पटेल	1132	103773	श्री राय वृजेश एच
1074	102741	श्री ऋषिकेश रमेशचन्द्र त्रिवेदी	1133	103776	श्री जोशी अमोल गजानन
1075	102780	श्री अनुपकुमार दिव्यकुमार वैष्णव	1134	103815	श्री विपिन लक्ष्मीनारायण ठाकुर
1076	102783	श्री दीपक केशवलाल मनियार	1135	103832	श्री डेविड टोविन बर्णाबास
1077	102810	श्री वर्मा सुनील रामदेव	1136	103855	श्री वासा केतन दिनकरराय
1078	102814	कुमारी सहत्रबुद्धे प्रणव्या मधुसूदन	1137	103864	कुमारी उदयावर सीमा लक्ष्मण
1079	102815	श्री सप्रा कुंवर मोहित	1138	103942	श्री तेजी परेश रमेशचंद
1080	102822	श्री विनोदकुमार संतोषकुमार हसानी	1139	103956	श्री महेंद्र बी सेमलानी
1081	102823	श्री तिवारी राकेश सचिदानंद	1140	103986	श्री अगरवाल अभिनव बालकुमार
1082	102847	श्रीमती अम्यंकर स्मिता सचिन	1141	104016	श्री कुलकर्णी आदित्य शिवराम
1083	102866	श्रीमती अन्वा सुनील जोसेफ	1142	104030	श्री अम्बाखुटवाला नईम नुरुद्दीन
1084	102884	कुमारी कोठारी दीप्ति मुलजी	1143	104036	श्री नाडकर्णी विक्रम विजय
1085	102891	श्री पटेल निहारिकुमार भाईलालभाई	1144	104039	श्री केनिया वीरेन रामनिकलाल
1086	102917	श्री सांघवी राहुल रमेशचन्द्र	1145	104116	श्री अमयकुमार मेबीलाल गांधी
1087	102933	कुमारी संध्या वैद्यनाथ	1146	104118	कुमारी पुजारा रुपा प्रवीणभाई
1088	102960	कुमारी चौधरी रेखा मनोहर	1147	104123	श्री टेल्लिस अजय ऑगस्टीन
1089	102992	कुमारी चौधरी अनिता चंद्रप्रकाश	1148	104135	श्री सावंत नीलेश सीधाराम
1090	103016	श्री लखानी धर्मेस बिपिनचंद्र	1149	104162	श्री देवेनकुमार किशोरकुमार चित्तलिया
1091	103050	श्री पोरवाल सुरेश कुमार	1150	104186	श्री मनोज एम
1092	103078	श्रीमती शमा अनुपम चक्रवर्ती	1151	104214	श्री अचार्य रघुनाथ
1093	103081	श्रीमती ज्योत्सना राजेश शर्मा	1152	104246	श्री पंकज दामादर शर्मा
1094	103105	श्री अजीत विन्सेंट अल्फ्रेड सेकिरा	1153	104279	श्रीमती कक्षा कुंतल मेहता
1095	103124	श्रीमती पल्लवी महेश कालंबी	1154	104288	श्री सुखेजा नरेंद्र प्रमोदयाल
1096	103129	सुश्री सांघवी मानसी मुकेश	1155	104302	श्री किंगर दीपक कनायलाल
1097	103133	श्री शाह अमित हेमन्त	1156	104314	श्री बी शिवरामन
1098	103135	श्री पटेल विनयकुमार नटवरलाल	1157	104338	श्री खन्ना सुमित ओम
1099	103143	सुश्री पराजपे मनीषा पुरुषोत्तम	1158	104345	कुमारी गुरबानी तरुणा प्रतापराय
1100	103152	श्री गणपुते सतीश नारायण	1159	104351	श्री पटेल परेश परबोत्तम
1101	103158	श्री मनोजकुमार बनवारीलाल मालचंदका	1160	104370	श्री बुद्धदेव परेश चंद्रकांत
1102	103191	सुश्री चांदीरमानी रेशमा किशन	1161	104371	श्री उदेशी उमेश रंजीत
1103	103213	श्री गांधी जिनेन्द्र बी	1162	104372	कुमारी पेरीश अनिता बाट्टर
1104	103214	श्री सुनील विश्वनाथन नायर	1163	104381	श्री खांडेकर समीर प्रकाश
1105	103219	श्री रमेश हमिरवासिया	1164	104411	श्री जसमीत सिंह भाटिया
1106	103259	श्रीमती आभा सुमीत कावरा	1165	104449	श्री श्रीनिवास गोकुलदास शेनॉय
1107	103292	श्री सुरज लखानी	1166	104467	कुमारी शुभांगी शरद कुलकर्णी
1108	103326	श्री पड़गांवकर जगदीश श्रीकांत	1167	104475	श्री निशीथ सुरेश गांधी
1109	103338	श्री सचिन विलास सहस्त्रबुद्धे	1168	104495	श्री मनीष जयतिलाल जोशी
1110	103342	श्री लुन्बा अभित अमरजीत	1169	104512	श्री उपाध्ये अनंत अनंत
1111	103344	श्री राकेश खेडावट	1170	104514	कुमारी जयश्री कुष्ण
1112	103360	श्री अभ्यंकर सचिन शशिकांत	1171	104549	श्री गोपाल पुरनमल अग्रवाल
1113	103379	कुमारी कोल्हेकर राधिका प्रकाश	1172	104560	श्री जयेश हरखचंद्र डेंडिया
1114	103394	श्री शाह चिराग जयेंद्र	1173	104576	श्री रियान अल्फ्रेड रोनाल्ड फर्नांडिज
1115	103422	श्री नया राज बराल	1174	104587	श्री प्रदीप विजय दत्ता
1116	103438	श्री कथारिया मौलेश जगत कुमार	1175	104640	श्रीमती मनोरी सुरील शाह
1117	103440	श्री देवांग अशोक झवेरी	1176	104672	श्री मलेशम मलैयया बंडारी
1118	103443	श्री शाह जितेंद्र शांतिलाल	1177	104719	श्री प्रतीक दीपक भाई शाह
1119	103474	श्री पोरवाल अल्पेस अंबालाल	1178	104741	कुमारी रचना सत्यानंद सिंह
1120	103499	कुमारी राव शैलजा अधिकारला	1179	104764	श्री मनोज ओमप्रकाश गढटानी
1121	103514	श्री कपूर विशाल विनोद	1180	104779	श्री रमाकांत प्रकाश शम्भेर
1122	103573	श्री मनीष भूपेन्द्र कानिया	1181	104788	श्री विशाल राजेंद्र प्रसाद अगरवाल
1123	103582	श्री गांधी गीतम शाम	1182	104800	कुमारी फाल्गुनी हरिलाल डेंडिया
1124	103599	श्री सखालकर मिलिन्द दामोदर	1183	104856	श्री बामोया नितिन
1125	103613	श्री देशमुख महेश सुरेशचन्द्र	1184	104896	श्रीमती पूर्वी कल्पेश गांधी
1126	103636	कुमारी प्रधान मीनल अनिल	1185	104902	श्री सतीश पद्मनाभन
1127	103672	कुमारी पिल्लै रेखा रामचन्द्रन	1186	104935	श्री आसीफ नाजीर खोजा

1187	104964	श्री राजेश बलवंत बिरारी	1249	106313	श्री राजेश कुमार प्रदीपचन्द्र शाह
1188	104962	श्री केतन शांतिलाल जैन	1250	106346	श्री जयप्रकाश यतिराज सोनी
1189	104987	श्री देवांग भरत वोरा	1251	106372	श्री नीरव चितरंजन मेहता
1190	105044	श्री उमेश डोम्बे	1252	106415	श्री सतीश्वर बालाकृष्णन
1191	105045	श्री भाविन सुरेश शाह	1253	106438	श्री कौशिककिरितकुमार देसाई
1192	105075	कुमारी सुनाली कुणाल नगरकट्टी	1254	106457	श्री अनीष ब्रजेन्द्र मालू
1193	105088	श्री उकीदवे अमोल विनायक	1255	106471	श्री शैलेष विश्वनाथ हालदानकर
1194	105094	श्री जॉन जॉर्ज अल्वर्ट मेनेजेज	1256	106493	श्री विनायक आभुतोश
1195	105096	श्रीमती सुप्रिया छावछरिया	1257	106504	श्री नलिन के मिस्त्री
1196	105103	श्री बालाजी वेंकटचलम	1258	106521	कुमारी रजनी शिवशंकर रायकर
1197	105116	श्री दीपक चंदरतन राठी	1259	106524	श्री आभुतोश विनायक गोरे
1198	105174	श्रीमती किन्नारी राजेश काटेजा	1260	106530	श्री संतोष अशोक फने
1199	105176	श्री आलोक मधुसूदन संगनेरिया	1261	106558	कुमारी डीसिल्वा विक्टोरिया
1200	105183	श्री दिनेश कुमार छाजेर	1262	106584	श्री नदीम अब्दुलकरीम भामला
1201	105218	श्री शब्दीर जवीर बंदुक्वाला	1263	106605	श्री नीलेश वसंतलाल हुट्टर
1202	105234	श्री फरहाद होशेदार बामजी	1264	106615	श्री वेंकटकृष्ण राजावेंकट राव
1203	105235	श्री चिराग चिनुमाई पटेल	1265	106623	श्री सुमीत कांतिलाल टैंक
1204	105258	श्री बॉस्को सांटियागो नोरोन्हा	1266	106633	कुमारी निकिता मथुरादास श्रेष्ठा
1205	105300	श्री भवेश त्रयम्बकलाल उपाध्याय	1267	106655	श्री राजेश पटनी
1206	105307	श्री विपुल के मलकान	1268	106667	कुमारी दीपाती पारेख
1207	105337	श्री राजीवटे समद हुसैन	1269	106672	कुमारी संगीता वेंकटेशन
1208	105383	श्री गिरीश भोगीलाल गज्जर	1270	106680	श्री पल्लव के शाह
1209	105391	श्री मालू संजय	1271	106710	श्री साबू प्रेमप्रकाश
1210	105444	श्री शैलेष लाबु पेडनेकर	1272	106731	श्रीमती मेघना महेंद्र सेमलानी
1211	105457	कुमारी अनुपमा चंद्रकांत नाईक	1273	106742	श्री जगल किशोर शर्मा
1212	105462	श्री आदिश सुबीर चक्रवर्ती	1274	106749	श्री रविकिरण दत्तात्रेय हेगडे
1213	105486	कुमारी मित्रा संगीता समीरन	1275	106772	श्री याजद कंरसी कपूर
1214	105475	श्री शांतनु एस खरकर	1276	106806	श्री सुनील धीरुमाई दारजी
1215	105476	श्री आशीष गिरीश वासवदा	1277	106833	कुमारी अदिति संजय पोटे
1216	105483	श्री सचिन विजय वागले	1278	106837	श्री एंड्रयु ओमिनिक बर्टेंड
1217	105491	कुमारी प्रतिभा धितामन लेले	1279	106872	श्री पदमनामन शेषादि मुदलियार
1218	105492	श्री गणेशकुमार अनंतलक्ष्मी अय्यर	1280	106895	श्री अमर चन्द्र मलानी
1219	105514	कुमारी करुणा भजनलाल छावड़िया	1281	106917	श्री जैन अजय मोतीलाल
1220	105519	श्री निखिल आनंदमाई गज्जर	1282	106925	कुमारी समीक्षा निरजदेसाई सेठ
1221	105538	श्री पारस केशरीचंद शाह	1283	106932	कुमारी ममता मनोहर गुप्ता
1222	105540	श्री समीर नारायण रेगे	1284	106936	कुमारी मितल छोटाभाई पटेल
1223	105541	श्री परेश हरिदास शाह	1285	106938	श्री विक्रान्त के मेहता
1224	105568	कुमारी शर्मा ऋतिका बाबुलाल	1286	106940	कुमारी नीलू नंदकिशोर जालान
1225	105576	श्री सुनील रूपचंद शाह	1287	106970	कुमारी कविता चन्द्रकांत पनसे
1226	105581	श्री शीशिर श्रीकांत कालकांडे	1288	107049	श्री निलेश काला
1227	105586	कुमारी खुशनाम पेशोतन मुगल	1289	107077	कुमारी रिपल अरोड़ा
1228	105605	श्री अरुण कुमार आर रामचंद्रन	1290	107106	श्री सिंह मनोज
1229	105679	कुमारी स्वाति स्वामीनाथन	1291	107124	श्री यतिन कुमार डी डोलिया
1230	105680	कुमारी सीमा शंकरन नंबूदरी	1292	107180	श्री गिरीश मलेशम्पा हुगर
1231	105687	श्री जितेन्द्र मोतीराम हयन	1293	107187	श्री अल्पेश पोपटलाल शाह
1232	105743	कुमारी प्रीति टोटला	1294	107214	श्री समीर प्रेमचंद मेहता
1233	105749	श्री गोपाल चैचानी	1295	107237	श्री सचिन सुरेश राउत
1234	105820	कुमारी के नित्या बी	1296	107240	श्री पंकज प्रहलाद पाटिल
1235	105858	श्री अनिश रंजीत उदेशी	1297	107247	श्री रूपेश अमृतलाल दवे
1236	105861	कुमारी मिली के दासगुप्ता	1298	107252	श्री हर्ष रंजीत अचार्य
1237	105931	कुमारी मोनाली मोहन पटकी	1299	107305	श्री दिनेश मोहनलाल जसरापुरिया
1238	105964	श्री युसुफ नेमत अली सइद	1300	107338	श्री चिराग अश्विनमाई टेंगा
1239	105995	श्री शैलेषकुमार मनुभाई पटेल	1301	107339	श्री कुणाल शिरीश देसाई
1240	106007	श्री प्रकाश शिवनदास पम्पानी	1302	107368	श्री मितेश नारंजी सोमेश्वर
1241	106043	श्री अमीर कुमार अशोक सामंत	1303	107377	श्रीमती किरण प्रशांत गोसावी
1242	106053	श्री श्री निवास शंकरन तिरुवेयारु	1304	107383	कुमारी गुरदीप गौर बंसल
1243	106116	श्री टेलर शैलेष हरकिशनदास	1305	107385	श्री आशीष देवीप्रसाद दुबे
1244	106133	श्रीमती कंचन गिरीष लोकवानी	1306	107394	श्री केदार अनील सावले
1245	106141	कुमारी निशा ओमप्रकाश शर्मा	1307	107402	श्री अतुल शंकरलाल गज्जर
1246	106167	श्री पियूष रमेशचन्द्र जैन	1308	107409	कुमारी एस्सेराब्बा जे फ्रैंको
1247	106233	कुमारी किरण परिमल गांधी	1309	107410	कुमारी कविता वसंत पारीख
1248	106236	श्री विपुल सूर्यकांत वखारिया	1310	107432	श्री संजय काशी प्रसाद कर्डेया

1311	107451	श्री कोविद शांतिलाल फारिया	1373	108476	श्री गुंजन महेन्द्र शाह
1312	107517	श्री अमय अरुण उदास	1374	108478	श्रीमती एन्सी सेनास्टोम पारियथ
1313	107530	श्रीमती मिनल कल्पेन शाह	1375	108481	कुमारी भृगालिनी कृष्णा मराठे
1314	107536	श्री मिहिर हर्षदकुमार पुजारा	1376	108508	श्रीमती रश्मि अतुल भामरी
1315	107546	श्री मैत्रा जयशीष	1377	108591	श्री रोहित जे ब्रह्ममट्ट
1316	107569	कुमारी ज्योति नरसिम्हा माल्या	1378	108594	श्री देवल अनिरुद्ध जोशी
1317	107583	कुमारी प्राची एस बाकरे	1379	108611	श्री निखिल हरलालका
1318	107591	श्री प्रदीप अरविन्द कोठारी	1380	108616	कुमारी मिनल सुरेश लोटनकर
1319	107620	श्री सुरेशकुमार सेल्वाराज यादव	1381	108617	श्री गौरांग एम शाह
1320	107635	श्री ध्रुव भारत शाह	1382	108633	श्री नवीन कमल कुमार अगरवाल
1321	107644	श्री अमित दीलतशाय दोशी	1383	108648	श्री लिनस जॉन डी सुजा
1322	107651	कुमारी सीमा वी नागदेव	1384	108656	श्री आयुष विजय अगरवाल
1323	107695	श्री दीप पंकज कांटावाला	1385	108668	श्रीमती निवेदिता राजेश पांचवाग
1324	107726	श्री विशाल एस ठाकुर	1386	108693	श्री मकरंद अरविन्द लिमाये
1325	107744	श्री अमित के शोलाकर	1387	108707	श्री भाविन पृथ्वीसिंह लखपतवाला
1326	107782	श्री चेतन धीरेन्द्र वखारिया	1388	108709	कुमारी अश्विनी पांडुरंग खेर
1327	107808	सुश्री धनश्री प्रकाश तम्हाणे	1389	108733	कुमारी संजी अश्वनी
1328	107809	श्री शीतल के डापटरी	1390	108781	श्री राजेश श्रीनिवासन
1329	107817	श्री इन्तेखाब चीनी	1391	108790	कुमारी अदिति वसंत मराठे
1330	107850	श्री बडालिया अंकित	1392	108795	श्री हर्षित शिरीष शाह
1331	107867	श्री निमेश शांतिलाल छेड़ा	1393	108798	श्री नवीन शांति लाल जैन
1332	107905	श्री जयदीप सतीश वैद्य	1394	108818	श्री अमित कुमार रजनीकांत मेहता
1333	107912	श्री हर्षत अविनाश सुलाखे	1395	108821	श्री आशीष गिरधारीलाल सेकसारिया
1334	107918	श्री रितेश राजेन्द्र कोठारी	1396	108822	श्री सुनीलकुमार जशनकुमार बावा उडास्सी
1335	107930	श्री हितेश चंद्रकांत शाह	1397	108835	श्री शब्बीर फैजुद्दीन नसीम
1336	107936	श्री दीपक गुप्ता	1398	108837	श्री रितेश भरत पारेख
1337	107943	श्री फोफालिया विरेन्द्र	1399	108839	श्री जयवंत मिलिन्द मासुरेकर
1338	107944	कुमारी माइकेल जॉर्ज डिसूजा	1400	108852	श्री राकेश विष्णु प्रसाद अग्रवाल
1339	107949	श्रीमती ज्योति मिलिन्द राणाडे	1401	108866	श्री चिरंजीव शुभ करण सोनी
1340	107990	श्रीमती सरिता रामनाथ शानभाऊ	1402	108883	श्री अमित रमेश यादव
1341	108025	श्री दीपक एन बुधवानी	1403	108893	श्री शैलेश ठाकरसीभाई मलाला
1342	108075	श्री मिलिन्द पंढरीनाथ तेलावाने	1404	108901	श्री महेश मनोहर देसाई
1343	108082	कुमारी स्मिता अरुण घानेकर	1405	108910	श्री शैलेन्द्र रामचन्द्र बडे
1344	108095	कुमारी कविता हरिहरन	1406	108916	श्री रमेशकुमार विठलभाई गेवारिया
1345	108102	कुमारी सुरभि संतोश मेहता	1407	108926	श्री प्रणव अरुणकुमार दवे
1346	108111	श्री राजेन्द्र मनोहरलाल कोठारी	1408	108929	कुमारी बेला कितिकुमार शाह
1347	108115	श्री विपुल विनोद अगरवाल	1409	108943	कुमारी श्वेता सुबोधभाई त्रिवेदी
1348	108127	श्री संतोश आर मिश्रा	1410	108983	श्री सुशांत सुधीर देसाई
1349	108157	श्री केनिथ एन जैन	1411	108985	श्री रमेशकुमार ओमप्रकाश कालंत्री
1350	108161	श्री नील भार्गव जोगतेकर	1412	109008	श्री रवि श्रवणकुमार बंसल
1351	108167	श्री नवीन कुमार सिंघल	1413	109009	श्रीमती श्रुति अमर देवस्थली
1352	108174	श्री राकेश कृष्णकर त्रिपाठी	1414	109020	श्री सतीश सात्वकर
1353	108191	श्री मनोहर एम मुरली	1415	109028	श्री ऋषिकेश तामसकर
1354	108200	श्री किन्नर एन संजनवाला	1416	109065	श्री अकरम अब्दुल्ला खान
1355	108231	श्री उज्ज्वल नागनाथ लांडगे	1417	109073	कुमारी शानू बंसल
1356	108234	कुमारी पद्मजा गोविन्द मालिये	1418	109080	श्री अनिरुद्ध गुप्ता
1357	108246	कुमारी कश्मिश होमी पालिया	1419	109095	श्री अजय पुरशोत्तम गोयल
1358	108289	श्री गोयल केदार	1420	109104	श्री धीरज गोलछा
1359	108299	कुमारी शिरीषा शिवकुमार पिन्नाली	1421	109109	श्री प्रवीण नामदेव तावले
1360	108313	श्री निरव विजयसिंह अशेर	1422	109197	श्री कल्पेश उगरचन्दभाई गाढेवा
1361	108317	श्री अमित अरुणकुमार शाह	1423	109220	कुमारी जैसमीन मानेक पीठावाला
1362	108332	श्री उमेश मोहन जाधव	1424	109247	श्रीमती कंचन श्रीकांत नेउरगांवकर
1363	108370	श्री सचिन सूरजमल सोमानी	1425	109276	कुमारी संगीत अनिल सामंत
1364	108376	सुश्री शिल्पा जयंत धावले	1426	109277	श्री सीताराम कारीनाथ महाराणा
1365	108397	सुश्री काकर श्रुति	1427	109309	कुमारी प्राची विनायक नायक
1366	108404	श्री संदीप आर अगरवाल	1428	109321	कुमारी सैनी राजगोपाल
1367	108411	श्री बर्णवाल संजीव	1429	109324	श्री महेश परमेश्वरन
1368	108430	श्रीमती मान्या अविनाश पमनानी	1430	109358	श्री तरुण विरेन्द्र शाह
1369	108445	कुमारी मीता अरुण कुमार मोदी	1431	109387	श्री आनन्द नरेन्द्र नागड़ा
1370	108448	श्री सुनीलकुमार भीखूभाई ठक्कर	1432	109398	श्री नितिन रामचन्द्र लाठ
1371	108455	श्री मुकेशकुमार सत्यपाल मिश्राल	1433	109401	श्री आशीष नवीनचन्द्र मेहता
1372	108465	श्री ललित दुजारी	1434	109409	श्री मेहुल कुशल शह

1435	109417	कुमारी प्रिया श्रीचंद मठरानी	1497	110393	कुमारी हीना संवकलाल भाटावाला
1436	109418	श्री मनीश छावड़ा	1498	110406	श्री अजयकुमार सुभाषचन्द्र जाजू
1437	109435	श्री अरविन्द चौधरी	1499	110410	श्री मनीश कुमार बंडी
1438	109451	श्रीमती लीना रामकृष्णन अय्यर	1500	110433	श्री आशीष रामनीकलाल पटेल
1439	109455	श्री पंकज गुप्ता	1501	110460	श्री सुशांत नंजाली
1440	109458	श्री अमोल रामचंद्र गोठले	1502	110478	कुमारी करिश्मा इंदुजीत सोलंकी
1441	109466	श्री क्लीन अशोक अशेर	1503	110480	श्रीमती अनुजा कौशल शाह
1442	109481	श्री दिपेश रमेश ठक्कर	1504	110484	श्री संदीप मनमोहन मालपानी
1443	109494	श्री दीपक बड़ाराम गहलोत	1505	110485	श्री राम डी रायचुरा
1444	109542	कुमारी गौरी सुरेश कावतकर	1506	110499	श्री आशीष मूलचन्द गाला
1445	109556	कुमारी कविता राजाराम पाटिल	1507	110503	कुमारी कौमुदी ओमप्रकाश माहेश्वरी
1446	109569	श्री अजयकुमार पुरुषोत्तम बोहरा	1508	110506	कुमारी जिगिशा प्रवीणचन्द्र साह
1447	109574	श्री उमेश वामन गोगाटे	1509	110512	कुमारी प्राची विनायक काले
1448	109598	श्री विजय प्रदीप कामदार	1510	110514	श्री भौतिक नवीनचंद्र मिठानी
1449	109621	श्री सचिन प्रवीण पटेल	1511	110518	श्री मनीष उत्तमचंद जैन
1450	109629	श्री विकास खेटावत	1512	110528	कुमारी अनागा जयंत नादकर्णी
1451	109643	श्री आशीष दिगम्बर ठाकुर	1513	110529	श्री नीलेश मुद्रा
1452	109644	श्री चिराग जयकुमार शाह	1514	110539	कुमारी स्मृति किशोर कल्याणपुर
1453	109671	श्री कुमार रामकृष्ण दवे	1515	110562	कुमारी रितु कमल बागरी
1454	109672	श्री नैमल फूलचंद संकला	1516	110568	श्री नेविले लेकी मोल्फराम
1455	109680	श्री सचिन अशोक पाटिल	1517	110572	श्री नरेन्द्र धीरजलाल चौकसी
1456	109687	श्री डेनी फेल्विस् साल्जन्हा	1518	110585	श्री सुधीरकुमार पांडुरंग डालवी
1457	109726	श्री जगदीश मूलचंद ठंडानी	1519	110599	श्रीमती वृशाली मकरंद पोटनीस डामले
1458	109737	श्री राजेश कांतिलाल कंकारिया	1520	110637	कुमारी दीना धीरजलाल शाह
1459	109777	श्रीमती अमृता सासवडकर	1521	110643	श्री राकेश हरिप्रसाद काशिमपुरिया
1460	109778	श्री प्रशांत अरविन्द खोपकर	1522	110650	श्रीमती प्रीति विरल मेहता
1461	109779	श्री हेमंत रतनलाल मंत्री	1523	110654	श्री चंद्रशेखर बाबूराव हडकर
1462	109786	श्री अशोक ओमप्रकाश बियानी	1524	110668	श्री निनाद विजय कनाडे
1463	109793	श्री मनीश कुमार नवलखा	1525	110670	कुमारी कुंजन जयंतीलाल बीरा
1464	109823	कुमारी भौक्तिका सुरेश जाधव	1526	110671	श्री गिरीश रामनिवास गुप्ता
1465	109831	कुमारी शिल्पा मौलिन बोरा	1527	110674	कुमारी ममता द्वारकाप्रसाद धानुका
1466	109858	श्री आदित्य मकरंद कोटिमाष्कर	1528	110680	श्री जैकब वगीज पायरा
1467	109870	श्री निर्देश कर्णावत	1529	110683	श्री अमर माधव कलकुंडरीकर
1468	109884	श्री नारायण श्रीवल्लभ मुंडाडा	1530	110701	कुमारी प्रेशमा झवर
1469	109886	कुमारी सुमन सत्यनाथ हेगडे	1531	110706	कुमारी संगीता वैकटसुब्रमण्यम अय्यर
1470	109887	श्री अनिस नितिन शाह	1532	110726	श्री अशोक कुंडेर
1471	109895	श्रीमती सागरी अशेर	1533	110745	श्री राजेश गगरानी
1472	109986	कुमारी रुद्री भरत जोशी	1534	110751	श्री नयन महेश शाह
1473	110042	श्री अब्दुल समद पटेल	1535	110756	कुमारी अपर्णा कलमांजे रामानंद आचार्य
1474	110089	श्री कल्पेश कर्नयालाल जोशी	1536	110766	कुमारी अपर्णा राजाराम मोरे
1475	110149	श्री गोपाल श्रीरतन लखोटिया	1537	110768	श्री विजय प्रकाश बस्तानी
1476	110157	श्री अविनाश एकनाथ जगदले	1538	110773	श्री सुजीत गंगाधर देवलकर
1477	110169	श्री गोपाल कमल खेतान	1539	110803	श्री विरेन भरत शाह
1478	110176	श्री प्रत्युष भूपेन्द्र जगदीशवाला	1540	110818	श्री विनीत कोमल जैन
1479	110187	कुमारी मीनू अगरवाल	1541	110820	श्री हरिचंदन दयानिधि
1480	110194	श्री दुष्यंत दिलीप नवलखा	1542	110830	श्री सचिन रामचन्द्र लाठ
1481	110223	श्री अद्वैत सत्यवान भोरवेकर	1543	110844	श्री कैलाश कुमार कतारुका
1482	110237	कुमारी राधा जे तीव्रवाला	1544	110847	श्री राजेश सदानंद राउत
1483	110238	श्री कपिल विजयसिंह सेठिया	1545	110855	कुमारी समीरा इब्राहिम काजी
1484	110241	श्री रुपेश जगदीश अग्रवाल	1546	110865	श्रीमती बीना निमेश शाह
1485	110256	श्री सुधीर मुरारीलाल जोशी	1547	110883	श्री कौस्तुभ सतीश चौबाल
1486	110267	श्री हिमांशु माहेश्वरी	1548	110898	श्री गिरीश सतीशचन्द्र पूनम शेटी
1487	110270	श्री मनीश बच्चुमाई जेटवा	1549	110901	श्री शैलेश गोकलदास रुघानी
1488	110281	कुमारी रीना रमेश बागला	1550	110919	श्रीमती दीपति तपारिया
1489	110294	श्रीमती उमा रितेश सेठ	1551	110947	श्री केदार प्रभाकर सबने
1490	110322	श्री भूपेश इंदरमल अगरवाल	1552	110948	श्री संतोश शंकर करंडीकर
1491	110335	श्री विशाल अतुल जोशीपुरा	1553	110962	कुमारी अमृता अशोक बंग
1492	110349	श्री पराग प्रकाश मेहता	1554	110968	श्री अभिल राजेशभाई दोशी
1493	110359	श्री रवि राजगोपालन	1555	111005	श्री दर्शक रमेश बोरा
1494	110374	श्री परिमल पुरुषोत्तम लाठे	1556	111015	श्रीमती वृशाली विनाश खोपडे
1495	110379	श्रीमती मीनल तेजस शर्मा	1557	111036	कुमारी करुणा परमेश्वर जायसवाल
1496	110386	श्री प्रकाश लंसल	1558	111071	श्री विनू पॉल

1559	111086	श्री गुरुमुख अर्जुनदास राधानी	1621	111971	श्री अमित एस माटिया
1560	111092	श्री हिरण्य जयसिंह अशर	1622	111975	श्री नवीन कुमार नागभूषणम् माधिकान्ति
1561	111100	श्रीमती रश्मि विक्रम मोहिते	1623	111990	श्री विकास विनोद कपूर
1562	111108	श्रीमतीह अपर्णा श्रीरंग अठावले	1624	111993	श्री देवांग दिनेशचंद्र मट्ट
1563	111115	श्री मौलिन सौरभ दीक्षित	1625	111999	श्री विनोद मनसुखलाल कपाडिया
1564	111158	श्री संजीव चंद्रनारायण राठी	1626	112009	श्री जितेन्द्र धनजी मानुशाली
1565	111206	श्री प्रदीप अवधूत खोट	1627	112024	श्री पिकेश कांतिलाल सोनी
1566	111214	श्रीमती रेणुका रमाकांत शेम्बरकर	1628	112030	कुमारी सुरभि निरंजन अपर्णा देवरस
1567	111215	श्री जयेश कुमार ठक्कर	1629	112107	श्री रोशन शेट्टी
1568	111218	श्री सचिन रघुवीर गुराव	1630	112115	श्री हर्ष आर पारिख
1569	111221	कुमारी निशा चंद्रन	1631	112149	श्री अमित वसंत बाजे
1570	111228	श्री कश्यप बोरा	1632	112185	श्री मनीश गजेन्द्र वोहरा
1571	111245	कुमारी दीपा पद्मनाभन पिंडट	1633	112254	श्री हकीमुद्दीन शब्बीर कोलंबोवाला
1572	111252	श्री चेतन किरणराज भंडारी	1634	112255	कुमारी भाविनी हिमतलाल शाह
1573	111266	श्री शिजू रविंद्रन कोलत	1635	112264	श्री गौरव किरित बोरा
1574	111278	श्री बिरल जीतेन्द्र ठक्कर	1636	112286	श्री विनय कुमार गैरोला
1575	111279	श्री राजेश गेरीमल पठाई	1637	112295	श्री सचिन जैन
1576	111284	श्री हार्दिक विजय दलाल	1638	112305	कुमारी सुप्रभा सोमनाथ कारंत
1577	111307	श्री रश्मि हरि कुमार केजरीवाल	1639	112335	श्री हितेश अशोक मदन
1578	111365	श्री विकास विनोद मुंडण	1640	112372	श्री मनीष कुमार कांतिलाल ठाकुर
1579	111384	श्री राहुल कनयालाल गनात्रा	1641	112393	कुमारी रश्मि निलकंठ वाल्के
1580	111430	कुमारी सुजाता संदीप मेहता	1642	112400	कुमारी रश्मि मोतीलाल अग्रवाल
1581	111436	श्री प्रदीप अभ्युदयन पिल्ले	1643	112407	श्री हेमंतकुमार निर्मलकुमार नैय्यर
1582	111446	श्री कश्यप किरीत पलीचा	1644	112515	श्री देवेन्द्र रमेशचंद्र मट्ट
1583	111460	श्रीमती कीर्ति राकेश अग्रवाल	1645	112524	श्री दीपक चंद्रप्रकाश पुष्कर
1584	111465	श्री रजत द्वारका प्रसाद सावरिया	1646	112527	श्री सुशील सज्जनलाल कटारिया
1585	111488	श्री हितेश अशोक ठक्कर	1647	112536	श्री कृष्ण नितिन कनकिया
1586	111497	श्री मनीश सत्यप्रकाश जैन	1648	112540	कुमारी पल्लवी शरद वारंग
1587	111500	श्री धनंजय शशिकांत मूले	1649	112544	कुमारी ज्योति पद्माकर पल्लवी फडके
1588	111537	श्रीमती देवल रितेश शाह	1650	112545	श्री अमरेश सहस्रमुखमाई शाह
1589	111547	श्री निमेश रमेश बोरा	1651	112558	श्री सुयश सुधीर पटवर्धन
1590	111548	श्री राहुल चंद्रन	1652	112560	श्री सागर सुधीर कानेतकर
1591	111555	श्री मितेश विपिन बोरा	1653	112579	कुमारी ममता मिश्रा
1592	111563	कुमारी युक्ति बलजीत चंडोक	1654	112633	श्री अमोल चिन्तामणि श्रृंगारपुरे
1593	111571	कुमारी प्रिया वैकटरमन	1655	112645	श्री गिरीश प्रमोद सोलंकी
1594	111589	श्री मनीष रवि जैन	1656	112650	श्री मनीष नरपतसिंह लूनिया
1595	111618	कुमारी जैना हरीश शाह	1657	112667	कुमारी जैनीन निकोलस फर्नस
1596	111627	श्री राकेश हेमराज साधवी	1658	112705	श्री रोहित सुधीर भगाडे
1597	111629	कुमारी जिगना निरंजन शाह	1659	112712	श्री आशीष चतुर्वेदी
1598	111650	श्री हरेश किशिनचंद्र मेलवानी	1660	112714	श्री अभिषेक गट्टानी
1599	111654	श्री अमीन जमालुद्दीन नरसिंह	1661	112716	श्री अतुल अग्रवाल
1600	111658	श्री हेमन्त धनसुखलाल वघेला	1662	112724	श्रीमती हेतल यश कोटक
1601	111684	श्रीमती रुद्रा अमित बाजे	1663	112740	श्री अक्षय एस दीक्षित
1602	111705	श्री संदीप मानकचंद केडिया	1664	112742	कुमारी श्रीविद्या जम्बुलिंगम
1603	111710	श्री राजेश श्रीधर छोटा	1665	112753	श्री जितेन्द्रकुमार रसिकलाल सांघवी
1604	111742	कुमारी भूषण भूषणदास	1666	112759	श्री चेतन सुरेश कीनी
1605	111746	श्री विशाख विनोद शाह	1667	112789	कुमारी वीणा पुरषोत्तम नायडू
1606	111766	श्रीमती पूनम सारंग जोशी	1668	112804	श्री अनिल पामेचा
1607	111774	श्री आनंद बंदी बलदावा	1669	112807	श्री प्रवीणबाबू शेट्टी
1608	111795	श्री अजय हनुमंत गिरमे	1670	112814	श्री ललितरोहण विष्णु बरहते
1609	111801	श्रीमती दक्षता आशीष अग्रवाल	1671	112815	कुमारी कीर्ति जयराज शेट्टी
1610	111803	श्री श्रेणिक शशिकांत प्रेमिता शाह	1672	112816	श्री संदीप जयराज शेट्टी
1611	111808	कुमारी अल्पा राजू सूडडे	1673	112879	श्री पवन मिलन जैन
1612	111823	कुमारी लारा अरामिता मेनीजेज	1674	112882	कुमारी श्रीलेखा मनियान
1613	111824	श्री विवेकानन्द नायक	1675	112906	श्री निशांत सदानंद प्रसाद
1614	111855	श्री सागर प्रवीण लखानी	1676	112915	श्री हर्षवर्धन मनमोहनकृष्ण बिहानी
1615	111884	श्री समीर बिपिन गांधी	1677	112917	श्री हर्षद सुभाष काले
1616	111889	श्रीमती गीता सचिन वेद	1678	112935	श्री पंकज मूलचंद लटोरिया
1617	111891	श्रीमती वृशाली रजत नायक	1679	112942	श्री ब्रजेश पल्सानिया
1618	111929	श्री नेमिश भरत कुमार कपाडिया	1680	112954	श्री राजेन्द्र बाबू पी
1619	111963	श्री अमित चंद्र सिंह लोढा	1681	112965	श्री आशीषकुमार कीरितकुमार मकाटी
1620	111969	श्री समीर प्रसाद डहल	1682	113026	कुमारी शालिनी आर प्रकाश शुक्ला

1683	113028	श्री राममोहन मंजेश्वर राय	1745	113790	श्री वैभव कुमार अगरवाल
1684	113030	श्री सुधीर जे शेठ्टी	1746	113792	श्री आशुतोष धनंजय सिंह
1685	113043	श्री विकास जितेन्द्र गांधी	1747	113804	श्री अरुण लक्ष्मण प्रसाद अगरवाल
1686	113050	श्री राहुल सुरेशचन्द्र शाह	1748	113843	श्री दिनार प्रकाश दत्तारी
1687	113064	श्री सचिन लक्ष्मीचंद सावला	1749	113846	श्री सुजय गिरीश शाह
1688	113092	श्री गौरव परमानंद अग्रवाल	1750	113861	कुमारी पल्लवी सूर्यकांत जाधव
1689	113099	श्रीमती वैभव नवीन जैन	1751	113892	श्री पंकज केडिया
1690	113111	कुमारी प्रीति ललित किशोर कपूर	1752	113897	श्री अभिषेक राधेश्याम अग्रवाल
1691	113127	श्री अमित प्रदीप शाह	1753	113900	श्रीमती माधवी हेमंत दबके
1692	113140	श्री आशीष भरत शाह	1754	113903	श्री जयप्रकाश मोहनलाल चेचानी
1693	113150	कुमारी मनाली चित्तनाथ पाटिल	1755	113919	श्री कार्तिक हर्षदभाई सोलंकी
1694	113186	श्री ब्रायन जोकियम फर्नांडीज	1756	113935	श्री योगेश दत्ताराम पेडनेकर
1695	113189	श्री भूपेश कल्याणी	1757	113965	श्री सागर सुरेश दानी
1696	113212	कुमारी स्मिता वी पिल्लै	1758	113996	श्री सुनील इन्द्रकुमार होतचंदानी
1697	113224	श्री सतीश जयराम	1759	114058	श्री अरविन्द बापूसाहेब काले
1698	113226	श्रीमती पूर्वी सचिन मेहता	1760	114065	श्री विवेक विकास पाटनकर
1699	113236	श्री शीतल सोनी	1761	114071	श्री अमनीद्रम एन
1700	113283	श्री विमल वसनजी गाला	1762	114093	श्री पुनित जैन
1701	113317	श्री मयंक श्याम ठट्टे	1763	114106	श्री रुचिर घडक
1702	113323	श्री बेनी गोसे	1764	114112	श्री जितिन डिडवानिया
1703	113334	श्री सचिन सोडानी	1765	114115	श्रीमती जयिनी आनंद विरकर
1704	113338	कुमारी राधिका प्रकाश हुल्यालकर	1766	114123	श्री अरुण विष्णु बेडेकर
1705	113356	श्रीमती राधिका विनय बलिया	1767	114151	श्री सतीश कुमार जैन
1706	113362	श्रीमती स्मृति सतीश मोदी	1768	114161	श्री चंद्रशेखर बालासुब्रमण्यम
1707	113420	श्री विनीत दिनेश मिश्रा	1769	114168	कुमारी मनीषा बेदप्रकाश
1708	113433	श्री प्रसाद उत्तमस खटकुल	1770	114198	श्रीमती भारती एन वछानी
1709	113436	श्री केयूर कीर्ति सोनी	1771	114242	श्री अखिलेश अशोक घमाधिकारी
1710	113444	श्री मुकेश गुलराज मेहता	1772	114245	श्रीमती ममता संजय अलिमडा
1711	113448	कुमारी मितल विनोद गांधी	1773	114267	श्री रोहित अशोक पोद्दार
1712	113449	श्री हिरन नरेन्द्र शाह	1774	114281	श्री समीर उत्तमराय जगनाडे
1713	113462	श्री सलीम जमिल खान	1775	114319	श्री देवांग गोपाललाल शर्मा
1714	113463	श्री अभिजीत किरण रुनवाल	1776	114324	श्री संकेत ज्योतिनभाई शाह
1715	113480	श्री राजीव घनेश गांधी	1777	114339	श्री जितेन्द्र सोनी
1716	113485	कुमारी नेहा सुरेश दवे	1778	114348	श्री सचिन घमाडिया
1717	113488	कुमारी सोनल जयंत वाढ	1779	114381	श्री शशिभूषण महावीरप्रसाद जोगानी
1718	113501	श्री अमित अरुण शर्मा	1780	114388	श्री किशोर वेंकट
1719	113509	श्री विकास संतोष जैन	1781	114402	श्री कृपाल यशवंत विचारे
1720	113545	कुमारी सुप्रिया राजेन्द्र शाह	1782	114441	श्री मनु वैकुण्ठाथ पांडे
1721	113566	कुमारी विद्या वैद्यनाथन	1783	114442	श्री रुपेश मधुकांत ठक्कर
1722	113572	श्री मकरंद अनंत तिप्पे	1784	114452	श्री नेहरु सुब्रमण्यम
1723	113578	श्री अल्पेक्ष मधुसूदन अदीदश	1785	114465	श्री जयेश जनादन घव्हाण
1724	113588	श्री महेश कुमार सुभाषचन्द्र बहेली	1786	114516	कुमारी सोना नरेन्द्र रवानी
1725	113589	कुमारी कीर्ति सुरेश अजवानी	1787	114528	श्री भरत कुमार
1726	113594	श्री सिद्धेश प्रकाश महादलकर	1788	114535	श्री नरेन्द्रनाथ शरतचन्द्र मट्ट
1727	113596	श्री राजेश रोहित मेहता	1789	114551	कुमारी शलाका शशिकांत मोरे
1728	113636	कुमारी कविता पदमचन्द्रजी पोखरना	1790	114587	श्री अश्विनीकुमार सुशीलकुमार लाडा
1729	113641	श्री साजिद अली अब्दुल कादिर खान	1791	114602	श्री अभिषेक राजेन्द्रकुमार काबरा
1730	113655	श्री अंशुल भार्गव	1792	114631	श्री डेनी जॉन फर्नांडीस
1731	113656	श्री हिरनकुमार अश्विनभाई पंड्या	1793	114648	श्री विशाल चिरंजीलाल नबड़ा
1732	113660	श्री श्रीपाद सुभाष इनामदार	1794	114695	कुमारी निकिता दिलीप भालती शाह
1733	113680	श्री राकेश जगतिथ्या	1795	114711	श्री रितेश फतेहचन्द्र राणावत
1734	113686	श्री राजीव तोशनीवाल	1796	114725	श्री आकाश कंवरलाल बाफना
1735	113706	श्री भावेश छोटालाल परमार	1797	114736	श्री जयेंद्र कृष्ण नायक
1736	113711	कुमारी देवी कामेश्वरी मांगीपूडी	1798	114748	कुमारी सारिका अंकुश सुर्वे
1737	113712	श्री अब्बास असगरअली रंगवाला	1799	114796	श्री धवल प्रमोदचन्द्र वखारिया
1738	113723	श्री अभिरंजन बिहारी	1800	114798	श्री रीतेश मेलाराम गुप्ता
1739	113726	श्री सेबेशियन फ्रांसिस	1801	114801	श्री जिग्नेश चंद्रकांत मेहता
1740	113740	श्री हर्षद श्रीपाद खुरजेकर	1802	114802	श्री बिपिन शंकर मोरे
1741	113745	श्री सिद्धार्थ न्याटी	1803	114809	श्री मनीष नंदलाल तकरानी
1742	113750	कुमारी श्रेया किशोर देवतारसे	1804	114811	श्री उत्कर्ष ललित बंडी
1743	113766	कुमारी जिगन्ना हर्षदभाई ठक्कर	1805	114813	श्रीमती श्रद्धा गणेश अय्यर
1744	113778	कुमारी दीप्ति अविनाश शाह	1806	114819	कुमारी निपा परिमल गांधी

1807	114820	कुमारी रेखा दत्तात्रेय गायकवाड़	1869	115643	कुमारी प्रीति पांडुरंग वाडेकर
1808	114825	श्री केयूर हेमन्त शाह	1870	115654	श्री विश्रांग कीर्तिकुमार शाह
1809	114849	श्री हसीन अहमद रशीद अहमद खान	1871	115671	कुमारी टीना रमेश बोलकानी
1810	114856	कुमारी प्रीतम अशोक नरसाले	1872	115690	कुमारी पी संगीता एकनाथ राव
1811	114859	कुमारी नसरीन मोहम्मद इस्माइल शेख	1873	115693	श्री रुपींदरसिंह भूपिंदरसिंह अरजानी
1812	114868	श्रीमती नवाज अरफाक हशद वारवाला	1874	115716	कुमारी शुभदा सोमाजी डालवी
1813	114873	श्रीमती मिणल हेमल गोहेल	1875	115742	श्री केदार शंकर मुचंडी
1814	114883	श्री वैभव दत्तात्रेय देशपांडे	1876	115766	श्री आनंद नंदलाल मुंदादा
1815	114886	श्री निर्माशु शाह	1877	115804	श्री पंकज बालदुआ
1816	114908	श्री अभितकुमार राजेन्द्र प्रसाद सिंहानिया	1878	115811	श्री मनीष रमेशलाल ममतानी
1817	114916	श्री मुकेश कुमार शर्मा	1879	115812	श्री प्रतीक राधेश्याम अग्रवाल
1818	114925	श्री मंगेश कल्याणराव दीक्षित	1880	115815	श्री आसिफ सबजन शेख
1819	114962	श्री मारुति विनोदभाई पटेल	1881	115821	श्री हितेन नटवरलाल आशा दवे
1820	114963	श्री शरद एस मोहनोत	1882	115823	श्री अटल के घुग
1821	114979	श्री राजेश बल्लभजी नागड़ा	1883	115824	श्री सौरभ महाजन
1822	114985	श्री निलेश जितेन्द्र मालवीय	1884	115831	कुमारी धरा अशोक मिस्त्री
1823	114990	श्री अनील कुमार घोमाल	1885	115842	श्री केतन अराजनाभाई भूत
1824	114996	कुमारी शीतल चिंतामणि प्रभुने	1886	115849	श्री विजय महेन्द्र शाह
1825	115003	कुमारी हेमाली हरीशकुमार दोशी	1887	115893	श्री मनीष बाकेबिहारी व्यास
1826	115004	श्री मनोराजकुमार प्रकाशराज कोठारी	1888	115896	श्री सचिन रमेशचन्द्र मेहता
1827	115024	श्री आशीष अशोक कुमार तुलसियान	1889	115907	श्री विनीश महेश्वरी
1828	115057	श्री नवेन्दु बिस्वाल	1890	115919	श्री निलेश विजय भागवत
1829	115071	श्री किशोर	1891	115962	श्रीमती रितु रुचेश मेहता
1830	115091	श्री अविनास बागडी	1892	115996	श्री योगेश राजेन्द्र बोधरा
1831	115125	कुमारी भारती रमेश शकुंतला गांधी	1893	116006	श्री तेजस भूपेन्द्र दीपिका शाह
1832	115174	श्री मुस्तफा अब्दुल हुसैन कागलवाला	1894	116010	श्रीमती देवकी सुधन्वा कलमकार
1833	115195	श्री कमल मोहन जैन	1895	116024	श्रीमती अनुजा मकरंद देव
1834	115199	श्री दिलीप राजकुमार शाह	1896	116035	कुमारी स्मिता विक्टर डी सूजा
1835	115225	श्री अमर अशोक दतार	1897	116049	कुमारी स्मिता नरेन्द्र सेठ
1836	115247	श्री अतीत देवेन्द्र शाह	1898	116077	श्री गौतम श्रीकांत राधा मराठे
1837	115272	कुमारी जया राजन मीना लालवानी	1899	116107	श्री अग्रवाल अरुण
1838	115276	श्री प्रशांत विजय कैतके	1900	116112	श्री श्यामकुमार मदनलाल कमला अग्रवाल
1839	115281	श्री श्रीराम श्रीनिवासन	1901	116118	श्री नरिंदर पाल भूपिंदर सिंह भाटिया
1840	115283	श्री एसके अब्दुल रहीम	1902	116151	श्री जयंतिलाल भावान पटेल
1841	115291	श्री सुनील गोपालदास वासवानी	1903	116170	श्री अश्विन अरविन्द बिजुर
1842	115298	श्री आशीष नंदकिशोर शर्मा	1904	116188	श्री सिद्धार्थ श्याम शेट्टे
1843	115302	कुमारी सेलिना एगनेल डी सूजा	1905	116198	श्री विनय सुदेश कुमार सेठ
1844	115315	श्री अर्णव प्रणव चक्रवर्ती	1906	116221	कुमारी पौर्णिमा हंसमुख सुवेता शाह
1845	115320	श्री राकेश जैन	1907	116234	श्री कल्पेश रतिलाल छावड़ा
1846	115321	कुमारी नेहा रसिक कामदार	1908	116245	श्री रोहित राजेन्द्र पटोरिया
1847	115329	श्री आशीष कुमार जैन	1909	116252	कुमारी प्राजक्ता वासुदेव अलका गाडेर
1848	115349	श्री सुरेश चंद्र राम कृपाल बिंद	1910	116261	श्री रुपम सच्चिदानन्द मूरके
1849	115351	श्री विशाल चन्द्रकांत व्यास	1911	116299	कुमारी श्वेता दागा
1850	115362	कुमारी पायल संजय सतालकर	1912	116324	कुमारी स्नेहा मनहरलाल शाह
1851	115407	श्री रविशंकर नितिनकुमार पोदार	1913	116396	श्री राजन शशि लक्ष्मण
1852	115416	श्री ज्ञानेश्वर यादगीरी काठाराम	1914	116461	श्री भरत हरीश जोशी
1853	115460	श्री अजय मोतीलाल नरघनी	1915	116475	कुमारी हेतल प्रदीप मेहता
1854	115484	श्री कल्पेश कुतिलाल मुथा	1916	116499	श्री श्रीवत्सन जयशम अय्यर
1855	115489	श्री मुफज्जल ताहेर साद्रीवाला	1917	116502	कुमारी निकिता जितेन्द्र शाह
1856	115491	श्री जयदेव अरविंदाक्षण सरस्वती नायर	1918	116519	श्री परद नंदकिशोर दराक
1857	115518	श्री संदीप जैन	1919	116528	श्री अनंतकृष्ण एस अय्यर
1858	115537	श्री अमोल गोपीनाथ पाटिल	1920	116552	कुमारी गरिमा
1859	115540	कुमारी मानसी सुरेश पराडकर	1921	116569	श्री समीरा चन्द्रकांत जोशी
1860	115548	कुमारी काजल हेमन्त पटेल	1922	116570	श्री आशीष परमानंद सुधा अग्रवाल
1861	115553	कुमारी निकिता चंद्रकांत मोदी	1923	116590	श्री मेहुल प्रेमल सुक्कावाला
1862	115565	कुमारी मीना इस्सारदास लालवानी	1924	116611	श्री हिरनकुमार हेमन्त शाह
1863	115574	श्रीमती हेमलता संजय सैनानी	1925	116614	श्री चारुदत्त राजन मंत्री
1864	115582	श्री आदित्य हेमन्त कोरके	1926	116618	कुमारी दीपाती हरिश दत्ता
1865	115587	श्री सागर अनील धर्माधिकारी	1927	116619	श्री भाविन शांतिलाल गांधी
1866	115617	कुमारी नीली योगेश पारिख	1928	116625	श्री संदीप राजकुमार चमड़िया
1867	115640	श्री जिगर जीतेन्द्रभाई मिस्त्री	1929	116633	श्री जितेन्द्र रामदास खलपाड़ा
1868	115642	कुमारी किंजल महेन्द्रभाई शाह	1930	116635	श्री दिगेश मणिलाल रमिया

1931	116641	श्री निलेश रमेश निकम	1993	117623	श्री जितेन्द्र तुकाराम रहटे
1932	116677	कुमारी प्राची सुभाष सुचिता ठाकुर	1994	117635	श्री दीपेन रमेश शाह
1933	116689	श्रीमती रिकू एन दर्यानी	1995	117640	कुमारी जागृति जनार्दन सावंत
1934	116701	कुमारी माधवी किरण शाह	1996	117647	कुमारी रोजलीन लॉरेन्स पेरीरा
1935	116709	कुमारी रेशमा सुभाष कुलकर्णी	1997	117668	कुमारी अपर्णा रमेश सुधा मोदी
1936	116728	श्री रोहित धनराज सारदा	1998	117673	श्रीमती लवलीना पटणी
1937	116761	श्री चिंतन मुकेशमाई दीक्षित	1999	117689	कुमारी रीमा इरफान खान
1938	116763	श्री जयशील कश्यप वच्छरजनी	2000	117691	श्री अरविंद शर्मा
1939	116767	श्रीमती ज्योति मारिया भेल्वेने माठियास	2001	117697	श्री दीपक मुंदड़ा
1940	116825	श्री रोहन किशोर घारे	2002	117700	श्री अमिजीत अनिल सोनटक्के
1941	116847	श्री पवन राजेन्द्र खाबिया	2003	117712	श्री चिंतन विजय कुमार देवलिया
1942	116858	कुमारी स्नेहल दामोदर बालापुरे	2004	117732	श्री मोहिंदर एस चावला
1943	116863	कुमारी प्रिया के आर कन्नन	2005	117757	श्रीमती अन्नपूर्णा रमेश
1944	116866	श्री सचिन देवीचंद जैन	2006	117759	कुमारी निशा महेशचंद्र सरला पोद्दार
1945	116924	श्रीमती वर्षा सलील जोशी	2007	117761	श्री अनिरुद्ध सोमानी
1946	116956	कुमारी राजेश्वरी बीरमानी अय्यर	2008	117763	कुमारी सरिता मुरलीधरन मेनन
1947	116963	श्री अमित किशोर भूटा	2009	117769	श्री रविशाय दिवाकर भावे
1948	116965	श्री इमरान अहमद मोहम्मद जफर	2010	117826	श्री अमित कीर्ति ठक्कर
1949	116977	कुमारी तोरल चंद्रकांत पांड्या	2011	117853	श्री मंदार श्रीकांत जोशी
1950	116979	श्री आदित्य राजकुमार बजाज	2012	117863	कुमारी हर्षदा दिनायक सामंत
1951	116991	श्री मनीष विनोदचंद्र सोलंकी	2013	117875	श्री अंकुश रामचंद्र लुहाना
1952	116994	कुमारी सारिका रमेशचंद्र शाह	2014	117887	श्री सुमितकृष्ण चंद्रा
1953	117006	श्री काबरा बृजेश	2015	117890	श्री संदीप कुमार सतीशमाई शाह
1954	117019	श्री निर्मल दिलीप गांधी	2016	117902	श्री माधव श्रीराम परांजपे
1955	117024	श्री संतोष अनंतकृष्णन अय्यर	2017	117907	श्री सुमित सफ़्ज़न लुंकर
1956	117032	कुमारी दीपाती गजेन्द्र संपत	2018	117932	श्री नुरुद्दीन हुसैन
1957	117049	श्री प्रणय अतुल सफारी	2019	117943	कुमारी हेमल ताराचंद गाला
1958	117054	श्रीमती भक्ति अमोल पाटिल	2020	117960	श्री जैनुलअब्दीन अब्दुल रहमान हकीमजी
1959	117056	कुमारी मेधा रमेश मजीठिया	2021	118003	श्री वजीहद्दीन शम्सुद्दीन हुसैनी
1960	117068	श्री पारस मनुमाई मोदी	2022	118010	कुमारी वृंदा शरद आशा दीक्षित
1961	117069	श्री संजय कुमार जैन	2023	118011	श्री अपूर्व नितिन बैद
1962	117082	श्री विपुल चौधरी	2024	118028	कुमारी गरिमा कृष्णकुमार शकुंतला देवड़ा
1963	117083	श्री समीर नजीर शेख	2025	118040	श्री गिरीश चंद्रन नायर
1964	117094	श्री रामभूती जयरामन	2026	118054	कुमारी अदिति मुन्नालाल जैन
1965	117103	श्री भवानी शंकर	2027	118066	श्री होजेफा शम्बीर नफीसा जावदयाला
1966	117175	श्री अमित हेमचंद शाह	2028	118074	श्री अमित कुमार कुलकर्णी
1967	117196	श्री श्लेषांक सिद्धार्थ लहेरी	2029	118084	कुमारी दीप्ति प्रभात सिंह
1968	117203	श्री दीपक नवल	2030	118101	कुमारी हीना अवतार सिंह मिन्हास
1969	117225	श्री राजीव नंदकिशोर खंडेलवाल	2031	118146	कुमारी अनु अब्राहम
1970	117229	श्री सुमित कन्हैयालाल तवारी	2032	118150	श्री अमित भालचंद्र बरास्कर
1971	117258	श्री रंजीतकुमार हेरिया बिलावा	2033	118159	श्री सुबोध संजीव राव
1972	117265	कुमारी रेशमा लियाकत इनामदार	2034	118164	श्री नरेन्द्र गजानन बडाईकर
1973	117275	श्री मयंक सुशील काबरा	2035	118204	श्री एविल जियोम ग्रेसी मेनेजीज
1974	117278	श्री बिट्टू दगोज नेलीसेरी	2036	118217	श्री प्रसाद प्रभाकर जोशी
1975	117326	कुमारी लीना आनंद बालावालकर	2037	118231	श्री जिमीश अरविन्द सांघवी
1976	117329	श्री संदेश भास्कर शेठटी	2038	118264	श्री नीरज अशोक कुमार गंगवानी
1977	117339	श्री त्रियोग राजीव पांड्या	2039	118274	श्री जयकुमार पेसुमल अरलानी
1978	117340	श्री विजय ईश्वर	2040	118380	श्री जॉन सिडनी डियागो डी सुजा
1979	117387	श्री चिकेश जगदीश जसानी	2041	118397	श्री रितेश दिलीपमाई कोटक
1980	117395	श्री जोसेफ जॉर्ज चिरियाकांदठ	2042	118421	श्री इमियाज मोहम्मद अली शेख
1981	117418	श्रीमती जयश्री विरल कारिया	2043	118424	श्री वैभव रमणीक सरिता बक्शी
1982	117467	श्री राहुल रवीन्द्र राज मेहता	2044	118434	श्री समीर भागुमाई गण्जर
1983	117483	श्री चेतन सीताराम नरसूले	2045	118436	श्री निशा अरुण खेतान
1984	117517	कुमारी सकीना शम्बीर उज्जैनवाला	2046	118440	श्री भाविन एन शाह
1985	117518	कुमारी विदुला मुकुंद सावलापुरकर	2047	118455	श्री आशीष श्यामलाल छंगानी
1986	117524	कुमारी रोशनी गवित बारबोजा	2048	118492	श्री समीर मुरलीधर महाजन
1987	117531	कुमारी स्वाती सुब्रमण्यम	2049	118510	कुमारी काजल हरिचंद्र जैन
1988	117548	श्री संजीव जयप्रकाश माहेश्वरी	2050	118523	श्री भुवनेश्वरी सुसुफमाई हिंगनघाटवाला
1989	117567	श्री अरसद अली	2051	118529	श्री हितेश ताराचंद बेहरा
1990	117585	श्री मनीष बगारिया	2052	118530	श्री निरव अशोक मेहता
1991	117588	श्री वैक्टरमण वैकिटघालम	2053	118534	श्री सुनील शामराव पाटिल
1992	117600	श्री अमित सुरेशचंद्र छल्लानी	2054	118540	श्री निरव लक्ष्मीचंद मामनिया

2055	118591	श्री निबुक्कमार चंद्रशेखरन नायर	2117	119235	श्री विकास चंडक
2056	118594	श्री प्रमोद गजानन रत्नेकर	2118	119250	कुमारी मालिनी उन्नीकृष्णन
2057	118603	कुमारी अनुपमा सिंह	2119	119285	श्री नरेन्द्र सोनी
2058	118604	श्री अनिरुद्ध कृष्ण देशपांडे	2120	119298	कुमारी शर्मिला धनश्याम राणावत
2059	118621	श्री योगेश सतीश सुशीला कुवाड	2121	119301	कुमारी मानसी संजय दादरकर
2060	118624	श्री सौरभ विजयवर्जिया	2122	119308	कुमारी आशा जयंतिलाल ठक्कर
2061	118636	श्री प्रवीण डैड	2123	119313	श्री जितेन्द्र जयंतिलाल माशरु
2062	118651	कुमारी करिश्मा मेहता	2124	119337	कुमारी अमिता असीम कुमार सेनगुप्ता
2063	118659	श्री अमय अगम प्रकाश गोयल	2125	119346	श्री आशीष थोमस बाप्टिस्टा
2064	118671	श्री अमित कुमार चौधरी	2126	119359	श्री आनंद जैन
2065	118682	कुमारी सेली शैम वाग	2127	119367	श्री भगवानस्वरूप गगरानी
2066	118689	श्री विशाल कमल किशोर जोशी	2128	119370	श्री अनोश अतिल नंदिनी कोपिकर
2067	118692	श्री संदीप कृष्णकमल भूरे	2129	119385	श्री सूर्यनारायणन हरिहरन
2068	118696	श्री गौरव दिनेशचंद कोठारी	2130	119416	कुमारी पायल अरुण कानितकर
2069	118704	श्रीमती कविता हितेश हकानी	2131	119448	श्री श्रीनिवास अशोक कुलकर्णी
2070	118734	कुमारी कल्पना सुरेशलाल हसिजा	2132	119455	श्री गणपत किसान लमखडे
2071	118735	श्री रोशन जैन	2133	119456	श्रीमती संगीता सुनीत बडाले
2072	118741	श्री हितेश जगदीश शाह	2134	119460	कुमारी दीप्ति मकरंद कनाडे
2073	118749	श्री सचिन नागरमल गुप्ता	2135	119512	श्री मुर्तजा अब्बास खंडवाला
2074	118752	श्री चिंतन कुमार अरविंदराई व्यास	2136	119519	कुमारी पल्लवी मानसुख छाजेड
2075	118757	श्री ऋषि राठी	2137	119541	श्री हर्षित अजितभाई शाह
2076	118764	श्री चेतक शेषमल लालवानी	2138	119542	कुमारी मीता अनिल गौरी सामंत
2077	118774	श्री साद राउफ सूती	2139	119561	श्री यश विजयसिंह सेठिया
2078	118790	श्री हरिशंकर मोदी	2140	119614	श्री सतधित मुकुंद सगाडे
2079	118795	श्री प्रशांत रामनाथन मेनन	2141	119634	श्रीमती स्नेहल संदेश कारवा
2080	118796	श्री अनूप विजय कायल	2142	119637	श्री राहुल मेहता
2081	118801	श्रीमती किमाया रुपेश शाह	2143	119642	श्री जितेन्द्र बजरंगलाल गुप्ता
2082	118803	कुमारी प्रीति प्रमानंद काने	2144	119648	श्री हिमांजल जगदीशचंद्र ब्रह्ममट्ट
2083	118831	श्री नवतेज रमेश वर्मा ठक्कर	2145	119668	श्री दत्तात्रेय सुदाम मलेराव
2084	118849	श्री संदीपकुमार अरविंदकुमार कोठारी	2146	119678	श्री जयेश मधुकर जाधव
2085	118869	कुमारी दिव्या स्वामीनाथन	2147	119696	श्री चितन उपेन्द्रकुमार दवे
2086	118880	श्री अंकुर मंगल	2148	119705	श्री नचिकेत विश्वनाथ देशपांडे
2087	118889	श्रीमती हिमानी बडोनी	2149	119755	श्री नितिन मदनलाल झंवर
2088	118899	कुमारी अस्मिता भालचंद्र लागू	2150	119757	श्री संजय ओमप्रकाश सेठी
2089	118906	श्री अमोल रमेश घोगे	2151	119779	कुमारी ममताजयराम शेडटी
2090	118921	श्री मंगेश शामराव टेकाडे	2152	119815	श्री कमलेश चवानी
2091	118949	श्री निरंजन गजानन बनोदकर	2153	119817	श्री कमलेश मोती सिधवानी
2092	118996	श्री देवांग योगेश बुद्धदेव	2154	119837	श्री मनोज माधव रमाने
2093	119042	श्री कैलाश श्यामलाल साहित्य	2155	119843	श्रीमती तेजस देवेन्द्र पारुलेकर
2094	119050	श्री करण रविंदर तलवार	2156	119858	कुमारी जैनेट ऑगस्टीन सेराव
2095	119061	श्री हर्षल निरंजन तलाटी	2157	119863	श्री हातिम अली
2096	119062	श्री प्रणय मीतुलाल अग्रवाल	2158	119873	श्री अभिषेक विजय बागवे
2097	119068	कुमारी पल्लवी अरविन्द हरदास	2159	119884	श्री सिद्धार्थ श्रीपाल बच्छावत
2098	119076	कुमारी गौरी राजन	2160	119896	श्री करण चंदर मोहन वीणा खन्ना
2099	119081	श्री पुष्कराज वसंत वर्तक	2161	119897	श्री अजय बोराडिया
2100	119091	कुमारी मैथिली विजय खोटे	2162	119928	श्री मनीष तुलसी राम सुनिता कयाल
2101	119093	श्री गगन चतुर्वेदी	2163	119931	कुमारी फरनाज जिम्मी खुरीद तलाटी
2102	119095	श्री मिहिर दीपक भंसाली	2164	119939	श्री दिलराजसिंह नृपिंदरसिंह विलखू
2103	119104	कुमारी प्रदीप कूलवंतसिंह सूडान	2165	119946	श्री राहुल भोजवानी
2104	119109	कुमारी सलोनी सारंग शाह	2166	119949	श्री अश्विन चंद्रकांत निता पै
2105	119122	श्री सुमीत योगेशभाई देसाई	2167	119959	कुमारी स्मिता प्रेमचंद जैन
2106	119143	श्री बालमुकुंद सोमानी	2168	119965	श्री मनीष मुंडरा
2107	119150	कुमारी दिव्याबेन नवनीतलाल प्रजापति	2169	119990	कुमारी रश्मि रत्नेश नांगिया
2108	119154	श्री अनिवारण श्यामल सेन	2170	119999	श्री सुहास भानुदास गावली
2109	119162	श्री शिवानंद भोजा शेडटी	2171	120003	श्री अंकुर पवन कुसुम अगरवाल
2110	119164	कुमारी ऋतु सुरेन्द्रनाथ माहेश्वरी	2172	120008	श्री कुणाल प्रफुल्ल मालविका शाह
2111	119169	श्री अनुपम लाहोटी	2173	120010	श्री आशीष गोयल
2112	119175	श्री चेतन अनील देशमुख	2174	120026	श्री भानोज प्यारेलालजी अगरवाल
2113	119179	श्री स्वप्निल शांतिलाल जैन	2175	120099	श्री तेजस बिपिनचंद्र गांधी
2114	119192	श्रीमती दीप्ति तुषार भासुरकर	2176	120119	श्री योगेश आत्माराम रुक्मणी धरणीधरका
2115	119211	श्री नवीन चन्द्र लोढा	2177	120159	श्रीमती नयना प्रीतम महादिक
2116	119219	कुमारी अभिलाषा अरुण पांडे	2178	120165	श्री श्रीकुमार नारायण पिल्लै

2179	120174	श्री अनिल रामगोपाल लता	2241	121178	श्री महेश श्रीकांत बजाज
2180	120193	कुमारी हेमाक्षी दिलीप कोठारी	2242	121181	श्री संजीव मोदी
2181	120278	श्री अखिलानंद चौधरी	2243	121187	कुमारी हेतल जयंत कटुडिया
2182	120283	श्री अभिषेक कुमार जैन	2244	121196	श्री सविन रमेशचंद्र पानिया
2183	120290	श्री अमोल प्रभाकर अन्घा वायरकर	2245	121204	श्री तुषार सुभाष जैन
2184	120343	श्री रोहितप्रकाश सोमलवार	2246	121214	कुमारी सरिता
2185	120349	श्रीमती राधा नितेश निखाडे	2247	121242	श्री गौरव सुरेश सुशिला जैन
2186	120361	श्री रोहित फुटरमल सज्जन जैन	2248	121286	कुमारी श्वेता जयवदन मेहता
2187	120373	श्री नितिन नरोत्तमभाई तरसाया	2249	121296	श्री हातिम हुसैनी बनतवाला
2188	120374	श्रीमती शीतल कौशल शाह	2250	121307	श्री विशाल नारायणदास राठी
2189	120396	कुमारी प्रेरणा वर्मा	2251	121319	श्री सुरेन्द्र मोतीराम जेसरानी
2190	120401	श्री हिरल जयंतिलाल शाह	2252	121346	श्री निशांत जयेश दोशी
2191	120413	कुमारी सुजिता बेगम पीर मोहम्मद	2253	121371	श्री विक्रम रमेश कुमार
2192	120418	श्री आनंद सतीशकुमार भुटाडा	2254	121404	श्री भावेश बासुदेवभाई चेलानी
2193	120421	श्री महेश खंडेलवाल	2255	121410	श्री मोहित सतक
2194	120425	श्री पुनीत महाराजकृष्ण पूरी	2256	121455	श्री हेमंत रमणलाल बोधारा
2195	120429	श्री विवेक राजेन्द्रभाई रजनी	2257	121482	श्री मुकेश घीसुलाल सोदेशा
2196	120451	श्री राजेश नंदलाल मुनदादा	2258	121483	श्री विशाल योगेश लीना ठक्कर
2197	120475	कुमारी पूनम रमेश रानी शर्मा	2259	121507	श्री सविन ओमप्रकाश भांडववाला
2198	120479	श्री कृष्णल जसवंत रेखा धारिया	2260	121518	श्री निरुपम कमलेश मोदी
2199	120492	श्री मुर्तेजा परतापुरवाला	2261	121523	श्री श्रीकांत उमेशराव के
2200	120508	श्री विपिन बिहारी गोयल	2262	121552	श्री चिराग मुकेशभाई शाह
2201	120521	श्री राजेश विनोद मुरारका	2263	121559	श्री संजय कुमार त्रिलोककुमार अग्रवाल
2202	120531	श्री मनोज कुमार मोहनदास	2264	121565	श्री नव्य गांधी
2203	120535	श्री योगेश प्रताप पाटिल	2265	121589	कुमारी अदिति मोहन नारायण
2204	120544	श्री सीताराम राव मोरामपूड़ी	2266	121573	श्रीमती मोनिका एस करखानिस
2205	120545	श्री नेहल अनिल शाह	2267	121579	कुमारी उमा राजेन्द्र काबरा
2206	120552	कुमारी जयश्री केशव प्रमिला शेटी	2268	121583	श्री रीतेष सुशील अग्रवाल
2207	120553	श्रीमती भावना मुकेश विनवानी	2269	121611	श्रीमती नेहा जगेश ठक्कर
2208	120556	कुमारी कल्पना राजाराम देसाई	2270	121617	श्रीमती पूनम गांधी
2209	120571	श्री मनोज काशिलाल शाह	2271	121643	कुमारी सुलभाणा सीताराम आम्ने
2210	120575	श्री प्रशांत जैन	2272	121676	श्री जय प्रकाश
2211	120599	श्री अमलकुमार अशोककुमार लोहाडे	2273	121708	श्री राहुल जैन
2212	120611	श्री कपिल सुरेश कर्णावत	2274	121712	कुमारी सुजिता मनमथनाथ रे
2213	120616	कुमारी मयूर मयुरकर डमले	2275	121738	कुमारी विनाल परेशकुमार सोनी
2214	120619	श्री यश आनन्द बालावालकर	2276	121756	श्री अनुकूल जैन
2215	120650	श्री नवीद आरिफ वेल्डॉन	2277	121785	श्री तनवीर सब्बोर अहमद फारुकी
2216	120655	कुमारी रफत अब्दुल अजिज सादिक दबीर	2278	121793	श्री संदेश श्रीप्रकाश कारवा
2217	120668	कुमारी नव्यता भरुलाल दुघालिया	2279	121811	श्री विनायक विठ्ठल किनी
2218	120708	श्री अमिताभ सराफ	2280	121841	श्री किशोरीलाल रामदुलार बिंद
2219	120731	श्री विनय कुंभट	2281	121843	श्री विशाल प्रकाश जैन
2220	120735	श्री संजय रतनलाल बोहरा	2282	121844	कुमारी ली एन लिली डियास
2221	120746	श्री कृष्णल गुलाबदास दत्तानी	2283	121871	श्री कृष्णकांत चिरानिया
2222	120747	श्रीमती प्रिया समीर शायर	2284	121873	श्री सुरांत कुमार शिवराम नायक
2223	120770	श्री उदयचन्द्र नेल्सन पंकेजवल्ली देवास्पर	2285	121893	श्रीमती अद्या त्रिपाठी
2224	120772	श्री कौशिक जितेन्द्र टन्ना	2286	121900	श्री अतुल अशोक नवलखा
2225	120899	श्री प्रशांत चंद्रकांतभाई मकुंकिया	2287	121926	कुमारी दीप्ति विजय हेरवाडकर
2226	120923	श्री निहार चिराग सेठ	2288	121945	श्री जिबी जैकब चोवाल्लूर
2227	120936	श्री कृतिक प्रदीपभाई शाह	2289	121947	श्री अंकुर कुमार अतुल कुमार पारिख
2228	120938	श्री राहुल महेंद्रभाई शाह	2290	121950	श्री कमलेशकुमार प्रवीण चन्द्र शाह
2229	120959	श्री चिराग चंद्रकांत शाह	2291	121960	श्री सुजीत मालचन्द्र परब
2230	120978	कुमारी पारुल शंकरलाल पटेल	2292	121964	श्री अपराजित मालचंद्र भंडारकर
2231	121006	कुमारी पूनम विजय कार्णिक	2293	121980	श्री अतुल वसंतलाल बोरा
2232	121034	श्री विनीत विरवास पाटिल	2294	121981	कुमारी रुक्मा लिलाधर सेठ
2233	121047	श्री वसंत कांतिकंद सिंधी	2295	121986	कुमारी महिमा बोकारिया
2234	121076	श्री अभिषेक सिंह	2296	122022	कुमारी नम्रता अविनाश सवाई
2235	121092	श्री ऋषिकेश विनयकुमार पाटिल	2297	122034	कुमारी स्वाति अरुण तनुजा बेटकर
2236	121116	श्री कौशल मनोजकुमार पटेल	2298	122061	कुमारी स्वरुपा विष्णु लता दत्ते
2237	121149	श्री रवीश श्रेयसभाई शाह	2299	122071	श्री भाविक ललित शाह
2238	121155	श्री अंकित महेंद्रभाई देसाई	2300	122073	कुमारी रेखा सुब्रमण्यम
2239	121168	कुमारी मयूर अविनाश अरानकल्ले	2301	122093	श्रीमती जायेल वेंकटकृष्ण राव
2240	121173	कुमारी सोमिता विनोदचन्द्र पारिख	2302	122097	कुमारी रश्मि वामन नागदेकर

2303	122136	श्री विकास लक्ष्मण कालीबाग	2365	123113	कुमारी अरवि रमेश नयना मवानी
2304	122145	श्रीमती ज्योति जितेन्द्र पंजाबी	2366	123120	श्री महेश रत्नाकर अनुपमा कदम
2305	122147	श्री पियूष राजेन्द्र मीना बुबना	2367	123127	श्री रोहन विजेन्द्र अग्रवाल
2306	122178	कुमारी नेत्रा नारायण सीमा राणे	2368	123130	श्री सौरभ नागोरी
2307	122180	श्री महावीर इंदरचंद पटणी	2369	123136	श्री भाविन दर्शन मेहता
2308	122193	श्री सचिन जितेन्द्र शारदा हिंगू	2370	123186	श्री अमित दत्तात्रेय सुवर्णा मिरगुले
2309	122199	श्री योगेश रायपुरिया	2371	123187	श्री दीपक राज अय्यर
2310	122204	श्री मनीष अरविंद ठक्कर	2372	123194	श्री संदीप नरशी वालीबेन लखानी
2311	122209	श्री अश्विनी टाक	2373	123219	श्री नवीन मडाडा
2312	122228	श्री हार्दिक किरितकुमार बसावदा	2374	123241	कुमारी नूपुर प्रमोदकुमार काबरा
2313	122229	कुमारी अन्नपूर्णा नरेन्द्र त्रिवेदी	2375	123243	श्री रोहित नवीन चौधरी
2314	122243	श्री मोहनीश नीलकंठ कात्रे	2376	123248	श्रीमती नम्रता ओंकार भाठकर
2315	122251	श्री जितेन्द्र विजय खेडेकर	2377	123257	श्रीमती मेघा महेश देवरुखकर
2316	122265	श्री निगेल ऑस्टिन डी सूजा	2378	123260	श्री शाहिद अली सईद रज्जाक अली सईद
2317	122278	श्री सचिन कुमार सतीशचंद्र संगानी	2379	123317	कुमारी रचना प्रवीण भारती कपाडिया
2318	122284	श्री धवल अशोक शाह	2380	123321	श्री युसुफ इस्माइल दुरैया रूपावाला
2319	122290	श्री विकास महावीर किरण गाडिया	2381	123328	श्री अनुभव अजय गायल
2320	122322	कुमारी राधिका महादेवन	2382	123342	श्री योगेश घनश्यामभाई कुमारे
2321	122340	श्री अमित आलोक बनर्जी	2383	123361	श्री कुंतल मदनलाल बांब
2322	122382	श्री सारंग चंद्रशेखर पचलाग	2384	123395	श्री संदीप शाह
2323	122402	कुमारी रुपाली चंद्रकांत कामिनी चव्हाण	2385	123398	श्री हर्षद आनंद असनारे
2324	122407	श्री निलेश महेशभाई ठक्कर	2386	123421	कुमारी रश्मि माधव देशपांडे
2325	122451	कुमारी आरती विजय घाटपाण्डे	2387	123473	कुमारी सुमति संपत
2326	122504	श्री समीर नजीर शेख	2388	123479	श्री विशाल महासुखलाल गांधी
2327	122536	श्री धर्मेश रमेशकुमार हंसाबेन बेताविया	2389	123481	श्रीमती टीना सराफ
2328	122569	श्री हरिनारायण राजगोपालन अय्यर	2390	123433	श्री रविशंकर सत्यनारायण रेड्डी
2329	122604	श्री खुजान दीनयार दस्तूर	2391	123502	कुमारी कंचन रामचंद्र सीता संगम
2330	122611	श्री कृष्ण कुमार बोहरा	2392	123507	श्री विनीत पोद्दार
2331	122616	श्री समर अनील वेद	2393	123540	श्री कुरुश होस्ले पीठावाला
2332	122620	श्री हिरेश कृष्णलाल गोराडिया	2394	123565	श्री आफताब गुमानी
2333	122625	कुमारी श्रीवाणी गुणवंत प्रमुसालगांवकर	2395	123577	कुमारी स्नेहल सुहास फडके
2334	122628	श्री विकास पंसारी	2396	123595	श्री विवेक सुरेशचंदजी बाज
2335	122675	श्री उमेश प्रकाश टेल	2397	123648	श्री विकास शंकरलाल धनुका
2336	122692	श्रीमती अनिका हितेश रहेजा	2398	123716	श्री सुनील दीपक शाह
2337	122694	कुमारी सोनू गिरिशारीचंद मेहता	2399	123742	श्री अभिषेक अमर शोभा तलरेजा बठिजा
2338	122696	श्री भीकमचंद गौतमचंद बोधारा	2400	123750	श्री देवेन्द्र जयसिंह अशेर
2339	122718	श्री निरव धीरज पधु शाह	2401	123752	कुमारी निधि पोद्दार
2340	122729	कुमारी स्वीटी देवकीनंदन गुप्ता	2402	123766	श्री मोहन केरु तुल्ये
2341	122740	कुमारी सोनल निशिकांत थरथरे	2403	123770	श्रीमती अनाघा उदय काने
2342	122746	कुमारी प्रांजलि अशोक जया मोकाशी	2404	123775	श्री परवेज गुलमोहम्मद मंसूरी
2343	122763	श्री किंजल प्रकाश पंचोली	2405	123798	श्री जयेश किशोरकुमार मंडालिया
2344	122789	श्री अमित कुमार अगरवाल	2406	123807	श्री राज कमल
2345	122797	श्री प्रशान्त कदम हरिश	2407	123822	श्री हसमुखभाई नटवरभाई पटेल
2346	122817	श्री शरद सिंधी	2408	123835	श्री वरुण गुप्ता
2347	122820	श्री चिराग नरेश शान्ताबेन पटेल	2409	123840	श्री अंकित मेहता
2348	122824	श्री नितीन घनश्याम मोदी	2410	123854	श्री मेहुलकुमार शांतिलाल त्रिवेदी
2349	122826	श्री अंकित सुरेश माहेश्वरी	2411	123871	श्री सौरभ चंद्रशेखर त्रिपाठी
2350	122839	कुमारी प्राप्ति जितेन्द्र दोशी	2412	123898	श्री विशाल कृष्णकांत गांधी
2351	122869	श्री ग्लाइकेन बाबू	2413	123923	श्री हितेन चंद्रकांत कानावर
2352	122874	कुमारी हिरल कोशिकाभाई शुक्ला	2414	123933	श्री तरल कृष्णकांत कंसारा
2353	122881	श्री नरेश जसवंतलाल मानचंदा	2415	123935	श्री सुनील रामावतार साह
2354	122884	श्री रफ्त अहसान मोहम्मद	2416	123938	श्री यशोधर नटवरलाल चंद्रिका अशार
2355	122900	श्री जटा शंकर ठाकुर	2417	123945	श्री दिनेश रामलाल गुप्ता
2356	122908	श्री शेखर ओमप्रकाश भंसाळी	2418	123951	श्री किंजल रामचंद्र टकालिकर
2357	122930	श्री महावीर मानकचंद जैन	2419	123973	कुमारी कोमल दयाल भगत
2358	122952	श्री प्रवीण शेशराव गावाने	2420	124005	कुमारी नेहा अशोक दागा
2359	122995	श्री अभिजीत बालकृष्ण गायकवाड़	2421	124006	श्री मुफददल शब्बीरहुसैन हकीमी
2360	123024	श्री आलेख योगेन्द्र कास्तवार	2422	124007	श्री मनमोहन गोविन्दलाल बजाज
2361	123045	श्री रामजीवन विश्वनाथ पुष्पा खडिया	2423	124009	कुमारी मेघना प्रभाकर गोडबोले
2362	123049	श्रीमती प्रियंका जैन	2424	124020	श्री रामगोपल सोमानी
2363	123054	कुमारी लता मोतीलाल जैन	2425	124030	श्री देवेन्द्र मनहर रंजन जांजरकिया
2364	123083	श्री राजीव मुथा	2426	124065	श्री राजेश रमेश बुधरानी

2427	124069	श्री जिनेश छोटालाल वडेरा	2489	125431	कुमारी सुरभि कौराव
2428	124088	श्री नवीन कुमार नरसिंह लाल काबरा	2490	125437	श्री चैतन्य श्रीकांत गनोरकर
2429	124093	श्री बृज धीरुमाई पटेल	2491	125455	श्री लालचन्द सेवाराम सोनैय्या
2430	124109	श्री मुकेश धर्मचंद महंतवार	2492	125465	श्री प्रतीप धिवकाया शेटी
2431	124123	श्री अश्विन बाजुमाई बारद	2493	125476	श्री जोनाथन एलेविनहो गोम्स
2432	124188	श्री सुधाकर नरसिमवैरी पोंडचेटी	2494	125485	श्री विनय ओमप्रकाश चुडीवाला
2433	124209	श्री विपुल विश्वनाथ शेटी	2495	125510	श्री अभिषेक गोपाल अमृता अक्धानी
2434	124227	श्री ब्रजेश ललित बन्नातवाला	2496	125572	श्री अंतरिक्ष जयतिमाई पटेल
2435	124232	श्री संजय बदीलाल पुंगलिया	2497	125580	श्री प्रिंस जॉर्ज
2436	124289	श्री विक्की बालकृष्ण अगरवाल	2498	125602	श्री धर्मन्द्र मोलानी
2437	124306	श्री मिल्टन नाजुमेट फर्नांडीज	2499	125608	कुमारी स्वाति श्रीकृष्ण जोशी
2438	124317	श्री उमेश कुमार सुखदेवमाई भट्ट	2500	125619	श्री मनोज धनश्यामचन्द्र आभा शर्मा
2439	124329	श्री सौरभ गोविन्द धड़फाले	2501	125631	श्री विकास पोरवाल
2440	124335	श्री धर्मेश मारुति मोहादिकर	2502	125662	श्री संकेत रसिकमाई मकडिया
2441	124337	श्री सौरभ नटवरलाल कोटेवा	2503	125679	श्री सूर्यकांत राजाराम मधेकर
2442	124353	कुमारी दिव्या जयराम सरला शेटी	2504	125724	श्री कार्तिक सुब्रमण्यम
2443	124388	कुमारी हेतल राजेन्द्र कामदार	2505	125735	श्री किशन वैष्णव
2444	124450	श्री विवेक प्रकाशराव देशपांडे	2506	125739	श्रीमती आरती जयदीप शुक्ला
2445	124510	श्री प्रथा मोहन वीना ताम्बडे	2507	125750	कुमारी प्रिंसी रघुले मैथु एलेयम्मा
2446	124511	श्रीमती निकीला पाथ ताम्बडे	2508	125760	श्री अनूप अगरवाल अमर
2447	124526	श्री किशोर रामदयाल नवल	2509	125784	श्री पंकज प्राणजीवनमाई गोटेचा
2448	124538	श्री अमर अशोक हदये	2510	125807	कुमारी जान्हवी दिनेश मधुबाला प्रभु
2449	124545	श्री चैतन्य सुनील सुनिधि गुप्ते	2511	125809	कुमारी रोमा ताराचंदजी चोरडिया
2450	124550	श्री स्वप्निल उदय सध्या पाटिल	2512	125814	श्री संदेश सुमंत नारवेकर
2451	124576	श्री सुमित संतोष खंडेलवाल	2513	125815	श्री आशीष देवेसर
2452	124599	श्री दीपक बाबुलालजी सुशील खरवाड़	2514	125844	श्री सौरभ अशोक पलोद
2453	124604	श्रीमती पूजा एलविन लोपेस	2515	125845	कुमारी सौंदर्य एस
2454	124613	कुमारी विलास बाबुमाई रडडिया	2516	125860	श्री निक्की मदनलाल रजनी
2455	124660	कुमारी श्वेता किरित रुक्मा कपाडिया	2517	125893	श्री प्रकाश रावसाह गड्डो
2456	124667	कुमारी डिम्पल ब्रजेश दवे	2518	125908	श्री प्रणव किशोरचंद्र विभा तुरखिया
2457	124682	श्री जिनेशकुमार प्रवीणकुमार ठक्कर	2519	125920	श्री विपुल ईश्वरलाल लोलाबेन पंचसारा
2458	124716	श्री विकास दगाडू बानखेले	2520	125947	श्री राजेश कन्हैयाल टपरिया
2459	124820	कुमारी कोजागिरी गिरीश दोशी	2521	125959	श्री निरव दिनकरराय गनात्रा
2460	124846	श्री निकेत श्रीकिशनजी मंत्री	2522	126014	श्री पराग दिलीपकुमार अडवाणी
2461	124847	श्री अमित श्रीपत दारेकर	2523	126029	श्री संदीप मधुकर गोखले
2462	124853	श्री आकाश घोडोपंत कोकडवर	2524	126045	श्री जीत सुशील गांधी
2463	124873	श्री तुषार सोमेशचन्द्र लकड़ावाला	2525	126056	श्री केदार सोमनाथ पाण्डे
2464	125002	श्री नील नैलिन मवाडो	2526	126065	श्री मंगिरिश अशोक गायतोंडे
2465	125021	श्रीमती शिवगामी सुंदरी देवानंद	2527	126086	श्री अरुण कंसारा
2466	125025	श्री श्रीराम सुरेशकुमार गट्टानी	2528	126115	कुमारी कमलेश कोठारी
2467	125027	श्री विनोद शर्मा	2529	126121	श्री सचिन कृष्णजी बगुल
2468	125028	कुमारी संजना बनर्जी	2530	126126	कुमारी ऋतु वसंत माहेश्वरी
2469	125055	श्रीमती रश्मि सिंह चौहान	2531	126142	कुमारी अंजली भरतकुमार त्रिवेदी
2470	125056	श्री अनुप मदनमोहन राठी	2532	126145	श्री शिवकुमार गणेशन
2471	125096	श्री पुष्कर सुधीर वैद्य	2533	126174	श्री पुनित राजेश भारती सेजपाल
2472	125106	कुमारी निकिता पंकज लता देसाई	2534	126175	श्री हरेश बलराम मीना उदासी
2473	125123	श्री आदित्य हीरालाल झवर	2535	126184	श्रीमती सोनल झवर
2474	125125	श्री गजानन रायमानराय मुंगल	2536	126218	श्री चितन प्रकाश कल्पना शाह
2475	125163	कुमारी हेमांशी भरत भावना शाह	2537	126279	कुमारी तेजल कनैयालाल शाह
2476	125163	श्री नरेन्द्र धेददार	2538	126280	श्रीमती खितिजा गणेश सरपोतदार
2477	125187	श्री कमल बारयानी	2539	126282	कुमारी सोनल शामप्रसाद सुलभा तलाठी
2478	125216	कुमारी विनिता भरत बोरा	2540	126317	श्री किशन हर्षदमाई टन्ना
2479	125265	श्री श्रीराम मुकुंद वसुंधरा देशपांडे	2541	126318	कुमारी विजय लक्ष्मी आर
2480	125282	श्री पवनकुमार हरगुनदास गजवानी	2542	126320	श्री कुणाल शैलेश सेठ
2481	125287	श्री विकास गुप्ता	2543	126345	श्री सर्वेश कोठारी
2482	125292	श्री मुकेश गर्ग	2544	126360	श्री अमित रामकृष्ण पुनवाटकर
2483	125342	श्री हेमन्तकुमार छगनलाल पटेल	2545	126410	श्री नकुल सुरेन्द्र कसदवाला
2484	125348	श्री विष्णु हनुमंत यन्म	2546	126447	श्री देवांग दीपककुमार दोशी
2485	125360	श्री अमित चतुर्मुख जोशी	2547	126464	श्री हुसैन कुरेश रशिद रतलामवाला
2486	125374	कुमारी श्रद्धा मनहर मधुरिया	2548	126483	श्री मारेहम्माद अकबर कमरअली सय्यद
2487	125392	श्रीमती स्नेहा मालपाणी	2549	126580	श्री धर्मेश गोविन्ददास रतनगायश
2488	125414	श्री निलेश नरेन्द्र शाह	2550	126596	श्री रुपेश सतीश बोरा

2551	126616	श्री मयंक रजनीकांत शाह	2613	127696	श्री अंशुल ग़ोवर
2552	126626	श्री अल्पेश गुप्ता	2614	127706	कुमारी अनी बिपिन उषा मेहता
2553	126635	श्रीमती भाविका कौस्तुभ गांधी	2615	127720	श्री रंजीत राघवमाई गोलेटर
2554	126639	श्रीमती खुशाली संजय दवे	2616	127725	श्री हीरेन प्रवीणकुमार पंडित
2555	126684	श्री नरेन्द्र नंदकुमार जडगे	2617	127732	श्री जिंगनेश भूपत माई देवानी
2556	126761	श्रीमती ज्योति नवीन चोरडिया	2618	127747	कुमारी रीमा हरिदास नायर
2557	126769	श्री चेतन मोतीलाल सोनी	2619	127758	कुमारी जान्हवी चंद्रमोहन शर्मा
2558	126813	कुमारी छवि राकेश सेठी	2620	127763	श्री अजय चंदलाल मेहता
2559	126821	कुमारी मोनिका जसवंत राय सुशीला वाधानी	2621	127767	कुमारी धरिणी मानेश शाह
2560	126855	श्री महेश नारायण रिमल	2622	127775	श्री मनीष कर्णावत
2561	126860	श्री आशुतोष सुभाष त्रिवेदी	2623	127784	श्री राजकुमार सोमानी
2562	126862	श्री अनिल कृष्णदास पारेख	2624	127843	श्री मिथिल पृथ्वीराजसिंह पवार
2563	126881	श्री विरेन फूलचंदमाई शाह	2625	127853	श्री मयंक बालमुकुन्द झंवर
2564	126889	श्री राकेश देवकीनंदन अगरवाल	2626	127887	कुमारी श्वेता द्वारकाप्रसाद धनुका
2565	126895	कुमारी सबरीना शब्बीर जीना अतरवाला	2627	127912	श्री दीपक गोपाल माहेश्वरी
2566	126897	कुमारी दीप्ति सुभाष अनुराधा जुंजरराव	2628	127931	श्रीमती निशा चिराग शाह
2567	126920	श्री कैलाश मफतलाल बाफना	2629	127938	श्री विशालकुमार प्रफूलचंद गोकानी
2568	126939	श्री दिनेश नंदकिशोर दरक	2630	127953	श्री कार्तिक चैतन्य वी
2569	126980	श्री अगर सिंह जग सिंह जग	2631	127960	श्री गौरव विजय कुमार अगरवाल
2570	127023	श्री निशीथ जैन	2632	127978	श्री निरज शशिकांत लिया
2571	127026	श्री नितिन राधाकिशन अजागे	2633	127989	कुमारी सीमा श्यामासुंदर ककानी
2572	127031	श्री दर्शन सूर्यकांत सांगुरदेकर	2634	128017	श्री त्रिशार बंशीमाई ठक्कर
2573	127126	श्री निशित रतन राठी	2635	128039	श्री दिव्येश अशोक सेठ
2574	127137	श्री अजीम सलीममाई गिराच	2636	128050	श्री विमोह प्रदीप चंद्रा
2575	127153	श्री अमितकुमार किशोरकुमार शाह	2637	128053	कुमारी हेमानी हस्तकंत खत्री
2576	127162	कुमारी मनीषा मूलचंद रोचिरमानी	2638	128057	कुमारी नम्रता नंदलाल बोथरा
2577	127164	श्री मयूर खेतशी निसार	2639	128065	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव
2578	127167	श्री हुसैन नजफ अली गरी	2640	128067	श्री विवेक हरिहर प्रसाद मिश्रा
2579	127180	श्री अमीश त्रिभोवन बनिता दहिसरिया	2641	128077	श्री अबुजार युनुस अली
2580	127185	कुमारी दीक्षा मोहनलाल कुकरेजा	2642	128079	कुमारी यशोधरा बालकृष्ण बरहटे
2581	127186	श्री निरव मनोज खत्री	2643	128089	श्री अमित कुमार शर्मा
2582	127191	कुमारी प्रिया विजयराघवन एस वी	2644	128092	श्री मुर्तजा अली मोती
2583	127205	कुमारी मितल किशोर बोरा	2645	128102	श्री राकेश गोपालमाई जिमूलिया
2584	127217	श्रीमती स्नेहा अमेय वैद्य	2646	128118	श्री दीपक शरदकुमारजी झंवर
2585	127244	श्री चेतन राजेन्द्र केजरीवाल	2647	128122	श्री निनाद सुरेश मौस्कर
2586	127270	श्री भावेश रमेश नागड़ा	2648	128144	श्री कांतिलाल प्रतापरांम भाटी
2587	127293	कुमारी गरिमा कपूर	2649	128178	कुमारी नेहा रविन्द्र सिंघानिया
2588	127311	श्री योगेश अनंत कुलकर्णी	2650	128185	श्री दिलीप कुमार सोनी
2589	127338	श्री व्योम मयंकमाई पांड्या	2651	128208	विपुल इन्द्रवदन देसाई
2590	127339	श्रीमती राखी सुनील साली	2652	128212	कुमारी विजल जयकुमार शाह
2591	127342	श्री अभिषेक दत्ता गुप्ता	2653	128218	कुमारी एलजा जैकब अल्फोंसा
2592	127349	श्री फीरोज समंदर खान	2654	128223	श्री विवेक झुझुनवाला
2593	127354	कुमारी वैशाली भाष्कर नीलांबरी बिदाये	2655	128227	कुमारी फातिमा जेहरा नकवी
2594	127363	श्री संदीप पारसमल नहाटा	2656	128251	श्री प्रीतेश गोर्धनमाई हीरापाड़ा
2595	127406	श्री प्रवीणकुमार हसमुखलाल पंछीवाला	2657	128256	श्री असलम अल्ताउद्दीन धमानी
2596	127411	श्री चिराग करण कोठारी	2658	128277	श्री संकेत हेमचन्द्र सुधिता राजे
2597	127418	श्री योकरण सोमनाथ सोलंकी	2659	128333	श्री पवन बंशी परक
2598	127425	कुमारी अंजली बबन पीसल	2660	128344	कुमारी सीमा शिवदास भेंडडकर
2599	127430	श्री नितिन दत्ता ट्रेकर	2661	128346	श्री अतुल रामनारायणजी छपरवाल
2600	127462	श्री अविनाश किशन बालुंज	2662	128347	श्री अभिषेक सज्जनलाल दोसी
2601	127471	कुमारी तेजा शुभानन अजगांवकर	2663	128360	श्री शोमनाथ शाह
2602	127482	श्री पियूष जवाहरलाल घतुर्वेदी	2664	128364	श्री संदीप कुमार अगरवाल
2603	127491	कुमारी मीनाल जनार्दन काम्बले	2665	128365	श्री शेर समंदर खान
2604	127496	श्री गिरीशकुमार राधेश्याम व्यास	2666	128378	श्री चिराग भरतकुमार सरवेया
2605	127497	श्रीमती भावना महेश शिरोडकर	2667	128382	श्री केतुल प्राग्नेश कुमार पटेल
2606	127547	कुमारी हेमा धनराज कांठ्या	2668	128392	कुमारी नुसरत नजरुल्लाह हसन
2607	127552	श्री जिंगनेश प्रफूल रेखा शियाल	2669	128417	श्री राहुल गांधी
2608	127608	श्री मेहुल राजेन्द्र मीना देसाई	2670	128467	श्री अरुण लक्ष्मीनारायण व्यास
2609	127618	श्री प्रणव विमल रावल	2671	128492	श्री महेश कुमार
2610	127619	श्री प्रकाश वासुदेव तिथानी	2672	128520	श्री समीर रमेश डुम्बरे
2611	127684	श्री सुधीर रतिलाल अम्बालिया	2673	128553	श्री चंद्रप्रकाश चिरंजीलाल पारिख
2612	127687	श्री निकित दीपकमाई शाह	2674	128574	श्री कुणाल प्रकाश पोकाळे

2675	128584	श्री नीलेश रघुनाथ देसाई	2737	214580	श्री अनिल कुमार इनानी
2676	128617	श्रीमती अपेक्षा गौतम शाह	2738	215169	श्री हरि बाबू वेदगिरी
2677	128644	श्री नंदन योगेन्द्र भाई मेहता	2739	215273	कुमारी वृंदा पिशाखोदी
2678	128649	श्री गौरव रजनीकांत भुपतानी	2740	215815	श्री रंजीत रविंद्रन
2679	128717	श्री अजीत राजाराम तलगावकर	2741	215998	कुमारी श्वेता शेडटी
2680	128719	श्री नैनीश राजेश गांधी	2742	216895	श्री शंकर नारायण
2681	128745	श्री धृताव्रता विप्लव विश्वास	2743	216809	श्री पुष्पगिरी बी
2682	128773	कुमारी अश्विनी शरद छाया लाड	2744	218737	श्री कसडी उगीने अनाप्या
2683	128792	श्री नित्य प्रकाश लंजेवार	2745	400108	श्री गर्ग राधा मोहन
2684	128856	श्री जितेन्द्र कुमार	2746	400229	श्रीमती सुषमा दीवाकर
2685	128929	कुमारी मौसमी सुधिन कुमार झा	2747	400320	कुमारी जैन अनुपमा
2686	128939	श्रीमती सोनाली वेंकट सारीपल्ली	2748	400334	श्री सिंघल पवन कुमार
2687	128958	श्री वैभव राजेश माहेश्वरी	2749	400678	श्री धनिया मनीष कुमार
2688	128961	श्रीमती मोनिका संजय लोढा	2750	401117	श्री लोढा सुरेश चन्द
2689	200449	श्री घनश्याम बी वैय्या	2751	401220	सुश्री नेगी रुचिरा
2690	200666	कुमारी नागेश्वरी एस	2752	401300	श्री नितेश चौधरी
2691	201425	श्री रमेश एम बी	2753	401361	श्री चतुर्वेदी राहुल
2692	202238	कुमारी अंजना रामासुब्रमनियन	2754	401839	श्री जवारीया वैभव
2693	202501	श्रीमती जाति सुब्रमण्यम अय्यर	2755	402029	श्री जैन मनीष
2694	202511	श्री राम कुमार जे	2756	402040	सीए निधि बियाप्पी श्वरदा
2695	202528	श्री नारायणन एस	2757	402332	श्री सिको
2696	202847	श्री गोपीनाथ कृष्णन	2758	402400	श्री जेतलिया अजय
2697	203185	श्री प्रसन्ना बी	2759	402424	श्री छाबरा प्रमोजोत सिंह
2698	203901	श्री गोपी कृष्णन एमएस	2760	402861	श्री माहेश्वरी भरत श्री
2699	203918	श्री पीके सदागोपन	2761	402947	श्रीमती आहुजा उषा
2700	204375	श्री रविचंद्रन टी	2762	402978	कुमारी जैन चारु
2701	204865	श्री वैद्य प्रमोद यशवंत	2763	403029	कुमारी जैन स्तुति
2702	204910	श्री एस विनोद आनन्द	2764	403037	श्रीमती मोनिका निर्मल गांधी
2703	205086	श्री प्रवीण कुमार जी	2765	403058	श्री सकलेश हेमन्त
2704	205232	श्री कुमार एनवीएसएसजेएलएन	2766	403072	श्रीमती नेहा चौधरी
2705	205358	श्री सुरेश जे	2767	403166	श्रीमती आमा महेश गुप्ता
2706	205520	कुमारी शिवशंकर एस	2768	403177	श्री बहेती शैलेन्द्र
2707	205620	श्री रवींद्रन के	2769	403384	श्री ताज जुहर अली
2708	205668	श्री राजेश एस	2770	403776	श्री शाह नीरज
2709	205705	कुमारी सहना के राव	2771	404349	श्री कालरा सुमीत
2710	205808	कुमारी श्रीप्रिया आर	2772	404386	श्री मंगल गोटी शिव लाल
2711	205897	श्री दामोदर मनोज कुमार	2773	404606	श्री जैन प्रतीक
2712	206199	श्री रघुराज बी	2774	404798	श्रीमती नमता नीरज अग्रवाल
2713	206512	श्री नारायणनआर	2775	404921	श्री बंसल अमित कुमार
2714	206762	श्री शंकर जे	2776	404993	श्री गोयंकायश कुमार
2715	207208	कुमारी अनीताकुमारी एस	2777	405041	श्री मुंदा मनोज कुमार
2716	207440	श्री शाम के	2778	405333	श्री प्रदीप खंडेलवाल
2717	207815	श्री शर्मा अकीला एसआरएस	2779	405471	श्री मोहित कुमार यादव
2718	207995	श्री श्रीनाथ एस	2780	405570	श्री दिगविजय नारायण मिश्रा
2719	208145	श्री हरिचंद्रन दुर्गा प्रसाद	2781	405580	कुमारी शिल्पी सेठ
2720	208988	श्री विक्रम के	2782	405630	श्री नमन खन्ना
2721	209046	श्री कृष्णा प्रसाद सीआर	2783	406111	सीए सुधाकर शर्मा
2722	209521	श्री क्विंसेस वैलेंस	2784	406265	सीए विशाल सिसोदिया
2723	209911	श्री उदय कुमार	2785	407467	सीए राघवेन्द्र पाण्डेय
2724	210236	श्री हरिहरन आर	2786	406819	सीए मनीष कुमार जैन
2725	210589	श्री लक्ष्मीनारायणन हरिहरन	2787	407042	सीए आमा जैन
2726	210648	श्री आतमाकुरी सेरीश	2788	407072	श्री अमित कुमार शर्मा
2727	212382	श्री मनोज महेशकुमार शाह	2789	408226	सीए मुकेश अगरवाल
2728	212396	श्री कृष्णन जी	2790	408614	सीए दीपक कुमार डोलिया
2729	212622	श्री रविकुमार यानामांझा	2791	500067	श्री अरोरा अमित
2730	212715	श्री सत्यनाराण वाई बी	2792	500320	श्री नरेन्द्र शर्मा
2731	212803	श्री कृष्णन आर एस	2793	500653	श्री दिलीप कुमार
2732	212967	कुमारी नंदिनी जी	2794	500765	श्री सिंघानिया राहुल
2733	212993	श्री नरसिम्हा राव मुप्पल्ला	2795	500774	श्री देवन उदित
2734	213404	श्री विकास आर्य	2796	500958	श्री अग्रवाला मुनीष
2735	213848	श्री निजा मुस्लीक बेग	2797	501782	श्री प्रभु अमित
2736	214275	कुमारी उर्मिला श्रीनिवासन	2798	501970	श्री राजीव कुमार

2799	502186	कुमारी बजाज सोनिका	2805	506507	श्री प्रारस कुमार जैन
2800	502803	कुमारी अग्रवाल सविता	2806	506888	कुमारी गायत्री शम्भ
2801	503050	श्री त्रिपाठी प्रदीप रंजन	2807	507689	कुमारी अदिति गुप्ता
2802	504000	श्री रोहित कुमार	2808	507773	कुमारी मिताली कालरा
2803	504687	श्री टिकमानी संदीप कुमार	2809	509618	श्री धीरेन्द्र सुरेशजी भट्टा
2804	506282	कुमारी अनीता अग्रवाल			

टी. कार्तिकेयन
सचिव

कोलकाता-700071, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

3ईसीए/5/1/2009-2010: इस संस्थान की अधिसूचना न. 3ईसीए/04/11/1982-83 दिनांक 31/03/1983, 3ईसीए/04/11/1984-85 दिनांक 31/03/1985, 3ईसीए/04/10/1986-87 दिनांक 27/02/1987, 3ईसीए/ 04/11/1986-1987 दिनांक 31/03/1987, 3ईसीए/ 04/10/1987-88 दिनांक 14/01/1988, 3ईसीए/04/06/1989-90 दिनांक 02/11/1989, 3ईसीए/04/02/1996-97 दिनांक 20/12/1996, 3ईसीए/04/03/1998-99, दिनांक 12/05/1999, 3ईसीए/04/03/2000-01 दिनांक 22/02/2001, 3ईसीए/04/03/2001-02 दिनांक 19/11/2001, 3ईसीए/ 04/03/2002-2003 दिनांक 31/03/2003, 3ईसीए/04/02/2003-04, दिनांक 08/09/2004, 3ईसीए/ 04/03/2004-05, दिनांक 31/01/2005, 3ईसीए/4/5/2005-06 दिनांक 06/04/2006, 3ईसीए/04/04/2006-07 दिनांक 30/11/2006, 3ईसीए/ 04/01/2007-2008 दिनांक 15/12/2008, 3ईसीए/ 04/01/2008-2009 दिनांक 30/09/2009, 3ईसीए/ 04/03/2009 10 दिनांक 06/04/2010, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है की उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे हुई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान	पुनरुद्धार दिनांक	क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान	पुनरुद्धार दिनांक
1.	007782	मि. जेम्स एरोल लिसलि बरकिंसायर	एसीए 04/06/2009	11.	050145	मि. मुघ कुमार कपूर एसीए मुंबई	25/02/2010
2.	008444	मि. नेमे चन्द साहा कोलकाता	एसीए 08/09/2009	12.	050324	मि. चट्टोपाध्याय सजनी तोश एफसीए कोलकाता	01/12/2009
3.	008856	मि. आशुतोष सेन कोलकाता	एफसीए 30/07/2009	13.	050387	मि. दास सुकुमार एसीए मुंबई	22/09/2009
4.	009873	मि. प्रकाश चन्द्र भंडारी कोलकाता	एफसीए 22/06/2009	14.	050399	मि. चटर्जी आसिश कुमार ओक्लैंड	एफसीए 03/03/2010
5.	010570	मि. रावत लक्ष्मी नरेन कोलकाता	एफसीए 07/07/2009	15.	050581	मि. इला सेनगुप्ता कोलकाता	एसीए 04/03/2010
6.	010803	मि. विजय कुमार टेकरीवाल दिल्ली	एफसीए 30/06/2009	16.	050612	मि. शिरो कुमार सरोगी कोलकाता	एफसीए 18/12/2009
7.	019525	मि. नटराजा पिल्ललाई चित्तौड़	एसीए 22/10/2009	17.	050716	मि. प्रत्युष किरण मित्रा कोलकाता	एसीए 22/12/2009
8.	019784	मि. जय कुमार गणेशन हैदराबाद	एसीए 29/12/2009	18.	050906	मि. चन्द्रशेखरन ए कोलकाता	एसीए 11/02/2010
9.	020547	मि. एस साईनाथन मुंबई	एसीए 25/08/2009	19.	050992	मि. चौधरी अचिन्तया दुर्गापुर	एसीए 30/10/2009
10.	022029	मि. विश्वानन्दा शर्मा मुंबई	एसीए 17/12/2009	20.	051421	मि. गुप्ता आदर्श ओटारियो	एफसीए 23/02/2010

21. 051458	मि. असीम कुमार दे	एसीए	11/12/2009	39. 055526	मि. मिश्रा उदयेन्दु	एसीए	01/03/2010
	कोलकाता				कटक		
22. 051627	मि. गांगुली दिपांकर	एसीए	31/12/2009	40. 055535	मि. निलेश मेहता	एफसीए	24/04/2009
	टोरंटो				मेलबोर्न		
23. 051857	मि. टंडन प्रदीप	एसीए	22/02/2010	41. 055686	मि. कुंडु अमितावा	एसीए	19/11/2009
	केमब्रीज				कोलकाता		
24. 052183	मि. मित्रा प्रदीप कुमार	एसीए	20/08/2009	42. 055709	मि. शर्मा मनोज कुमार	एसीए	29/06/2009
	कोलकाता				लोपबरी		
25. 052671	मि. अभिजीत कोनार	एसीए	29/12/2009	43. 055739	मि. संजय कुमार अगरवाल	एफसीए	13/07/2009
	मनामा				कोलकाता		
26. 0552784	मि. अगरवाल केशव	एफसीए	27/01/2010	44. 055742	मि. रंगता राकेश	एफसीए	16/07/2009
	कोलकाता				दुबई		
27. 052924	मि. अवधेश कुमार चौधरी	एफसीए	08/01/2010	45. 055760	मि. चट्टोपाध्याय सौरभ	एसीए	10/09/2009
	कोलकाता				कोलकाता		
28. 052954	मि. बसाक सुमेन्द्र	एसीए	11/02/2010	46. 055848	मि. सुसमिता दत्ता	एसीए	14/04/2009
	कोलकाता				मिसिसागा		
29. 053008	मि. अंचलिया नरेश कुमार	एफसीए	08/05/2009	47. 055881	मि. सरकार नन्दन कुमार	एसीए	10/02/2010
	सुरबाया				गुडगांव		
30. 053522	मि. बासु सैबाल	एसीए	08/05/2009	48. 055960	सीए. राजेन्द्र सिंह	एसीए	22/09/2009
	मस्कैट				कोलकाता		
31. 053595	मि. अगरवाल संभु कुमार	एफसीए	27/10/2009	49. 056395	मि. चक्रवर्ती उदित	एसीए	01/02/2010
	गुडगांव				कोलकाता		
32. 053619	मि. सेन कल्याण	एफसीए	27/08/2009	50. 056425	मि. ओम प्रकाश अगरवाला	एफसीए	22/06/2009
	कनाडा				गुवाहाटी		
33. 053791	मि. कपुर प्रीती	एफसीए	28/01/2010	51. 056533	सीए. सरकार उत्तपल	एसीए	24/04/2009
	कोलकाता				रायपुर		
34. 054062	मि. पाठक इन्द्रजीत	एसीए	24/09/2009	52. 056741	मि. महाराजा पंकज कुमार	एफसीए	28/10/2009
	मुंबई				मुंबई		
35. 054269	मि. बंठिया हरक चन्द	एफसीए	22/02/2010	53. 056751	मि. मेहता संजय	एसीए	16/06/2009
	लंडन				कोलकाता		
36. 054327	मि. बानी प्रसाद आचार्य	एफसीए	02/04/2009	54. 057039	मि. दुंगर सुशील कुमार	एसीए	25/01/2010
	भुवनेश्वर				पर्थ		
37. 054446	मि. साहु अजय कुमार	एसीए	16/10/2009	55. 057078	मि. खान सबाह	एसीए	04/05/2009
	भुवनेश्वर				न्युयार्क		
38. 055062	मि. अलि हुसेन हसन	एफसीए	25/08/2009	56. 057094	मि. सुजित सरकार	एसीए	22/06/2009
	जिनजा				बेंगलोर		

57. 057154	मि. मेहरा राजीव	एसीए	27/10/2009	75. 059503	मि. सुनील झां	एसीए	06/08/2009
	कोलकाता				कोलकाता		
58. 057301	मि. शिवाजी घोष	एसीए	22/06/2009	76. 059731	मि. जीना उपेन्द्र कुमार	एसीए	25/02/2010
	कोलकाता				रुवी		
59. 057427	मिस. मेहता सुची	एसीए	21/12/2009	77. 060064	मि. साधुखान मिलन	एसीए	12/01/2010
	कोलकाता				कोलकाता		
60. 057682	मि. अगरवाल संजय	एसीए	01/06/2009	78. 060173	मि. दमानी मनीष	एसीए	31/08/2009
	कोलकाता				मुंबई		
61. 057883	मि. अगरवाल महेश्वर	एसीए	24/09/2009	79. 060314	मि. सान्यल अनिरबन	एसीए	01/02/2010
	दुबई				कोलकाता		
62. 057897	मि. दत्ता सुदीप्ता नाथ	एसीए	29/12/2009	80. 060368	मि. पटनायक विक्रम	एसीए	05/02/2010
	इवांस्टन				कोलकाता		
63. 057984	मि. दास अरुण कुमार	एसीए	11/06/2009	81. 060419	मिस. सुशमा पटवारी	एसीए	10/06/2009
	बेंगलोर				कोलकाता		
64. 058055	मि. गट्टानी संजय	एसीए	16/02/2010	82. 061017	मि. कोठारी राधे श्याम	एसीए	22/05/2009
	सिंगापुर				रिसड़ा		
65. 058087	मि. कृष्णा कुमार राठी	एफसीए	24/06/2009	83. 061027	मि. परीदा तुसार कान्त	एसीए	17/09/2009
	गुडगांव				मुंबई		
66. 058453	मि. अरिन्दम लहिरी	एफसीए	16/06/2009	84. 061038	मि. खेतान दीपक कुमार	एसीए	29/12/2009
	कोलकाता				हावड़ा		
67. 058559	मि. मोदा नवीन	एसीए	01/01/2010	85. 061080	मि. मनीष पटनी	एसीए	02/07/2009
	न्यू साउथ वेल्स				कोलकाता		
68. 058716	मि. शर्मा मनोज कुमार	एफसीए	14/10/2009	86. 061171	मि. मौ सेनगुप्ता	एसीए	30/06/2009
	एडमीटन				कोलकाता		
69. 058942	मि. सारदा संदीप	एसीए	17/04/2009	87. 061226	मिस. प्ररेणा सोमानी	एसीए	26/11/2009
	दुबई				कोलकाता		
70. 059099	मि. राजाश्री चरण मल्लिक	एफसीए	27/10/2009	88. 061329	मिस. कविता कुमारी	एसीए	04/05/2009
	भुवनेश्वर				न्यू यार्क		
71. 059114	मि. भोला संजय	एसीए	09/07/2009	89. 061446	मि. सेन सुजय	एसीए	07/05/2009
	बेंगलोर				लंडन		
72. 059179	मि. मनीष आर अशोपा	एसीए	19/06/2009	90. 061461	मिस. खेमका अमरिता	एसीए	10/09/2009
	बेंगलोर				कोलकाता		
73. 059246	मि. झुनझुनवाला विवेक	एसीए	29/05/2009	91. 061497	मि. रवल मिहिर	एसीए	28/08/2009
	सलकीट गोवा				रुरकी		
74. 059432	मि. जैन प्रवीन कुमार	एफसीए	15/05/2009	92. 061777	मि. संजय कुमार अगरवाल	एसीए	30/10/2009
	कोलकाता				कोलकाता		

93. 061781	मिस. जैन स्नेहलता एसीए बोथेल	11/12/2009	111. 063787	मि. अगरवाल संदीप एसीए बेंगलोर	10/06/2009
94. 061888	मि. ज्ञानवर भवानी शंकर एसीए कोलकाता	04/06/2009	112. 064023	मि. जैन प्रमोद एसीए कोलकाता	15/10/2009
95. 061916	मिस. बिपासा साधुखान एसीए रिसड़ा	12/01/2010	113. 064047	मि. वर्मा रतन कुमार एसीए हैदराबाद	17/08/2009
96. 061978	मि. सतपथी सुधीर चरण एसीए कोलकाता	18/12/2009	114. 064087	मि. मिश्रा अमित कुमार एसीए मुंबई	02/03/2010
97. 062009	मिस. सोनी प्रीति एसीए बरकेसायर	10/03/2010	115. 064415	मिस. पवन कुमारी राना एसीए देवस	12/11/2009
98. 062020	मि. शर्मा हरकेश एसीए हावड़ा	30/09/2009	116. 064556	मि. मनोज अगरवाल एसीए नियामतपुर	14/10/2009
99. 062021	मिस. भावना डालमिया एसीए कोलकाता	18/12/2009	117. 064566	मि. संदीप कुमार अगरवाल एसीए दुर्गापुर	14/10/2009
100. 062180	मि. अगरवाला आदित्य एसीए कोलकाता	14/01/2010	118. 064572	मि. सौरभ मुखर्जी एसीए हैदराबाद	16/07/2009
101. 062408	मि. गोयेंका आसिश एसीए कोलकाता	09/06/2009	119. 065118	मि. ए बी देबासिस राउत एसीए कटक	08/02/2010
102. 062962	मि. वाराणशी राजेश एसीए पुने	10/06/2009	120. 065187	मि. हनुमान दास राठी एसीए मुंबई	11/12/2009
103. 063091	मि. मिश्रा संजय कुमार एसीए मुंबई	23/10/2009	121. 065363	मि. इब्राहिम लोधगर एसीए कोलकाता	22/12/2009
104. 063123	मि. अगरवाल अमित एसीए बांकुड़ा	29/06/2009	122. 065448	मि. अवधेश कुमार एसीए बेंगलोर	21/07/2009
105. 063127	मि. अगरवाल गौरव एसीए कोलकाता	25/11/2009	123. 065477	मि. अशोक कुमार सिंह एसीए हैदराबाद	14/09/2009
106. 063211	मि. सरकार मानस किशोर एसीए कोलकाता	30/03/2010	124. 065630	सीए. पारुल कुमारी एसीए कोलकाता	23/11/2009
107. 063234	मि. तुलस्यान अनुराग एसीए कोलकाता	31/08/2009	125. 065774	मि. सुसमित बनर्जी एसीए कोलकाता	21/08/2009
108. 063255	मि. मनोत रवि एसीए सिंगापुर	06/04/2009	126. 066148	मिस. स्वेता ढनढनिया एसीए कोलकाता	31/08/2009
109. 063396	मि. केडिया दीपक एसीए बेंगलोर	18/11/2009	127. 066308	मि. संथ कुमार पट्टनायक एसीए भुवनेश्वर	19/05/2009
110. 063658	मि. मिश्रा अंशुमान एसीए भुवनेश्वर	10/07/2009	128. 066420	मि. संदीप कुमार जैन एसीए कोलकाता	12/10/2009

129. 066445	मि. अमित कुमार खतरी एसीए	18/11/2009	136. 091194	मि. विनोद जैन एफसीए	01/12/2009
	राजगंजपुर			कोलकाता	
130. 066488	मि. सुधीर कुमार गिलरा एसीए	22/01/2010	137. 095192	मि. नन्दी राजीव एसीए	23/11/2009
	गुडगांव			केलिफोर्निया	
131. 066538	मि. विशाल अगरवाल एसीए	01/02/2010	138. 121791	मि. मंडुला श्रीनिवास राव एसीए	05/03/2010
	कोलकाता			चेन्नई	
132. 066540	मि. संजय यादव एसीए	30/04/2009	139. 207880	मिस. राजवी पी एसीए	25/03/2010
	पुने			चेन्नई	
133. 072485	मि. सांतनु गांगुली एसीए	24/09/2009	140. 211241	मिस. प्रीति सिंघाल एसीए	20/04/2009
	कोलकाता			कोलकाता	
134. 078735	मि. आदि आदि पारिक एफसीए	08/06/2009	141. 214881	सीए. एस नरेन्द्र पात्रो एसीए	30/09/2009
	गुवाहाटी			दुबई	
135. 088877	मि. गुहा अभिजीत एसीए	10/08/2009	142. 216808	मि. गुडला ताजेश्वर राव एसीए	08/09/2009
	न्यू साउथ वेल्स			जयपुर	

टी. कार्तिकेयन
सचिव

3ईसिए/5/2/2009-2010 : के सन्दर्भ में 3ईसिए/4/1/2008-2009 दिनांक 30/09/ 2009, 3ईसिए/4/1/2008-2009 दिनांक 30/11/ 2009, और 3ईसिए/4/1/2009-2010 दिनांक 31/01/ 2010 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियमों 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद द्वारा यह सुचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम 01/10/ 2008 और 01/10/2009 से पुन स्थापित कर दिया है :-

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान	क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान
1.	003497	मि. पाल सुधीर चन्द्र एफसीए कोलकाता	13.	015649	मि. पाथी भगवान एफसीए बेरहमपुर
2.	003734	मि. भट्टाचार्य नित्यानन्दा एफसीए कोलकाता	14.	016621	मि. नन्दी दीपक कुमार एफसीए हुगली
3.	005376	मि. बासु हिरालाल एफसीए कोलकाता	15.	019175	मि. राजगोपल वी एफसीए गुवाहाटी
4.	008126	मि. प्रसाद अखिलेश्वर एफसीए कोलकाता	16.	042847	मि. वेंकटरम वेंकटेश्वरन एफसीए कोलकाता
5.	008642	मि. तापस कुमार चौधरी एफसीए कोलकाता	17.	050021	मि. अगरवाल सुरेश एफसीए कोलकाता
6.	008894	मि. राय जिवन कृष्णा एफसीए कोलकाता	18.	050136	मि. सिंह विनोद कुमार एफसीए कोलकाता
7.	010801	मि. भिखम चन्द लम्बोरिया एफसीए कोलकाता	19.	050668	मि. भट्टाचार्य संजीव एफसीए कोलकाता
8.	011819	मि. गुप्ता कैलाश चन्द्रा एफसीए कोलकाता	20.	050742	मि. सिन्हा बलाइ लाल एसीए कोलकाता
9.	013087	मि. मानिक चन्द्र भोरा एफसीए गुवाहाटी	21.	050943	मि. नियोगी तरुण कान्ती एफसीए कोलकाता
10.	013358	मि. राम समोखन त्रिपाठी एफसीए मुंबई	22.	051107	मि. जगदीश प्रसाद लहोटी एफसीए कोलकाता
11.	013646	मि. बत्रा नरिन्द्र कुमार एफसीए भुवनेश्वर	23.	051461	मि. रमेश कुमार अगरवाल एसीए कोलकाता
12.	014464	मि. दिलीप कुमार साहा एफसीए कोलकाता	24.	051476	मि. रंजीत सेनगुप्ता एफसीए कोलकाता

25.	052194	मि. जजोडिया विमल कुमार एफसीए हावड़ा	43.	054099	मि. लोबो कृसंथुस एड्रियन एसीए मेलबौन
26.	052345	मि. झुनझुनवाला राजेश एफसीए कोलकाता	44.	054217	मि. अग्रवाल रतन लाल एफसीए ब्रजराजनगर
27.	052354	मि. श्रीकुमार मित्रा एफसीए हावड़ा	45.	054239	मि. सुरेका संजय एफसीए कोलकाता
28.	052371	मि. गुहा मजुन्दार गौतम एसीए कोलकाता	46.	054243	मि. समीर सेनगुप्ता एफसीए कोलकाता
29.	052380	मि. साहा बिश्वनाथ एसीए सोनभद्र	47.	054508	मि. गोयेंका प्रदीप कुमार एसीए कोलकाता
30.	052423	मि. गुप्ता कैलाश कुमार एफसीए कोलकाता	48.	054579	मि. राकेश मोहन बागरी एफसीए राउरकेला
31.	052813	मि. चट्टोपाध्याय अशोक कुमार एफसीए कोलकाता	49.	054661	मि. आसुतोष अगरवाल एफसीए कोलकाता
32.	052949	मि. बर्मन अंजन कुमार एफसीए कोलकाता	50.	054754	मि. दास रंजन एसीए सिंगापुर
33.	053052	मि. दास सुसान्ता कुमार एफसीए हावड़ा	51.	054788	मि. बलसारिया अनिरुद्ध कुमार एफसीए कोलकाता
34.	053406	मि. बिरला विजय कुमार एसीए कोलकाता	52.	054818	मि. नन्दी अभिजीत एसीए कोलकाता
35.	053439	मि. सोदानी तपन एफसीए कोलकाता	53.	054874	मि. जैन अलोक एसीए कोलकाता
36.	053485	मि. अग्रवाल संतोष कुमार एफसीए कोलकाता	54.	054887	मि. साव जयप्रकाश एसीए कोलकाता
37.	053631	मि. नियोगी सोम शंकर एसीए नवी मुंबई	55.	054933	मि. स्वामीनाथन के एन एसीए नवी मुंबई
38.	053730	मि. भट्टाचार्य अलोक एसीए हावड़ा	56.	054939	मि. मेहरा अश्विनी एफसीए कोलकाता
39.	053795	मि. राठी भानवर लाल एफसीए कोलकाता	57.	054945	मि. सेनगुप्ता सैबाल एफसीए कोलकाता
40.	053830	मि. कपूर जतिन एसीए कोलकाता	58.	054989	मि. पांडा उपमन्यु एसीए बेहरामपुर
41.	053840	मिस. मोहता उषा एफसीए कोलकाता	59.	055211	मि. भंसाली नरेश कुमार हिरालाल एफसीए कोलकाता
42.	053919	मि. बुवासिया अनिल एफसीए कोलकाता	60.	055219	मि. देबासिस घोष एफसीए कोलकाता

61.	055488	मि. अगरवाला रतन कुमार एफसीए गुवाहाटी	79.	056792	मि. सेन सुसमित एसीए पुने
62.	055648	मि. जैन संजय कुमार एफसीए कोलकाता	80.	056800	मि. सेठ बकुल कृष्णा एफसीए कोलकाता
63.	055731	मि. गोयल संजय कुमार एसीए हिन्दमोटर	81.	056802	मि. सेनगुप्ता अरिन्दम एसीए कोलकाता
64.	055767	मि. मोहान्ती निरंजन एफसीए कटक	82.	056882	मिस. चौधरी सुमन एफसीए कोलकाता
65.	055909	मि. गुप्ता संजय कुमार एफसीए मुंबई	83.	056931	मि. लहोटी नवीन कुमार एफसीए कोलकाता
66.	056066	मि. संजय पंसारी एसीए रोचेस्टर हिल्स	84.	056999	मि. चक्रवर्ती राजीव एसीए बेंगलोर
67.	056081	मिस. भार्गवा अंजली एसीए केलिफोर्निया	85.	057027	मि. सिंह शिव पुजन एसीए कोलकाता
68.	056097	मि. पोद्दार राजेश एफसीए कोलकाता	86.	057166	मि. प्रदीप कुमार मोदी एफसीए कोलकाता
69.	056129	मि. सराफ सुभाष कुमार एफसीए डानकुनी	87.	057170	मि. झुनझुनवाला निरज कुमार एफसीए कोलकाता
70.	056312	मि. मोहता संतोष कुमार एफसीए कोलकाता	88.	057234	मि. घोष कुबालय एसीए कोलकाता
71.	056322	मि. सुभाष चन्द्र महापात्र एफसीए कोलकाता	89.	057264	मि. समझदार बिपलब एसीए कोलकाता
72.	056461	मि. बरुवा श्रीमन्त प्रसाद एसीए अबु डाबी	90.	057457	मि. सुनन्दाबनर्जीया एफसीए कोलकाता
73.	056504	मि. खेमका विवेक एफसीए कोलकाता	91.	057511	मि. भलोटिया राजेश एसीए कोलकाता
74.	056537	मि. अगरवाल प्रदीप एसीए कोलकाता	92.	057582	मि. गोपालका अरविन्द एफसीए कोलकाता
75.	056580	मि. पानी बना बिहारी एफसीए भुनेश्वर	93.	057585	मि. नवलगरिया संदीप एफसीए कोलकाता
76.	056589	मि. खैतान दिनेश कुमार एसीए कोलकाता	94.	057602	मि. साहा सुजीत एसीए कोलकाता
77.	056737	मि. पानी समरेन्द्र एसीए भुवनेश्वर	95.	057767	मिस. मोरे रशमी एफसीए कोलकाता
78.	056743	मि. दे सुकान्त एफसीए दीमापुर	96.	057770	मि. सिंह अमर एफसीए कोलकाता

97.	057823	मि. चौधरी संदीप एफसीए कोलकाता	115.	059157	मि. चक्रवर्ती स्नेहासिस एफसीए दुबई
98.	057863	मि. राय अमित कुमार एफसीए हैदराबाद	116.	059209	मि. नियोगी कौशतव एसीए मुंबई
99.	057969	मिस. राय दासगुप्ता प्रतिप्रिया एफसीए कोलकाता	117.	059224	मि. कौशिक दत्ता एफसीए कोलकाता
100.	057982	मि. पासरी राजेश एफसीए नोयडा	118.	059348	मिस. गनेरिवाला विनीता एसीए कोलकाता
101.	058038	मि. झावर राजीव एफसीए कोलकाता	119.	059443	मि. सुभेन्दु गोस्वामी एसीए कोलकाता
102.	058044	मि. झुनझुनवाला सुजीत कुमार एफसीए कोलकाता	120.	059557	मि. मिश्रा संजीव कुमार एफसीए कोलकाता
103.	058076	मि. राजेश अगरवाल एफसीए कोलकाता	121.	059679	मि. सिंह दिलीप कुमार एफसीए कोलकाता
104.	058210	मि. कमल सिंह भुटोरिया एसीए कोलकाता	122.	059697	मि. सेन पार्थ सारथी एसीए कोलकाता
105.	058395	मि. खन्ना विकास एसीए मुंबई	123.	059745	मि. मोथरा महेन्द्र कुमार एसीए कोलकाता
106.	058422	मि. मित्रा अनिन्द्या एफसीए कोलकाता	124.	059764	मि. राय प्रदीप एसीए नवी मुंबई
107.	058498	मि. राठी सुशील कुमार एसीए कोलकाता	125.	059772	मिस. शिल्पा लोहिया मोदी एफसीए खड़दा
108.	058621	मि. अगरवाल मनोज कुमार एफसीए कोलकाता	126.	059973	मि. जैन अजय एसीए कोलकाता
109.	058640	मिस श्रीष्टी महेन्सरिया एफसीए कोलकाता	127.	060247	मि. पोद्दार अमित एसीए कोलकाता
110.	058700	मि. चक्रवर्ती पार्थ एफसीए कोलकाता	128.	060283	मिस. बागरी ममता एसीए कोलकाता
111.	058864	मि. सिन्हा रवि आनन्द एफसीए कोलकाता	129.	060286	मि. भटवाल विकास एफसीए कोलकाता
112.	058982	मि. पोद्दार महावीर एसीए राउरकेला	130.	060343	मि. विनय जैन एफसीए न्यु दिल्ली
113.	059071	मि. कांजीलाल संदीपन एसीए कोलकाता	131.	060346	मि. कविराज प्रदीप एसीए कोलकाता
114.	059092	मि. सुभद्रत दत्ता एफसीए कोलकाता	132.	060356	मि. मोहम्मद रियाज एफसीए भुवनेश्वर

133.	060371	मि. निर्मल जगवानी एफसीए कोलकाता	151.	060993	मि. मित्रा सिबासिस एसीए कोननगर
134.	060396	मि. नवीन महेश्वरी एफसीए कोलकाता	152.	061004	मि. रमानी सुधाकर एसीए किंगस्टोन
135.	060433	मि. साहु संतोष कुमार एफसीए भुवनेश्वर	153.	061009	मि. राय चौधरी बप्पादित्या एसीए कोलकाता
136.	060489	मि. कुंद्रा अतुल एसीए दुबई	154.	061240	मि. गुप्ता अनुप एसीए कोलकाता
137.	060493	मिस. ग्रेवाल दविन्द्र कौर एसीए कोलकाता	155.	061245	मि. अनिल कुमार अगरवाल एसीए रिसड़ा
138.	060521	मि. लहोटी विवेक एफसीए कोलकाता	156.	061254	मि. रुपानी दिपेश वी एसीए कोलकाता
139.	060574	मि. हिमांशु शेखर दास एफसीए भुवनेश्वर	157.	061303	मि. घोष जयदीप एसीए गुड़गांव
140.	060593	मि. चन्दक अमित एसीए कोलकाता	158.	061313	मि. प्रधान कानु चरण एसीए भुवनेश्वर
141.	060610	मि. अगरवाल अलोक एसीए कोलकाता	159.	061319	मि. सेन सौभिक एसीए बेंगलोर
142.	060648	मि. विष्णु गोपाल अगरवाल एफसीए कोलकाता	160.	061339	मि. चक्रवर्ती जयदीप एसीए कोलकाता
143.	060661	मि. मिश्रा अचित्या एसीए नैरोबी	161.	061349	मि. रुपांजन भट्टाचार्य एफसीए मुन्द्रा कक्ष
144.	060713	मि. प्रद्युमन बैद्य एफसीए कोलकाता	162.	061385	मि. द्विविजय बनिक चौधरी एसीए कोलकाता
145.	060786	मि. तृप्ति अगरवाल एफसीए कोलकाता	163.	061403	मि. हरलालका अमित एसीए कोलकाता
146.	060826	मि. चौबे संजीव कुमार एसीए तिनसुकिया	164.	061419	मि. गवाल प्रवीन्द्र सिंह एसीए एबट्सफोर्ड
147.	060831	मि. देबासिस मोहान्ती एफसीए भुवनेश्वर	165.	061556	मि. सेथिया मनोज कुमार एसीए कोलकाता
148.	060841	मि. बेहरा महेश्वर एसीए भुवनेश्वर	166.	061662	मिस. गांगुली सास्वती एसीए कोलकाता
149.	060905	मि. इन्द्रदीप सिंह दिल्ली एफसीए कोलकाता	167.	061690	मि. बजरंग लाल अगरवाल एफसीए कोलकाता
150.	060992	मिस. राय चौधरी रितिका एसीए सिंगापुर	168.	061694	मि. सिल पुरनजीत एसीए कोलकाता

169.	061701	मिस. दे ईशना एफसीए कोलकाता	187.	062474	मिस. पेरीवाल रिचा एसीए कोलकाता
170.	061702	मि. घोष सोमक एसीए कोलकाता	188.	062640	सीए. नवीन अगरवाल एफसीए कोलकाता
171.	061976	मि. सोनाथन गोस्वामी एफसीए कोलकाता	189.	062641	मिस. आंचल भट्टेर एफसीए कोलकाता
172.	062002	मि. दुर्गा प्रसाद पटनायक एफसीए भुवनेश्वर	190.	062652	मिस. गुप्ता रानी एसीए नोयडा
173.	062056	मि. अमन अगरवाल एसीए कोलकाता	191.	062664	मि. मौलिक अनिरबन एसीए कोलकाता
174.	062059	मि. फतेपुरिया राहुल एसीए कोलकाता	192.	062729	मिस. बिनीता अगरवाल एफसीए गुवाहाटी
175.	062086	मि. गांगुली इन्द्रनील एसीए न्यु यॉर्क	193.	062877	मि. कोटोकी त्रिसोंकु एसीए दुलियाजन
176.	062137	मिस. ताहुर जहराह एसीए कोलकाता	194.	062911	मिस. उदिता जैन एसीए कलगरी
177.	062161	मि. राजेश चोरिया एफसीए कोलकाता	195.	062935	मिस. अगरवाल मृदु एसीए कोलकाता
178.	062201	मि. पंकज जैन एफसीए कोलकाता	196.	062990	मि. कौशिक राहा एफसीए केलिफोर्निया
179.	062207	मि. अगरवाल विजय एसीए कोलकाता	197.	063000	मिस. सेनगुप्ता रीमा एसीए कोलकाता
180.	062276	मि. सेन सौगता एसीए कोलकाता	198.	063103	मि. अविनाश झा एफसीए लंडन
181.	062313	मि. समबित्त पटनायक एफसीए भुवनेश्वर	199.	063261	मि. पटवारी पवन कुमार एसीए कोलकाता
182.	062382	मि. जैन राकेश एसीए मुंबई	200.	063289	मि. सराफ विकास एसीए बेंगलोर
183.	062419	मि. सौरभ मानस घोष एसीए बेंगलोर	201.	063328	मि. नरेन्द्र मन्थानन एफसीए डलखोला
184.	062459	मि. चक्रवर्ती अरिन्दम एसीए दार्जिलिंग	202.	063336	मि. वरीयर दिलीप एसीए मुंबई
185.	062468	मि. अगरवाल अलोक कुमार एसीए कोलकाता	203.	063433	मि. मिश्रा सुजित कुमार एसीए रांची
186.	062470	मि. जैसवाल पंकज एसीए गुडगांव	204.	063465	मि. साहु आशुतोष एसीए वास्को डा गामा गोवा

205.	063485	मि. सिंह राजविन्द्र एसीए भवनेश्वर	223.	064175	मि. अगरवाल स्वेता एसीए कोलकाता
206.	063487	मि. राकेश सेथिया एसीए कोलकाता	224.	064180	मि. अधिकारी आसिस एसीए कोलकाता
207.	063490	मि. खेमका अंकित एसीए गाजियाबाद	225.	064186	मि. पोद्दार प्रशान्त एसीए कोलकाता
208.	063516	मिस. दास मधुलिका एसीए कोलकाता	226.	064187	मिस. अगरवाल मनीषा एसीए कोलकाता
209.	063587	मि. जावेद शेख मोहम्मद एसीए कटक	227.	064240	मि. मनोज अगरवाल एसीए कोलकाता
210.	063594	मि. बुद्धिया इन्द्र कुमार एसीए कोलकाता	228.	064259	मि. बंग गोपाल एसीए दुर्बई
211.	063676	मि. बेहरा संजीव कुमार एसीए भद्रक	229.	064284	मिस. पूनम खंडेलवाल एसीए बेंगलोर
212.	063706	मि. पटेल पंकज एसीए कोलकाता	230.	064298	मिस. रेशमी बिहानी एसीए कोलकाता
213.	063727	मि. सुजित चौधरी एसीए कोलकाता	231.	064304	सीए. प्रदीप कुमार साहु एसीए भुवनेश्वर
214.	063731	मि. नितिन कुमार एसीए हावड़ा	232.	064336	मि. तारक नाथ दे एसीए कोलकाता
215.	063746	मि. अगरवाल अंशुल एसीए कोलकाता	233.	064425	मि. विनय रूंगता एसीए कोलकाता
216.	063749	मि. भट्टाचार्य अचिन एसीए कोलकाता	234.	064470	मि. अनुराग संघाई एसीए बेंगलोर
217.	063806	मि. विशाल कुमार भरूका एसीए कोलकाता	235.	064587	मि. अमित रूईया एसीए कोलकाता
218.	063893	मि. अगरवाल नितिन कुमार एसीए कोलकाता	236.	064739	मि. संभु नाथ घोष एसीए कोलकाता
219.	063928	मि. अगरवाला उत्तम कुमार एसीए बालुरघाट	237.	064754	मिस. कविता अगरवाल एसीए बराकर
220.	063983	मि. मधुर टीबरीवाल एसीए कोलकाता	238.	064777	मिस. नुतन गाबा एसीए कोलकाता
221.	064066	मि. आचार्य विक्रम एसीए बाली	239.	064829	मि. रवि कुमार झां एसीए गुड़गांव
222.	064113	मि. दीपक चमरिया एसीए कोलकाता	240.	064878	मि. मनीष शर्मा एसीए मखला

241.	065001	मि. आशिस कंडोई एसीए मुंबई	259.	065506	मि. दीपा भुतरा एसीए हिन्दमोटर
242.	065019	मिस. पायल दरुका एसीए कोलकाता	260.	065507	मि. रवि सराफ एसीए हावड़ा
243.	065020	मि. अरुण कंसत एसीए नवी मुंबई	261.	065525	मि. शशि भुषण मिश्रा कोलकाता
244.	065051	मि. अमित कुमार अगरवाल एसीए कोलकाता	262.	065530	मि. मुजीबुर रहमान एसीए कल्याणी
245.	065081	मि. कपीश गुप्ता एसीए कोलकाता	263.	065578	मि. रवि कुमार शर्मा एसीए चेन्नई
246.	065097	मि. विवेक जैन एसीए बेंडल	264.	065598	मि. अभिषेक दुग्गर एसीए कोलकाता
247.	065159	मि. नवीत झावर एसीए कोलकाता	265.	065615	मि. बिजय बगरिया एसीए गुवाहाटी
248.	065205	मि. विशाल कुमार बजाज एसीए कोलकाता	266.	065693	मि. संदीप अग्रवाल एसीए जमशेदपुर
249.	065206	मि. विनय गुप्ता एसीए कोलकाता	267.	065717	मि. राजकमल सिंह एसीए रानीगंज
250.	065279	मि. आशिस झुनझुनवाला एसीए मुंबई	268.	065721	मिस. संगीता बंसल एसीए कोलकाता
251.	065289	मि. नीरज अगरवाल एसीए हावड़ा	269.	065771	मि. बिश्वाजीत कुमार एसीए भागलपुर
252.	065290	मि. सुधीर अग्रवाल एसीए बोलांगीर	270.	065848	मि. गंगेश्वर शर्मा एसीए कोलकाता
253.	065365	मि. विवेक गोयेल एसीए रिसड़ा	271.	065886	सी.ए. किशोर चन्दक एसीए कोलकाता
254.	065394	मि. संजय कुमार सिंह एसीए गुवाहाटी	272.	065942	मि. नितीन कुमार पतोडी एसीए हावड़ा
255.	065439	मिस. निधी अगरवाल एसीए कोलकाता	273.	066005	मि. रंजीत भोतरा एसीए पानीपत
256.	065456	मि. अजय झां एसीए मुंबई	274.	066048	मि. प्रशान्त बियाला एसीए पुने
257.	065457	मिस. नेहा मरोदिया एसीए कोलकाता	275.	066142	मि. चितरंजन साहु एसीए कोलकाता
258.	065459	मि. मनोज कुमार रथ एसीए जयपुर	276.	066182	मि. अमित कुमार मिश्रा एसीए कोलकाता

277.	066184	मिस. सुरुची तुलस्यान ए—सीए कोलकाता	295.	066953	मि. सौरभ पाल एसीए कोलकाता
278.	066205	मि. चार्लस फ्रांसिस एसीए कोलकाता	296.	066974	सीए. किरण दुबे एसीए दिल्ली
279.	066323	मि. चन्द्र शेखर प्रसाद एसीए कोलकाता	297.	067163	मि. नीरज कुमार वर्मा एसीए कोलकाता
280.	066433	मिस. मोनिका गांधी एसीए कोलकाता	298.	067207	मि. मनीष लढा एसीए हावड़ा
281.	066447	मि. विजय कुमार गोयल एसीए कोलकाता	299.	067223	मि. मनीष हरलालका एसीए हावड़ा
282.	066449	मि. बिकास पुरोहित एसीए कोलकाता	300.	067237	मिस. नीलम पटवारी एसीए कोलकाता
283.	066465	मि. कमला कान्त शास्त्री एसीए दुर्गापुर	301.	067260	मि. संभु चौधरी एसीए कोलकाता
284.	066501	मि. विनीत जजोडिया एसीए कोलकाता	302.	067268	मिस. प्रीति प्रियादर्शनी एसीए रायगंज
285.	066523	मिस. मनोरमा कुमारी साव एसीए जमशेदपुर	303.	067289	मि. कृष्णा बहादुर खतरी एसीए काठमांडू
286.	066530	मि. अभिषेक कुमार मुन्का एसीए	304.	067298	मि. आसिस कुमार कर ए—सीए कोलकाता
287.	066639	मि. नीरज भीमसरिया एसीए पुरुलिया	305.	070370	मि. मित्तल कैलाश चन्द्र एफसीए गुवाहाटी
288.	066677	मि. तमाल कुमार नाग एसीए मुंबई	306.	074942	मि. बजाज निर्मल एफसीए कोलकाता
289.	066815	मि. प्रमोद कुमार प्रसाद एसीए दुलियाजन	307.	084228	मि. सिंह हरप्रीत एसीए गुड़गांव
290.	066823	मि. सरोज कुमार पानीग्राही एसीए भुवनेश्वर	308.	095652	मि. बिरेश दास एफसीए भुवनेश्वर
291.	066839	मिस. पुनम जजोडिया एसीए हावड़ा	309.	097487	मि. भुतरा विकास एसीए हिन्दमोटर
292.	066901	सीए. विनीत कुमार सेमानी एसीए पुने	310.	100379	मि. बनर्जी बानी ब्रतो एसीए कोलकाता
293.	066939	मि. पंकज बहेती एसीए कोलकाता	311.	206754	मि. रविचन्द्रन एस एफसीए पोर्टब्लेयर
294.	066941	मि. हरेश पटेल एसीए कोलकाता	312.	212321	मि. पंकज रमेश काबरा एसीए मुंबई

313.	401907	सीए. आनन्द प्रकाश एफसीए कोलकाता	317.	505496	मि. सिंघाल रुपेश कुमार एसीए सिलीगुड़ी
314.	404588	मि. सेक्सरिया अशोक कुमार एसीए कोलकाता	318.	505851	मिस. अमिता बाजपई एसीए लखनऊ
315.	406365	सीए. सुमन्ता राय एसीए कोलकाता	319.	507202	मिस. निकिता सिन्हा एसीए कोलकाता
316.	410104	सीए. स्वाती अग्रवाल एसीए टिटलागढ़			

टी. कार्तिकेयन
सचिव

उपाबंध-‘क’

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई,
पटना, हैदराबाद और चंडीगढ़

221-223, दीनदयाल मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 91-11-23236958-60, 23237772
फैक्स : 91-11-23230831 ग्राम आडिट
ई-मेल : tvand@vsnl.com
: tvande@rediffmail.com

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट

- हमने 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद् के संलग्न तुलनपत्र की और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उससे संलग्न आय और व्यय लेखा की भी लेखा परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण संस्था के प्रबंध-मंडल की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित राय व्यक्त करना है।
- हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस तरह से योजना बना कर करें कि जिससे समुचित रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण तात्त्विक रूप से गलत विवरणों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा के अंतर्गत, परीक्षण के आधार पर, ऐसे साक्ष्य की परीक्षा करना है जो वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रगटनों का समर्थन करते हों। लेखा परीक्षा में प्रबंध मंडल द्वारा प्रयुक्त लेखा करण सिद्धान्तों और किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण करना और साथ ही प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन करना भी है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रदान करती है।
- निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है :-
अनुसूची-15 का टिप्पण सं. 4 तारीख 31-3-2010 की स्थिति के अनुसार प्रादयवन आधार पर 1,64,30,216 रु. की रकम की पेंशन निधि की देनदारी के लिए प्रावधान की कमी के संबंध में है।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त, हमारा यह कथन है कि :
क) हमने वे सभी जानकारीयाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
ख) हमारी राय में, परिषद् द्वारा, विधि द्वारा यथा अपेक्षित, समुचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी परीक्षा से दर्शित होता है; और
ग) इस रिपोर्ट में बताई गई वित्तीय स्थिति का विवरण और आय-व्यय लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है।
- ऊपर पैरा (3) में अंतर्विष्ट मद, जिसकी ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है, और आस्तियों, देनदारियों के मूल्य, आय और व्यय की मात्रा और समायोजन के पारिणामिक प्रभाव के अधीन रहते हुए, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखाकरण नीतियों और उन पर टिप्पणों के साथ पठित उक्त लेखा :
क) तुलनपत्र की दशा में, 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार संस्था की गतिविधियों का; और
ख) आय और व्यय लेखा की दशा में, उस तारीख को समाप्त वर्ष में बचत का
भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही और सत्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

ह. / -

(एम.पी. ठाकुर)

भागीदार

एम. नं. 52473

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 26-9-2010

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

अनुसूची	31.3.2010 को रु.	31.3.2009 को रु.
निधियों के स्रोत :		
मुख्य निधि 1	77968883.41	60107083.98
आवंटित निधि 2	93880511.23	73555200.23
अस्तियां निधि (सहायता अनुदान) 3	17826834.00	17931290.00
ऋण एवं अग्रिम 4	20,00,000.00	2,000,000.00
संबद्ध संस्थाओं से प्रतिभूति निक्षेप	63200000.00	56800000.00
योग	254876228.64	210393574.21
निधियों का उपयोगन :		
स्थिर आस्तियां 5		
सकल ब्लाक	41593963.82	24752483.34
घटाइए : अवक्षयण	18245805.97	17792668.49
शुद्ध ब्लाक	23348157.85	6959814.85
आवंटित निवेश 6	93880511.23	73555200.23
अन्य निवेश		
अनुसूचित बैंको में जमा रकम 7	119542006.00	101866772.00
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम 8	47451247.99	46954904.56
घटाइए : चालू दायित्व और प्रावधान 9	14510694.43	3283117.43
शुद्ध : चालू अस्तियां	32940553.56	43671787.13
घटाइए : अग्रिम रूप में प्राप्त निरीक्षण फीस	14835000.00	18105553.56
योग	254876228.64	210393574.21
लेखाओं और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों पर टिप्पणी 15		
अनुसूची 1 से 15 लेखा के अभिन्न अंग हैं।		
सम संख्यांक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार		
कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स		
ह/-		
(एम. पी. ठाकुर)		
भागीदार	ह/-	ह/-
स्थान : नई दिल्ली	लेखा अधिकारी-सह-	सहायक सचिव
तारीख : 26-9-2010	सहायक सचिव, भा. वि. प.	भा. वि. प.
		अध्यक्ष
		भा. वि. प.

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

	अनुसूची	चालू वर्ष रु.	पूर्व वर्ष रु.
आय			
फीस	10	10274169.43	8425421.15
निरीक्षण फीस		27720000.00	20150000.00
सहायता अनुदान		188100.00	700000.00
रजिस्ट्रेशन फीस		20000.00	45000.00
भवन लाइसेंस फीस		3101000.00	638640.00
अन्य आय	11	11851512.00	10934627.31
योग		53154781.43	40893688.46
व्यय			
वेतन, भत्ते और कर्मचारी सुविधाएं	12	17089173.00	12536280.00
स्थापन और अन्य व्यय	13	7102761.00	6367536.00
परिषद की गतिविधियां और बैठक व्यय	14	11661549.00	8960029.00
विधि शिक्षा निदेशालय पर व्यय से अंतरित रकम		540186.00	—
विधि पुस्तकों का दान		190000.00	693754.00
अवक्षयण	5	996744.00	826950.00
घटाइए : आस्तियां निधि अनुदान		<u>104456.00</u>	<u>219023.00</u>
योग		37475957.00	29165526.00
घटाइए : कल्याण निधि से			
प्रशासन व्यय के लिए वसूली		(-)2182975.00	1414109.00
(देखिए 2(ii)(ख), अनुसूची-15)		<u>35292982.00</u>	<u>27751417.00</u>
मुख्य निधि से अंतरित			
वर्ष की बचत		<u>17861799.43</u>	<u>13142271.46</u>
लेखाओं और महत्वपूर्ण लेखाकरण			
नीतियों पर टिप्पणी	15		
अनुसूची 1 से 15 लेखा की अभिन्न अंग है।			
सम संख्यांक तारीख			
की हमारी रिपोर्ट के			
अनुसार			
कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.			
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स			
(एम. पी. ठाकुर)			
भागीदार	ह/-	ह/-	ह/-
स्थान : नई दिल्ली	लेखा अधिकारी-सह	सहायक सचिव	अध्यक्ष
तारीख : 26-9-2010	सहायक सचिव, भा. वि. प.	भा. वि. प.	भा. वि. प.

अनुसूची-1		
मुख्य निधि		
	31.3.2010 को रु.	31.3.2010 को रु.
अंतिम तुलन पत्र के		
अनुसार अतिशेष	60107083.98	46964812.52
जोड़िए: वर्ष की बचत/कमी	17861799.43	13142271.46
योग	77968883.41	60107083.98

अनुसूची-2			
आबंटित निधियाँ	31.3.2010 को रु.	31.3.2009 को रु.	
कल्याण निधि			
(i) 1.4.2009 को अतिशेष	53554950.77	45386496.77	
जोड़िए: आय			
राज्य विधिल्ल परिषद से अभिदाय	10914874.00	7070542.00	
प्राप्त ब्याज	5481057.00	4054121.00	
प्रकीर्ण प्राप्तियाँ	7000.00	38250.00	
	16402931	11162913.00	
घटाइए : अधिवक्ताओं को सहायता	1973500.00	1575000.00	
बैंक प्रभार	7977.00	5350.00	
प्रशासन व्यय (आय और व्यय	2182975.00	1414109.00	8168454.00
लेखा के अनुसार)			
	65793429.77	53554950.77	
भविष्य निधि			
(ii) अंतिम तुलनपत्र के अनुसार	4739772.52	5798537.93	
जोड़िए : कर्मचारियों का चंदा	462942.00	410678.00	
जोड़िए : कर्मचारियों का स्वेच्छिक चंदा	504000.00	417000.00	
जोड़िए : ब्याज में कमी की पूर्ति के	—	95472.00	
लिए भा.वि.प. से प्राप्त अभिदाय			
जोड़िए : प्राप्त ब्याज	436848.00	426590.27	
	6143562.52	7148278.20	
घटाइए : स्थायी आहरण	—	900000.00	
घटाइए : वर्ष के दौरान संदाय	—	1508505.68	4739772.52
उपदान निधि			
(iii) अंतिम तुलनपत्र के अनुसार	3745476.94	3507724.57	
जोड़िए : अभिदाय	2118536.00	663290.00	
(देखिए अनुसूची 15 का टिप्पण			
सं. (3))			

जोड़िए : प्राप्त ब्याज	259910.00		220419.37	
घटाइए : सदस्यों को संदाय	628085.00	5495837.94	645957.00	3745476.94
पेंशन निधि				
(iv) अंतिम तुलनपत्र के अनुसार	11515000.00		6966577.00	
जोड़िए : अभिदाय/प्रावधान	4681342.00		4093649.00	
(देखिए अनुसूची 15 का टिप्पण सं. (4))				
जोड़िए : प्राप्त-ब्याज	865245.00		664294.00	
	17061587.00		11724520.00	
घटाइए : पूर्व सदस्यों/आश्रितों को संदाय	613906.00	16447681.00	209520.00	11515000.00
योग		93880511.23		73555200.23

अनुसूची-3

	31.3.2010 को रु.	31.3.2009 को रु.
अस्तियां निधि		
(सहायता अनुदान) 1.4.2009 को अतिशेष	17931290.00	851404.00
जोड़िए:विधि और न्याय		
मंत्रालय विधि कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त सहायता अनुदान	—	17298909.00
(अनुसूची 15 का टिप्पण सं. 7 देखिए)		
	17931290.00	18150313.00
घटाइए : आय और व्यय लेखा में अंतरित		
अवक्षयण की रकम	104456.00	219023.00
योग	17826834.00	17931290.00

**अनुसूची-4
ऋण और अग्रिम**

	31.3.2010 को रु.	31.3.2009 को रु.
ऋण और अग्रिम		
भारतीय विधिज्ञ परिषद्		
न्यास से अग्रिम	20,00,000.00	20,00,000.00
योग	20,00,000.00	20,00,000.00

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अनुसूची-5

(स्थिर आस्तियाँ)

स्वयं की निधियाँ

(रकम रुपये में)

क्र. सं.	विशेषियाँ	अवक्षण की दर (%) वार्षिक)	सकल बलाक			अवक्षयण					शुद्ध बलाक	
			1.4.2009 को (1)	संवर्धन/ अपवर्धन (2)	विक्रय/ विनिमय/ समायोजन (3)	31.3.2010 को (4)=(1)+(2)-(3)	1.4.2009 को (5)	वर्ष 2009-10 के लिए (6)	अवक्षयण समायोजित (7)	31.3.2010 को (8)=(5)+(6)-(7)	31.3.2010 को (9)=(4)-(8)	31.3.2009 को (10)
1.	भूमि	—	42,030.00	—	—	42,030.00	—	—	—	—	42,030.00	42,030.00
2.	भवन	10%	15,047,055.40	—	—	15,047,055.40	11,649,910.06	3,397,150.00	—	11,649,910.06	3,057,430.34	3,397,145.34
3.	लिफ्ट	15%	6,953,616.63	—	—	6,953,616.63	6,721,051.13	3,488.00	—	6,721,051.13	1,976,850.50	2,325,650.50
4.	फर्नीचर और फिटिंगें	10%	982,299.54	—	—	982,299.54	6,848,531.02	2,974,500.00	1,946.52	6,848,531.02	2,677,015.48	2,974,446.54
5.	बिजली की फिटिंगें	10%	31,824,455.55	9,027.00	26,094.00	30,117,755.55	22,690,700.00	1,003,360.00	26,094.00	21,089,490.00	9,032,835.55	9,133,755.55
6.	कार्यालय उपस्कर	15%	7,49,867.90	2,448.00	23,305.00	541,344.90	53,961,030.00	3,394,700.00	23,305.00	34,052,300.00	2,007,926.60	21,025,760.00
7.	एयर कंडीशनर/कूलर	15%	5,72,754.32	—	14,163,600.00	431,118.32	44,200,000.00	1,961,300.00	14,163,600.00	31,997,700.00	11,141,432.00	13,075,432.00
8.	रेफ्रिजरेटर/गैस	15%	17,580.00	1,690.00	—	34,480.00	1,704,500.00	261,500.00	—	1,966,000.00	1,482,000.00	535,000.00
9.	कार्यालय साइकिल	15%	5,231.00	—	—	5,231.00	785.00	667.00	—	14,520.00	3,779.00	4,446.00
10.	पुस्तकें और प्रकाशन	100%	12,297,720.00	—	—	12,297,720.00	12,297,720.00	—	—	12,297,720.00	—	—
11.	डी.जी. सेट	15%	12,342,500.00	—	—	12,342,500.00	11,847,100.00	4,954.00	12,342,500.00	—	—	4,954.00
12.	कम्प्यूटर्स	60%	4,98,722.00	11,088,000.00	—	16,075,722.00	4,626,360.00	3,542,920.00	—	8,167,280.00	7,90,594.00	3,60,860.00
13.	वाटर कूलर	15%	11,094,480.00	—	—	11,094,480.00	2,932,400.00	1,224,400.00	—	41,568.00	69,380.00	81,624.00
14.	ट्रांसफार्मर	15%	1,06,984,460.00	—	—	1,06,984,460.00	8,633,990.00	3,09,670.00	—	8,94,366.00	17,54,800.00	20,64,470.00
15.	अग्निशामक उपस्कर	15%	13,66,550.00	—	—	13,66,550.00	10,441,430.00	4,83,610.00	—	10,92,504.00	27,40,460.00	32,24,070.00
16.	डिजिटल कैमरा	15%	11,850.00	—	—	11,850.00	889.00	1,644.00	—	2,533.00	9,317.00	10,961.00
	योग (क)		21,734,737.34	11,59,209.00	54,360,652.00	22,35,039,820.00	1,68,75,049.49	8,92,288.00	54,360,652.00	17,22,730.97	51,26,608.85	48,59,687.85
	पूर्व वर्ष		21,52,104,534.00	44,87,840.00	23,50,920.00	21,734,734.34	1,65,02,144.49	60,79,270.00	23,50,920.00	1,68,75,049.49	48,59,687.85	

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अनुसूची-5

स्थिर अस्तित्वां-(सहायता अनुदान) (रकम रु. में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	सकल ब्लाक			अवक्षयण				शुद्ध ब्लाक		
		1.4.2009 को (1)	परिवर्धन/अपवर्धन (2)	समायोजन (3)	31.3.2010 को (3)=(1)+(2)	1.4.2009 को (4)	वर्ष 2009-2010 के लिए (5)	समायोजन (5)	31.3.2010 को (6)=(4)+(5)	31.3.10 को (7)=(3)+(6)	31.3.09 को (8)
1.	भवन	410297.00	—	—	410297.00	62851.00	34745.00	—	97596.00	312701.00	347446.00
2.	फर्नीचर और फिटिंगे	184625.00	—	—	184625.00	42426.00	14220.00	—	56646.00	127979.00	142199.00
3.	एयर कंडीशनर/कूलर	105746.00	—	—	105746.00	30416.00	11300.00	—	41716.00	64030.00	75330.00
4.	पुस्तकें और प्रकाशन	286904.00	—	—	286904.00	286904.00	—	—	286904.00	—	—
5.	कम्प्यूटर्स	568674.00	—	—	568674.00	495022.00	44191.00	—	539213.00	29461.00	73652.00
	योग (ख)	1556246.00	—	—	1556246.00	917619.00	104456.00	—	1022075.00	534171.00	638627.00
	पूर्व वर्ष	1550000.00	6246.00	—	1556246.00	698596.00	219023.00	—	917619.00	—	—
	सकल योग (क+ख)	2329983.34	1159209.00	543606.52	23906585.82	17792668.49	996744.00	543606.52	18245805.97	5660779.85	5498314.85
	पूर्व वर्ष	23071045.34	455030.00	235092.00	2329983.34	17200810.49	826950.00	235092.00	17792668.49	5498314.85	—
(ग) पूंजी-कार्य प्रगति पर		1461500.00	16225878.00	—	17687378.00	—	—	—	—	17687378.00	1461500.00
(मवन नवीनीकरण)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सकल योग (क+ख+ग)		24752483.34	17385087.00	543606.52	41593963.82	17792668.49	996744.00	543606.52	18245805.97	23348157.85	6959814.85
पूर्व वर्ष		23071045.34	1916530.00	235092.00	24752483.34	17200810.49	826950.00	235092.00	17792668.49	6959814.85	5870234.85

भारतीय विधिज्ञ परिषद् अनुसूची-6			
	31.3.2010 को रु.	31.3.2009 को रु.	
आर्बिट्रि निवेश			
(i) कल्याण निधि निवेश			
यूको बैंक बचत खाता सं. 9363 में अतिशेष	851217.99	454882.99	
यूको बैंक में सावधिक जमा	27829405.00	16331950.00	
सेन्ट्रल बैंक में सावधिक जमा	2943028.00	2943028.00	
भा. स्टेट बैंक में सावधिक जमा	13365553.00	15959889.00	
सिंडीकेट बैंक में सावधिक जमा	6627655.00	5074580.00	
इलाहाबाद बैंक में सावधिक जमा	6460789.00	5725046.00	
उद्भूत ब्याज	1761776.00	6953429.00	
सा.ज.यो-सावधिक जमा रसीदों पर ब्याज	455822.00	—	
विविध देनदार-भा.वि.प.	5498183.78	112145.78	
		65793429.77	53554950.77
(ii) भविष्य निधि निवेश			
यूको बैंक बचत खाता सं. 261025 में अतिशेष	1506319.68	292430.68	
यूको बैंक में विशेष जमा	1190217.00	1190217.00	
यूको बैंक-सावधिक जमा रसीदें	1755548.00	854828.00	
सेन्ट्रल बैंक में सावधिक जमा	—	—	
सिंडीकेट बैंक में सावधिक जमा	1475651.00	1129858.00	
भारतीय स्टेट बैंक में सावधिक जमा	—	500000.00	
भ. नि. ऋण	160987.29	282347.29	
उद्भूत ब्याज	32747.55	490091.55	
सा.ज.यो-सावधिक जमा रसीदों पर ब्याज	22092.00	—	4739772.52
		6143562.52	
(iii) उपदान निधि निवेश			
यूको बैंक बचत खाता सं. 440 में अतिशेष	792430.34	1009990.34	
यूको बैंक में विशेष जमा	318433.00	318433.00	
यूको बैंक में सावधिक जमा	2233927.00	1728423.00	
उद्भूत ब्याज	12711.60	321700.60	
भा.वि.प. से शोध्य	2118536.00	366930.00	
सा.ज.यो-सावधिक जमा रसीदों पर ब्याज	19800.00	—	3745476.94
		5495837.94	
(iv) पेंशन निधि निवेश			
केनरा बैंक बचत बैंक खाता सं. 19116 में अतिशेष	150184.00	78298.00	
सिंडीकेट बैंक में सावधिक जमा	300000.00	300000.00	
सेन्ट्रल बैंक में सावधिक जमा	3077857.00	3077857.00	
केनरा बैंक में सावधिक जमा	5863701.00	3863701.00	
इलाहाबाद बैंक में सावधिक जमा	539838.00	427000.00	
भारतीय स्टेट बैंक में सावधिक जमा	—	450000.00	
यूको बैंक में सावधिक जमा	1100032.00	1100032.00	
उद्भूत ब्याज	1278331.00	704320.00	
भारतीय विधिज्ञ परिषद् से शोध्य	4107554.00	1513792.00	
सा.ज.यो-सावधिक जमा रसीदों पर ब्याज	30184.00	—	11515000.00
		16447681.00	
योग		93880511.23	73555200.23

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-7

अन्य निवेश	31.3.2010 को रु.	31.3.2009 को रु.
भारतीय विधिज्ञ परिषद् के लिए		
बैंकों में सावधिक जमा		
इलाहाबाद बैंक	3134996.00	3000000.00
सैंट्रल बैंक	3757020.00	3757020.00
केनरा बैंक	10989048.00	4356644.00
यूको बैंक	7911639.00	6067205.00
भारतीय स्टेट बैंक	—	2000000.00
सिंडीकेट बैंक	2500000.00	2500000.00
	28292703.00	21680869.00
विधि शिक्षा के लिए		
यूको बैंक	3087751.00	587751.00
केनरा बैंक	4749141.00	7873167.00
सैन्ट्रल बैंक	2427480.00	2427480.00
भारतीय स्टेट बैंक	3285783.00	2584691.00
सिंडीकेट बैंक	4896500.00	3749091.00
इलाहाबाद बैंक	5484709.00	4742000.00
	23931364.00	21964180.00
विधि महाविद्यालयों से प्रतिभूत		
निक्षेप (संबद्धता) के लिए		
केनरा बैंक	12263639.00	7863639.00
सैंट्रल बैंक	7244877.00	7244877.00
यूको बैंक	11914115.00	10885139.00
भारतीय स्टेट बैंक	11707368.00	12207368.00
सिंडीकेट बैंक	12381700.00	8481700.00
इलाहाबाद बैंक	11806240.00	11539000.00
	67317939.00	58221723.00
योग	119542006.00	101866772.00

**भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-8**

चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

	31.3.2010 को रु.	31.3.2009 को रु.
चालू आस्तियां		
क) लागत पर पुस्तकों का स्टाक (प्रबंध मंडल द्वारा यथा प्रमाणित)	121168.00	51328.00
ख) नकद और बैंक अतिशेष		
नकद हाथ में	166371.25	80218.25
केनरा बैंक-31050	3569490.99	3044073.99
यूको बैंक-132	670581.81	877726.81
केनरा बैंक-31065	4661186.90	1832468.90
केनरा बैंक-31313 (अनुदान)	193310.00	193310.00
सिंडीकेट बैंक-24171010000239 (अनुदान)	1005053.00	15841695.00
सिंडीकेट बैंक-24171010000258 (डीएलई)	1863759.00	—
विभिन्न राज्यों के अनुसूचित बैंकों में अतिशेष	14231612.84	7249459.41
	26361365.79	29118952.36
ग) प्राप्य रकम		
(i) निवेशों पर उद्भूत ब्याज	9280315.00	15284801.00
साज्यो-सावधिक जमा रसीदों पर ब्याज	1044020.00	—
(ii) राज्य विधिज्ञ परिषदों से	81314.20	81314.20
(iii) विविध देनदार-न्यास	42438.00	38971.00
(iv) प्राप्य निरीक्षण फीस	—	—
(v) प्राप्य रकम-बैंक	7706661.00	—
(vi) प्राप्य रकम-ठेकेदार	63781.00	—
	18218529.20	15405086.20
घ) ऋण और अग्रिम		
(i) स्टाफ को ऋण (आवासन, विवाह और अन्य)	859629.00	868152.00
(ii) अग्रिम-सदस्य	193540.00	31500.00
— स्टाफ	320124.00	167681.00
— अन्य	77645.00	7200.00
(iii) पूर्व संदत्त व्यय	68830.00	74588.00
(iv) प्रतिभूति निक्षेप (डेसू और दि.न.नि.+दि.वि.बो. और टेलीफोन (रिलायंस) के पास)	1230417.00	1230417.00
योग	2750185.00	2379538.00
	47451247.99	46954904.56

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-9

चालू दायित्व और प्रावधान

	31.3.2010 को रु.	31.3.2009 को रु.
विविध लेनदार	426989.00	133335.00
उपदान निधि को देय	2118536	366930.00
अनु. समिति जमा फीस	1016764.65	968814.65
विधि मंत्रालय से-अप्रयुक्त सहायता अनुदान	188100.00	188100.00
कल्याण निधि को देय	5498183.78	112145.78
पेंशन निधि को देय	4107554.00	1513792.00
अग्रिम धन (ठेकेदार)	350000.00	—
प्रतिभूति निक्षेप (ठेकेदार)	804567.00	—
योग	14510694.43	3283117.43

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-10

फीस

	चालू वर्ष रु.	पूर्व वर्ष रु.
नामांकन फीस	8881852.43	7198731.15
सदस्यता फीस/स्थानांतरण फीस	650595.00	531945.00
अनुशासन समिति और अन्य फीस	741722.00	694745.00
योग	10274169.43	8425421.15

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-11

अन्य आय

	चालू वर्ष रु.	पूर्व वर्ष रु.
सावधिक जमा रसीदों पर ब्याज	11524461.00	8962706.00
ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	78411.00	71307.00
प्रकीर्ण आय	248640.00	35834.31
मुजरा किए गए व्ययों के लिए	—	1864780.00
अतिरिक्त प्रावधान		
योग	11851512.00	10934627.31

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-12

व्यय

	चालू वर्ष रु.	पूर्व वर्ष रु.
वेतन, भत्ते और कर्मचारी सुविधाएं		
स्थापन / वेतन	8930934.00	6518707.00
(देखिए: अनुसूची 15 का टिप्पण-5)		
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	322757.00	362837.00
बोनस	48356.00	65135.00
छुट्टी का नकद भुगतान	519730.00	656584.00
छुट्टी यात्रा रियायत	123907.00	5674.00
भविष्य निधि खाता में परिषद् का		
अभिदाय (ब्याज की कमी के लिए)	—	95472.00
उपदान निधि खाते में		
परिषद् का अभिदाय	2118536.00	366930.00
पेंशन निधि खाते में	4681342.00	4093649.00
परिषद् का अभिदाय		
(देखिए: अनुसूची 15 का टिप्पण 4(i))		
स्टाफ को सवारी भत्ता	343611.00	371292.00
	<u>17089173.00</u>	<u>12536280.00</u>

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-13

स्थापन और अन्य व्यय		
शुल्क और कर (नगरपालिक करों सहित)	79023.00	79023.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	626597.00	506303.00
जल और विद्युत	998421.00	916528.00
विज्ञापन/राजपत्र अधिसूचना	557165.00	282304.00
डाक महसूल, तार और टेलीफोन	459583.00	416436.00
साधारण मरम्मत	131049.00	229026.00
न्यायालय कार्यवाहियां/आय कर	259209.00	251154.00
फीस/वृत्तिक व्यय		
पत्र पत्रिकाएं और जर्नल	2432.00	2191.00
लेखा परीक्षा फीस	27393.00	26574.00
वेबसाइट फीस	—	200000.00
बैंक प्रभार	14072.00	20485.00
प्रकीर्ण व्यय	312564.00	181227.00
राज्य विधिज्ञ परिषदों को अभिदाय	475000.00	300000.00
भा.वि.प. न्यास को अभिदाय	2570000.00	2470000.00
संगोष्ठी व्यय	—	317434.00
सम्मेलन व्यय		
सम्मान समारोह व्यय	42858.00	7085.00
आई बी ए को चंदा	—	—
सुरक्षा प्रभार	158006.00	112106.00
आई आई सी को चंदा	22060.00	11236.00
बीमा प्रीमियम	30007.00	38424.00
मनुपत्र को चंदा	25000.00	—
भवन अनुज्ञप्ति फीस पर सेवा कर	312322.00	—
	<u>7102761.00</u>	<u>6367536.00</u>

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
अनुसूची-14

परिषद् के कार्यकलापों और बैठकों पर व्यय

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	रु.	रु.
यात्रा-परिषद्	3021311.00	2791243.00
यात्रा-अनुशासन समिति बैठक	2050442.00	1223882.00
यात्रा-निरीक्षण	5527298.00	4617943.00
यात्रा-विधि शिक्षा बैठकें	960234.00	248510.00
बैठक व्यय	102264.00	78451.00
योग	<u>11661549.00</u>	<u>8960029.00</u>

भारतीय विधिज्ञ परिषद् अनुसूची-15

31 मार्च, 2010 को लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पण

लेखाकरण नीतियां

1. आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है किंतु कल्याण निधि के लिए अभिदायों को रसीद आधार पर लेखागत किए जाने पर मान्यता दी जाती है और विधि महाविद्यालयों के लिए निरीक्षणफीस और उसके व्ययों को विधि महाविद्यालयों के निरीक्षण पर मान्यता दी जाती है।

2. **निधि :** “निधि” शब्द का प्रयोग इस आशय को प्रकट करने के लिए किया गया है कि अतिशेष अंततः निवेश किए जाने के लिए रखे गए हैं।

(i) मुख्य निधि

मुख्य निधि विधि महाविद्यालयों और अन्य से प्राप्त दानों को तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् की वार्षिक बचत / घाटा को दर्शित करती है।

(ii) कल्याण निधि

(क) कल्याण निधि से भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के अनुसार अधिवक्ताओं से प्राप्त अभिदाय को व्यपदिष्ट करती है।

(ख) राज्य विधिज्ञ परिषदों से प्राप्त कल्याण निधि अभिदाय के 20% को प्रशासनिक व्ययों की वसूली के रूप में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के आय और व्यय खाते में जमा किया जाता है।

3. ब्याज :

(i) किसी विनिर्दिष्ट निधि से संबंधित ब्याज को तत्संबंधी निधि लेखा में जमा किया गया है।

(ii) अनुसूचित बैंकों की सावधिक जमा रसीदों पर वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज की आय साधारण ब्याज दर पर आंकी गई है।

4. स्थिर आस्तियां :

स्थिर आस्तियों को अर्जन की लागत पर बताया जाता है जिसमें ऐसे अर्जन से संबंधित आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा उससे संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्यय भी सम्मिलित है।

5. अवक्षयण :

स्थिर आस्तियों पर अवक्षयण को, आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन विहित की गई दरों पर घटाकर लिखी गई मूल्य पद्धति के आधार पर, दिया जाता है।

6. सहायता अनुदान :

(क) सरकारी अनुदानों को आय के रूप में प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है और उससे उपगत व्ययों को व्यय के रूप में दिखाया जाता है। अप्रयुक्त रकम को वर्ष के अंत में दायित्व के रूप में माना जाता है।

(ख) विनिर्दिष्ट स्थिर अस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय माना जाता है जिसे लेखा में आस्तियों के उपयोगी होने तक व्यवस्थित और युक्तिमूलक आधार पर मान्यता दी जाती है।

7. निवेश :

निवेशों को “दीर्घ कालिक निवेशों” के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें लागत आधार पर अग्रणीत किया जाता है क्योंकि सभी निवेश अनुसूचित बैंकों में सावधिक निक्षेपों के रूप में रखे गए हैं।

8. सेवानिवृत्ति फायदे

(i) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों के पेंशन सह कुटुंब पेंशन नियम तारीख 1.4.2002 से भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों को लागू कर दिए गए हैं। तदनुसार “भारतीय विधिज्ञ परिषद्-अभिदायी भविष्य निधि” को रोक दिया गया है और उसके स्थान पर ‘पेंशन निधि’ आरम्भ की गई है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अभिदायी भविष्य निधि में इसके पूर्व किए गए अभिदाय और उपगत ब्याज को पेंशन निधि में अंतरित कर दिया है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् अपना अभिदाय इस निधि में विनिर्दिष्ट दर पर करती है।

(ii) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों के साधारण भविष्य निधि खाते में कर्मचारियों के चंदे की रकम, वेतन को लागू दर पर उस पर उद्भूत ब्याज सहित जमा होती है।

(iii) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने “उपदान निधि” नामक एक विशेष निधि का गठन किया है। इस निधि में पात्र वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अभिदाय किया जाता है। निधि का प्रशासन परिषद् द्वारा नियुक्त न्यासियों द्वारा किया जाता है।

(iv) छुट्टी के नगद भुगतान का, संदाय आधार पर, लेखाकरण किया जाता है।

(ख) लेखाओं पर टिप्पण

1. भवन के नवीनीकरण के लिए कार्य अभी निष्पादित नहीं हो पाया है और उसके लिए संविदा की प्रकलित रकम की व्यवस्था नहीं हुई है। कम अग्रिम जो 43,58,397 रु. ही रखा गया है (पूर्व वर्ष में यह रकम 1,40,32,373 रु. थी)।

2. आय कर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग-क के नियम 3(i) के अधीन पत्र सं. जेपी-1(6)/63/3332, तारीख 25.12.1965 (1965-66 का आदेश सं. 1) के अनुसार, भविष्य निधि को मान्यता प्राप्त हुई है। तथापि विधि को प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

3. उपदान निधि को आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन मान्यता प्राप्त है। उपदान दायित्व के लिए कर्मचारियों के मूल वेतन, ग्रेड वेतन और महंगाई भत्ते के 8.33% के आधार पर उपबंध किया गया है जैसा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् के उपदान निधि नियमों में उपबंधित है। 31.10.2009 की स्थिति के अनुसार, प्रोद्भवन मूल्यांकन पर आधारित वास्तविक उपदान दायित्व 54,95,838 रु. होता है जिसके मद्धे 31.3.2009 तक 37,45,475 रु. का उपबंध किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 21,18,536 रु. के उपदान दायित्व का प्रावधान किया गया है जिसमें 31.10.2009 को प्रोद्भवन मूल्यांकन के अनुसार कमी के मद्धे 16,86,497 रु. की रकम भी सम्मिलित है।

4. पेंशन निधि की 31.10.2009 तक की देनदारी प्रोद्भवन मूल्यांकन के आधार पर 3,28,77,897 रु. की रकम अवधारित की गई है। 31.3.2009 तक 1,15,15,000 रु. की पेंशन निधि देनदारी का प्रावधान किया जा चुका है। प्रावधान में कमी 2,05,37,770 रु. की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान पेंशन निधि दायित्व के लिए 46,81,342 रु. की व्यवस्था की गई है। 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि का अतिशेष 1,64,47,681 रु. है। 31.3.2010 को दायित्व के उपबंध 1,64,30,216 रु. की कमी है। पेंशन निधि दायित्व की कमी के लिए अगले चार पश्चात्कर्ती वर्षों के दौरान सुसंगत वर्ष के दायित्व के साथ-साथ चार समान किश्तों में प्रावधान किया जाएगा।

5. परिषद् ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 सितंबर, 2008 से केन्द्रीय सरकार के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुमोदन और अंगीकार कर लिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, परिषद् ने अपने

कर्मचारियों के लिए 1.1.2006 से 31.8.2008 तक की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2009-2010 से पांच किस्तों में वेतन की बकाया राशि (कुल 30,40,796 रु.) के संदाय का अनुमोदन कर दिया है। तदनुसार, वेतन और भत्तों के जिसमें बकाया वेतन के रूप में 6,08,160 रु. (देखिए अनुसूची-12) की रकम भी सम्मिलित है। चालू वर्ष के आंकड़ों की पूर्व वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है।

6. अनुसूचित बैंकों के पास सावधिक जमा रकमों में विधि महाविद्यालयों से प्रतिभूति निक्षेप संबद्धता के रूप में प्राप्त 6,32,00,000 रु. की रकम भी (जो पूर्व वर्ष में 5,68,00,000 रु. थी) अनुसूची-7 में सम्मिलित है।

7. भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली ने, अपने तारीख 22.10.2008 के पत्र सं. एफ. नं. बी-13017/1/2007-प्रशा.-III (वि.का.) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान भारतीय विधिज्ञ परिषद को उसके भवनों के नवीनीकरण आदि कार्य के प्रथम चरण के लिए 1,72,98,909 रु. का सहायता अनुदान प्रदान किया है। भवन के नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है और 31.3.2010 तक ऐसे कार्य के लिए 1,76,87,378 रु. की राशि खर्च/संदत्त की गई है और उसे (अनुसूची 5ख में) "पूँजी-कार्य प्रगति पर भवन नवीनीकरण" शीर्ष के अधीन दिखाया गया है। ऐसा कार्य पूरा होने तक और रकम के पूँजी गत होने तक, अनुदान को आय और व्यय लेखा में, अवक्षयणीय आस्तियों की उपयोगी जिंदगी के आधार पर, घटाए गए अवक्षयणीय प्रभार के रूप में माना जाएगा।

8. गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची लेखाओं का अभिन्न अंग है।

समसंख्यांक तारीख

की अपनी रिपोर्ट

के अनुसार

कृते ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स एफ.आर.एन. 000038 एन

ह/-

ह/-

ह/-

ह/-

(एम.पी. ठाकुर)

लेखा अधिकारी सह-

सहायक सचिव

अध्यक्ष

भागीदार

सहायक सचिव, भा.वि.प.

भा.वि.प.

भा.वि.प.

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 26-9-2010

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai, the 16th December 2010

Ref. DBOD. No. Ret. BC. 66/12.02.001/2010-11—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) as amended from time to time and, in partial modification of the Notification DBOD. No. Ret. BC.50/12.02.001/2009-10 dated October 28, 2009, the Reserve Bank of India hereby specifies that with effect from December 18, 2010, every Scheduled Commercial Bank shall maintain in India assets as detailed in notification DBOD No. Ret. BC 40/12.02.001/2009-10 dated September 08, 2009, the value of which shall not at the close of business of any day be less than 24 per cent of the total net demand and time liabilities in India as on the last Friday of the second preceding fortnight.

ANAND SINHA
Executive Director

STATE BANK OF INDIA
(ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP)

Mumbai, the 26th December 2010

SBD No. 6/2010-11—In terms of Clause (c), sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India hereby nominates shri B. Ramesh Babu, Dy. General Manager (Associates & Subsidiaries), State Bank of India, A&S Group, Mumbai, as a Director on the Boards of following Associate Banks in place of Shri S. A. Thimmiah with effect from 25th December 2010 :—

- (i) State Bank of Bikaner & Jaipur
- (ii) State Bank of Hyderabad
- (iii) State Bank of Mysore
- (iv) State Bank of Patiala
- (v) State Bank of Travancore

O. P. BHATT
Chairman

MINISTRY OF FINANCE
(BANK OF BARODA)

The 23rd December 2010

In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking), Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Bank of Baroda in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979 namely :—

1. (1) These regulations may be called the Bank of Baroda (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010
(2) They shall come into force with effect from the 2nd day of June 2005 except wherever stated otherwise in the respective regulations.
2. In the Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979, (hereinafter referred as the said regulations), in regulation 3 :—
 - (i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely '(g) "family" means the spouse of the officer (who is not an employee of the Bank), wholly dependent unmarried children (including dependent step and legally adopted children) and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer'.
 - (ii) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely :- (o) "wholly dependent children or parents" means children or parents having and income not exceeding Rs. 2,550 per month.

Note :—If the income of one of the parents exceeds Rs. 2,550/- per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 2,550 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the employee :

3. In the said regulations, in regulation 4, for sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -

‘(4) On and from the 1st day of November 2002, the scales of pay specified against each grade shall be as under: -

(a) Top Executive Grade:

$$\text{Scale VII} = \text{Rs.} 29340 - \frac{680}{2} - 30700 - \frac{900}{1} - 31600 - \frac{1000}{1} - 32600$$

$$\text{Scale VI} = \text{Rs.} 26620 - \frac{680}{4} - 29340$$

(b) Senior Management Grade:

$$\text{Scale V} = \text{Rs.} 24140 - \frac{620}{4} - 26620$$

$$\text{Scale IV} = \text{Rs.} 20480 - \frac{560}{1} - 21040 - \frac{620}{5} - 24140$$

(c) Middle Management Grade:

$$\text{Scale III} = \text{Rs.} 18240 - \frac{560}{5} - 21040 - \frac{620}{2} - 22280$$

$$\text{Scale II} = \text{Rs.} 13820 - \frac{500}{1} - 14320 - \frac{560}{10} - 19920$$

(d) Junior Management Grade:

$$\text{Scale I} = \text{Rs.} 10000 - \frac{470}{6} - 12820 - \frac{500}{3} - 14320 - \frac{560}{7} - 18240.$$

Note: Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2002 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2002 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise;

(4A) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3) and (4) shall be construed as requiring the bank to have at all times, officers serving in all these grades.’

4. In the said regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely: -

'5. Increments. - (1) Subject to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 4, on and from the 1st day of November, 2002, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely: -

- (a) The increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (4) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) Officers in Scale I and Scale II, one year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government;
- (c) Officers including those referred to in clause (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III, as the case may be, subject to a maximum of two such increments of Rs.560 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.620 for officers in the last stage of Scale III;

Provided that on and from the 1st day of November, 1994 the officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment:

Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Note: Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

- (2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers/Junior Associate of Indian Institute of Banking and Finance and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination.

Explanation: (a) in the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

(b) on and from the 1st day of November, 1987, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments as specified in the Table below:

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.100 per month after one year of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed: both Parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.100 per month after one year, of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits.
	(ii) Rs.250 per month after two years, of which Rs.200 shall rank for superannuation benefits.

(c) on and from 1st day of November, 1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed: both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale; (ii) Rs.300 per month after two years on reaching top of the scale:

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal allowance in terms of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 5, shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

(d) on and from the 1st day of November, 1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale.
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Certified Associate of Indian Institute of Bankers or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale; (ii) Rs.360 per month after two years on reaching maximum of the scale:

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

(e) on and from the 1st day of November, 2002, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale; (ii)Rs.750 per month after two years on reaching maximum of the Scale:

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as specified in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

Note : (i) if an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment in such higher scale, additional increment(s) for passing Junior Associate of Indian Institute of Bankers/Certified Associate of Indian Institute of Bankers to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).

(ii) on and from the 1st day of November, 1994, Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and superannuation benefits.

(iii) an officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay as above if he refuses to accept promotion when offered.

(iv) if an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.

(v) if an officer, as on the 2nd day of June, 2005 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification/s, he shall be, with effect from the 1st day of November, 2002 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later, released Professional Qualification Pay as provided herein above.

- (3)(a) all officers who are in the bank's permanent service as on the 1st day of November, 1993 shall get one advance increment in the scale of pay and officers who are on probation on the 1st day of November 1993 will get one advance increment one year after the confirmation.

Note: There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

- (b) an officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st day of November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from the 1st day of November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st day of November, 1993, plus House Rent Allowance, at such rates as applicable in terms of regulation 22 and the Fixed Personal Allowance together with House Rent Allowance, if any, as specified in the table below shall remain valid till further revised: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.1993 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

- (c) on and from the 1st day of November, 1999 other things being equal, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.1997 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

- (d) on and from the 1st day of November 2004, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below and shall remain frozen for the entire period of service: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 01.11.2002 on the increment components	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

Note: (i) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under Column (C) of the tables in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)+House Rent Allowance as indicated in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 drawn by the concerned officer on the increment component of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) and (3) of regulation 4 is earned.

(iii) on and from the 1st day of November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st day of November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st day of November, 2000.

(iv) the increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(e) an officer who has earned the advance increment as specified in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c) or (d) above, one year after reaching the maximum of the scale.

5. In the said regulations, in regulation 21, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(4) On and from the 1st day of November, 2002, Dearness Allowance Scheme shall be as under:

(a) dearness allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.

(b) during the period from the 1st day of November, 2002 to 31st day of January, 2005, dearness allowance shall be payable as per the following rates :-

(i) 0.18% of ‘pay’ upto Rs.9,650 plus

(ii) 0.15% of ‘pay’ above Rs.9,650 and upto Rs.15,350
plus

(iii) 0.09% of ‘pay’ above 15,350 and upto Rs.16,350 plus

(iv) 0.04% of ‘pay’ above Rs.16,350

- (c) on and from the 1st day of February, 2005, dearness allowance shall be payable at 0.18% of pay.

Note: (A) "Pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(B) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d) and (e) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.'

6. In the said regulation, for regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely:-

'22. House Rent Allowance – (1) (a) on and from the 1st day of November, 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 1999 the House Rent Allowance as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Where the place of work is in (1)	HRA payable shall be (2)
(i) Major 'A' class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government and Project Area Centres in Group 'A'.	9% of the pay per month.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	8% of the pay per month.
(iii) Area II i.e. all places not covered by (i) and (ii) above	7% of the pay per month.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5% of the pay in the first stage of the scale of

pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above table, whichever is lower.

- (2)(a) On and from the 1st day of November, 2002, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 2002 the House Rent Allowance as specified in the table below, namely: -

TABLE

	Where the place of work is in	House Rent Allowance payable shall be
	(1)	(2)
(i)	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii)	Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him/her shall be the actual rent paid by him/her for the residential accommodation in excess over 1.75% of Pay in the first stage of the scale of pay in which he/she is placed with a maximum of 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

- (3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to clause (b) of sub-regulation (1) and clause (b) of sub-regulation (2) as if he was paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of (A) or (B) below:-

(A)

The aggregate of: -

- (i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and
- (ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners; or

(B)

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation:

- (1) For the purpose of this regulation "standard rent" means: -
 - (a) in the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government;
 - (b) where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure specified in (A) above, whichever is lower.
- (2) "Pay" for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.
- (3) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as the case may be, shall rank for House Rent Allowance with effect from the 1st day of November, 1994.
- (4) For the purpose of sub-regulations (1) and (2) of this regulation and regulation 23, Area I and Area II shall mean as under: -
 - Area I - Places with a population of more than 12 lakhs.
 - Area II - All places not included in Area - I.

7. In the said regulations, for regulation 23, the following regulation shall be substituted, namely: -

23. Other Allowances:

- (1) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance as specified in the table below, namely,

TABLE

Places	Rates
(1)	(2)
(a) Places in Area I and in the State of Goa	4% of basic pay subject to a maximum of Rs.540 per month
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs.375 per month.
(c) Other places	Nil

- (2) On and from the 1st day of November, 2002, the rates of special area allowance shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (3) On and from the 1st day of November, 2002, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling under Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.210 per month or Rs.185 per month according to the classification of area as Group A or Group B.
- (4) On and from the 1st day of January, 2004, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance at the rate of Rs.500 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children studying:

Provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

- (5) On and from the 1st day of June, 2005, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1500 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month.

- (6) If an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than seven days at a time or an aggregate of seven days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorization of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect.

- (7) If an officer is posted at a branch where books are closed on the 1st of April and 30th September, a closing allowance of Rs.250 for each of the two closings.

- (8) On and from the 1st day of November, 2002, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.125 per month
- (9) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem Allowance at the rate to which he is entitled.
- (10) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1150 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above, but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.500 per month
(iii) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.400 per month.

Note : (a) officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, shall be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centers with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn:

Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st day of May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as on the 30th day of April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay.

8. In the said regulations, for regulation 24, the following regulation shall be substituted, namely:-

24. Medical Aid:-

- (1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely:-

- (a) Medical Expenses:- On and from the 1st day of February, 2004 an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.3750 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.5000 or the amount incurred whichever is less

Note: (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) for the year 2004 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for eleven months, i.e. from February 2004 to December 2004.

Explanation:- "Family" of an officer for the purpose of this regulation shall mean the family as defined in clause (g) of regulation 3.

- (b)(i) Hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization.

- (ii) on and from the 1st day of May, 2005, reimbursement of hospitalisation expenses to an officer under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme laid down under the Bipartite Settlement dated the 2nd day of June, 2005 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs.600 per day.</p> <p>Family – Rs.450 per day.</p> <p>(ii) Other charges –</p> <p>At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs.800 per day.</p> <p>Family – Rs.600 per day.</p> <p>(ii) Other charges –</p> <p>At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>

- (2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalization etc.) specified in sub-regulation (1) above, and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalization, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalization, etc.)

(3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.'

9. In the said regulations, for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely:-

'25. Residential Accommodation.- (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.

(2) It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2002, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.4% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.'

10. In the said regulations, in regulation 41. - for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

'(1) On and from the 2nd day of June, 2005, an officer shall be eligible for the following while traveling on duty, namely:-

- (i) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

- (ii) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train or he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kms. or for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.
 - (iii) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air (economy class).
 - (iv) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 km. and when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.
 - (v) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.
- (b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
- (a) Halting Allowance- On and from the 1st day of June, 2005 an officer shall be entitled to per diem Halting Allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major 'A' Class cities	Area I	Other Places
1	2		
Officers in Scale IV and above	Rs. 600	Rs. 550	Rs. 500
Officers in Scale I/II/III	550	500	400

Provided that, in the case of officers in Scale IV and above, halting allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.700;

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation: For the purpose of computing Halting allowance 'per diem' shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours 'per diem' shall mean a period of not less than eight hours.'

11. In the said regulations, in regulation 42, for sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

- '(3) On and from the first day of April, 1997 an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc. as specified in the table below, namely,

TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.5,000
Middle Management and Junior Management	Rs.4,000

Provided that on and from the first day of May, 2005 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs.5000" and "Rs.4000", the letters, words and figures "Rs.8750" and "Rs.7000" had been respectively substituted.'

12. In the said regulations, for regulation 44, the following regulation shall be substituted, namely :—

‘44 Leave Travel Concession:

- (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his home town once in each block of two years, or; alternatively, he may travel in one block of two years to his home town and in another block of two years to any place in India by the shortest route.
- (2) An officer, by exercising an option at anytime during a block of four years or two years, as the case may be, may also surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to home town) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to 75% of the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled upto a distance of 4500 kms. (one way) for officers in JMG Scale I and MIMG Scale II and III and 5500 kms (one way) for officers in SMG Scale IV and above and while opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself or herself and his or her family members only once during the block or term in which such encashment is availed off and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession shall also be available while encashing the facility of Leave Travel Concession.
- (3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer shall be as decided by the Board from time-to-time.
- (4) Once in every four years when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding thirty days at a time, or, he may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of privilege leave with a

maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the Leave Travel Concession is availed, shall be admissible. :

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorizing the Bank to remit the amount to the Fund.

Schedule to Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979

(See, sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely :—

TABLE

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
1.	Mizoram	(Rs.)	(Rs.)
	(a) Chimpui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	1,000	1,300
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	800	1,050
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	600	750
2.	Nagaland	800	1,050
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) South Andaman (including Port Blair)	800	1,050
	(b) North and Middle Andaman, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	1,000	1,300
4.	Sikkim	1,000	1,300
5.	Lakshadweep Islands	1,000	1,300
6.	Assam	160	200
7.	Meghalaya	160	200

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	800	1,050
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	600	750
9.	Manipur	600	750
10	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	1,000	1,300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas.	800	1,050
11.	Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District	1,000	1,300
	(a) Niabat Bani		
	(b) Lohi		
	(c) Malhar		
	(d) Macchodi		
	(2) (a) Udhampur District	1,000	1,300
	i. Dudu Basantgarh		
	ii. Lander Bhamag Illaqa		
	iii. Thakrakote		
	iv. Nagote		
	(b) All areas in Mohre Tehsil other than those included in 2(c).	1,000	1,300
	(c) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	800	1,050

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(3) Doda District Illaqas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	1,000	1,300
	(4) Leh District All places in the District	1,000	1,300
	(5) Barmulla District a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqa b) Matchill	1,000 800	1,300 1,050
	(6) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	600	750
	(7) Areas not included in (1) to (6), above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	600	750
	Himachal Pradesh (1) Chamba District 1(a) Pangti Tehsil 1(b) Following Panchayat and Villages of Bharmour Tehsil (i) Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah	1,000 800	1,300 1,050

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(ii) Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata		
2.	Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in Part 1.b above.	600	750
3.	Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).		
(2)	Kinnaur District:		
(a)	Asrang, Chitkul and HangoKuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	1,900	1,300
(b)	Entire District other than Areas included in (a) above	600	750
(3)	Kullu District:		
3(a)	15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Keshwar and Sarga	1,000	1,300

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	3(b) Outer-Seraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District (excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	600	750
	(4) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti.	1,000	1,300
	(5) Shimla District : (a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	1,000	1,300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munik Ghoris Chaibis of Pargana Sarahan.	800	1,050
	(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghoris Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	600	750

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhagal and Chhota Bhagal	800	1,050
	(b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town- Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Binwa Project, Shamnagar Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HPSEE Division, Ghuggar.	600	750
	(7) Mandi District:		
	Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil Panchayats in thunag	600	750

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs. 10,000 to Rs. 14,000	Pay from Rs. 14,001 and above
	<p>Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gato, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.</p> <p>(8) Sirmaur District:</p> <p>(a) Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil).</p> <p>(b) Thansgiri Tract</p>		
	<p>(9) Solan District :</p> <p>Mangal Panchayat.</p>	600	750
	<p>(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.</p>	160	200

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
13.	Uttar Pradesh: Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts: 2(a) Other area of District Pithoragarh and Uttarkashi (including District Headquarters of Uttarkashi). 2(b) Champawat District (including area of Lohaghat).	1,000	1,300
14.	Uttaranchal: Areas under Rudraprayag and Champawat Districts.	800	1,050

Notes: The principal regulations were published in the official Gazette on the ____ day of _____. The subsequent amendments were notified vide the following notifications:

Sr. No.	Gazette Notification No.	Date
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

INDIAN BANK

Chennai, the 15th December 2010

In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Indian Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Indian Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010.

(2) They shall come into force with effect from the 2nd day of June 2005 except wherever stated otherwise in the respective regulations.

2. In the Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979, (hereinafter referred as the said regulations), in regulation 3, -

(i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely,-

'(g) "Family" means the spouse of the officer (who is not an employee of the Bank), wholly dependent unmarried children (including dependent step and legally adopted children) and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer';

- (ii) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely :-

'(o) "Wholly dependent children or parents" mean children or parents having an income not exceeding Rs. 2,550 per month'

Note : If the income of one of the parents exceeds Rs.2,550 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.2,550 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the employee.'

3. In the said regulations, in regulation-4, for sub-regulation (4); the following sub-regulations shall be substituted, namely: -

'(4) On and from the 1st day of November 2002, the scales of pay specified against each grade shall be as under: -

(a) Top Executive Grade:

$$\text{Scale VII} = \text{Rs.} 29340 - \frac{680}{2} - 30700 - \frac{900}{1} - 31600 - \frac{1000}{1} - 32600$$

$$\text{Scale VI} = \text{Rs.} 26620 - \frac{680}{4} - 29340$$

(b) Senior Management Grade:

$$\text{Scale V} = \text{Rs.} 24140 - \frac{620}{4} - 26620$$

$$\text{Scale IV} = \text{Rs.} 20480 - \frac{560}{1} - 21040 - \frac{620}{5} - 24140$$

(c) Middle Management Grade:

$$\text{Scale III} = \text{Rs.} 18240 - \frac{560}{5} - 21040 - \frac{620}{2} - 22280$$

$$\text{Scale II} = \text{Rs.} 13820 - \frac{500}{1} - 14320 - \frac{560}{10} - 19920$$

(d) Junior Management Grade:

$$\text{Scale I} = \text{Rs.} 10000 - \frac{470}{6} - 12820 - \frac{500}{3} - 14320 - \frac{560}{7} - 18240.$$

Note: Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2002 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2002 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages, from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise;

(4A) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3) and (4) shall be construed as requiring the bank to have at all times, officers serving in all these grades.'

4. In the said regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely: -

'5. Increments. - (1) Subject to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 4, on and from the 1st day of November, 2002, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely: -

- (a) The increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (4) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) Officers in Scale I and Scale II, one year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government;
- (c) Officers including those referred to in clause (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III, as the case may be, subject to a maximum of two such increments of Rs.560 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.620 for officers in the last stage of Scale III;

Provided that on and from the 1st day of November, 1994 the officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment:

Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Note: Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

- (2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers/Junior Associate of Indian Institute of Banking and Finance and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination.

Explanation: (a) in the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

- (b) on and from the 1st day of November, 1987, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments as specified in the Table below:

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.100 per month after one year of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed: both Part I and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.100 per month after one year, of which Rs. 75 shall rank for superannuation benefits.
	(ii) Rs.250 per month after two years, of which Rs.200 shall rank for superannuation benefits.

- (c) on and from 1st day of November, 1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed: both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale; (ii) Rs.300 per month after two years on reaching top of the scale:

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal allowance in terms of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 5, shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

(d) on and from the 1st day of November, 1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale.
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Certified Associate of Indian Institute of Bankers or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale; (ii) Rs.360 per month after two years on reaching maximum of the scale:

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

(e) on and from the 1st day of November, 2002, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale; (ii) Rs.750 per month after two years on reaching maximum of the Scale.

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as specified in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

Note :- (i) if an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment in such higher scale, additional increment(s) for passing Junior Associate of Indian Institute of Bankers/Certified Associate of Indian Institute of Bankers to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).

(ii) on and from the 1st day of November, 1994, Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and superannuation benefits.

(iii) an officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay as above if he refuses to accept promotion when offered.

(iv) if an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.

(v) if an officer, as on the 2nd day of June, 2005 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification/s, he shall be, with effect from the 1st day of November, 2002 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later, released Professional Qualification Pay as provided herein above.

(3)(a) all officers who are in the bank's permanent service as on the 1st day of November, 1993 shall get one advance increment in the scale of pay and officers who are on probation on the 1st day of November 1993 will get one advance increment one year after the confirmation.

Note: There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) an officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st day of November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from the 1st day of November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st day of November, 1993, plus House Rent Allowance, at such rates as applicable in terms of regulation 22 and the Fixed Personal Allowance together with House Rent Allowance, if any, as specified in the table below shall remain valid till further revised :—

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.1993 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

- (c) on and from the 1st day of November, 1999 other things being equal, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.1997 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

- (d) on and from the 1st day of November 2004, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below and shall remain frozen for the entire period of service: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 01.11.2002 on the increment components	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

Note: (i) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under Column (C) of the tables in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)+House Rent Allowance as indicated in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 drawn by the concerned officer on the increment component of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) and (3) of regulation 4 is earned.

(iii) on and from the 1st day of November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st day of November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st day of November, 2000.

(iv) the increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(e) an officer who has earned the advance increment as specified in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c) or (d) above, one year after reaching the maximum of the scale.'

5. In the said regulations, in regulation 21, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

'(4) On and from the 1st day of November, 2002, Dearness Allowance Scheme shall be as under:

- (a) dearness allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.
- (b) during the period from the 1st day of November, 2002 to 31st day of January, 2005, dearness allowance shall be payable as per the following rates:-

- (i) 0.18% of 'pay' upto Rs.9,650 plus
- (ii) 0.15% of 'pay' above Rs.9,650 and upto Rs.15,350 plus
- (iii) 0.09% of 'pay' above 15,350 and upto Rs.16,350 plus
- (iv) 0.04% of 'pay' above Rs.16,350

- (c) on and from the 1st day of February, 2005, dearness allowance shall be payable at 0.18% of pay.

Note: (A) "Pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(B) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d) and (e) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.'

6. In the said regulation, for regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely:-

'22. House Rent Allowance – (1) (a) on and from the 1st day of November, 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 1999 the House Rent Allowance as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Where the place of work is in (1)	HRA payable shall be (2)
(i) Major 'A' class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Governemnt and Project Area Centres in Group 'A'.	9% of the pay per month.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	8% of the pay per month.
(iii) Area II i.e. all places not covered by (i) and (ii) above	7% of the pay per month.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5% of the pay in the first stage of the scale of

pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above table, whichever is lower.

(2)(a) On and from the 1st day of November, 2002, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 2002 the House Rent Allowance as specified in the table below, namely: -

TABLE

	Where the place of work is in	House Rent Allowance payable shall be
	(1)	(2)
(i)	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii)	Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him/her shall be the actual rent paid by him/her for the residential accommodation in excess over 1.75% of Pay in the first stage of the scale of pay in which he/she is placed with a maximum of 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to clause (b) of sub-regulation (1) and clause (b) of sub-regulation (2) as if he was paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of (A) or (B) below:-

(A)

The aggregate of: -

- (i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and
- (ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners; or

(B)

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation:

- (1) For the purpose of this regulation "standard rent" means: -
 - (a) in the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government;
 - (b) where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure specified in (A) above, whichever is lower.
- (2) "Pay" for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.
- (3) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as the case may be, shall rank for House Rent Allowance with effect from the 1st day of November, 1994.
- (4) For the purpose of sub-regulations (1) and (2) of this regulation and regulation 23, Area I and Area II shall mean as under: -
 - Area I - Places with a population of more than 12 lakhs
 - Area II - All places not included in Area - I.

7. In the said regulations, for regulation 23, the following regulation shall be substituted, namely: -

'23. Other Allowances:

(1) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance as specified in the table below, namely,

TABLE

Places	Rates
(1)	(2)
(a) Places in Area I and in the State of Goa	4% of basic pay subject to a maximum of Rs.540 per month
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs.375 per month.
(c) Other places	Nil

- (2) On and from the 1st day of November, 2002, the rates of special area allowance shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (3) On and from the 1st day of November, 2002, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling under Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.210 per month or Rs.185 per month according to the classification of area as Group A or Group B.
- (4) On and from the 1st day of January, 2004, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance at the rate of Rs.500 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children studying:

Provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

- (5) On and from the 1st day of June, 2005, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1500 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month.

- (6) If an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than seven days at a time or an aggregate of seven days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorization of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect.

- (7) If an officer is posted at a branch where books are closed on the 1st of April and 30th September, a closing allowance of Rs.250 for each of the two closings.

- (8) On and from the 1st day of November, 2002, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.125 per month
- (9) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem Allowance at the rate to which he is entitled.
- (10) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1150 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.500 per month
(iii) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.400 per month.

Note : (a) officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, shall be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centers with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn:

Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st day of May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as on the 30th day of April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay.

8. In the said regulations, for regulation 24, the following regulation shall be substituted, namely:-

24. Medical Aid:-

- (1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely:-

- (a) Medical Expenses:- On and from the 1st day of February, 2004 an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.3750 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.5000 or the amount incurred whichever is less

Note: (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) for the year 2004 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for eleven months, i.e. from February 2004 to December 2004.

Explanation: - "Family" of an officer for the purpose of this regulation shall mean the family as defined in clause (g) of regulation 3.

- (b)(i) Hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization.

(ii) on and from the 1st day of May, 2005, reimbursement of hospitalisation expenses to an officer under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme laid down under the Bipartite Settlement dated the 2nd day of June, 2005 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs.600 per day.</p> <p>Family – Rs.450 per day.</p> <p>(ii) Other charges –</p> <p>At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs.800 per day.</p> <p>Family – Rs.600 per day.</p> <p>(ii) Other charges –</p> <p>At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>

(2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalization etc.) specified in sub-regulation (1) above, and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalization, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalization, etc.)

(3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.'

9. In the said regulations, for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely:-

'25. Residential Accommodation.- (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.

(2) It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2002, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.4% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.'

10. In the said regulations, in regulation 41, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

'(1) On and from the 2nd day of June, 2005, an officer shall be eligible for the following while traveling on duty, namely:-

- (i) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

- (ii) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train or he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kms. or for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.
- (iii) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air (economy class).
- (iv) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 km. and when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.
- (v) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.

(b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

- (a) Halting Allowance- On and from the 1st day of June, 2005 an officer shall be entitled to per diem Halting Allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major 'A' Class cities	Area I	Other Places
1	2		
Officers in Scale IV and above	Rs. 600	Rs. 550	Rs. 500
Officers in Scale I/II/III	550	500	400

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, halting allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.700;

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation: For the purpose of computing Halting allowance 'per diem' shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours 'per diem' shall mean a period of not less than eight hours.'

11. In the said regulations, in regulation 42, for sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

- (3) On and from the first day of April, 1997 an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc. as specified in the table below, namely,

TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.5,000
Middle Management and Junior Management	Rs.4,000

Provided that on and from the first day of May, 2005 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs.5000" and "Rs.4000", the letters, words and figures "Rs.8750" and "Rs.7000" had been respectively substituted.'

12. In the said regulations, for regulation 44, the following regulation shall be substituted, namely:-

44 Leave Travel Concession:

- (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his home town once in each block of two years, or; alternatively, he may travel in one block of two years to his home town and in another block of two years to any place in India by the shortest route.
- (2) An officer, by exercising an option at anytime during a block of four years or two years, as the case may be, may also surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to home town) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to 75% of the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled upto a distance of 4500 kms. (one way) for officers in JMG Scale I and MMG Scale II and III and 5500 kms (one way) for officers in SMG Scale IV and above and while opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself or herself and his or her family members only once during the block or term in which such encashment is availed off and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession shall also be available while encashing the facility of Leave Travel Concession.
- (3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer shall be as decided by the Board from time-to-time.
- (4) Once in every four years when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding thirty days at a time, or, he may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of Privilege Leave with a

maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the Leave Travel Concession is availed, shall be admissible. :

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorizing the Bank to remit the amount to the Fund.'

Schedule to Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979

(See, sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely :—

TABLE

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
1.	Mizoram	(Rs.)	(Rs.)
	(a) Chimgtuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	1,000	1,300
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	800	1,050
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	600	750
2.	Nagaland	800	1,050
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) South Andaman (including Port Blair)	800	1,050
	(b) North and Middle Andaman, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	1,000	1,300
4.	Sikkim	1,000	1,300
5.	Lakshadweep Islands	1,000	1,300
6.	Assam	160	200
7.	Meghalaya	160	200

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	800	1,050
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	600	750
9.	Manipur	600	750
10	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	1,000	1,300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas.	800	1,050
11.	Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District	1,000	1,300
	(a) Niabat Bani		
	(b) Lohi		
	(c) Malhar		
	(d) Macchodi		
	(2) (a) Udhampur District	1,000	1,300
	i. Dudu Basantgarh		
	ii. Lander Bhamag Illaqa		
	iii. Thakrakote		
	iv. Nagote		
	(b) All areas in Mohre Tehsil other than those included in 2(c).	1,000	1,300
	(c) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	800	1,050

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(3) Doda District Illaqas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	1,000	1,300
	(4) Leh District All places in the District	1,000	1,300
	(5) Barmulla District a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqa b) Matchill	1,000 800	1,300 1,050
	(6) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	600	750
	(7) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	600	750
	Himachal Pradesh (1) Chamba District		
	1(a) Pangi Tehsil	1,000	1,300
	1(b) Following Panchayat and Villages of Bharmour Tehsil (i) Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah	800	1,050

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(ii) Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata		
2.	Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in Part 1.b above.	600	750
3.	Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).		
	(2) Kinnaur District:		
	(a) Asrang, Chitkul and HangoKuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Ruppi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	1,000	1,300
	(b) Entire District other than Areas included in (a) above	600	750
	(3) Kullu District:		
3(a)	15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	1,000	1,300

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	3(b) Outer-Seraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District (excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	600	750
	(4) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti.	1,000	1,300
	(5) Shimla District : (a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	1,000	1,300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghor Chaibis of Pargana Sarahan.	800	1,050
	(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghor Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	600	750

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhagal and Chhota Bhagal	800	1,050
	(b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town—Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Binwa Project, Shamnagar Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HPSEE Division, Ghuggar.	600	750
	(7) Mandi District:		
	Chhuahar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag	600	750

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	<p>Tehsil-of Bagraa, Chattri, Chhotdhar, Garagushain, Gato, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar. Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.</p>		
(8)	<p>Sirmaur District:</p> <p>(a) Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil).</p> <p>(b) Thansgiri Tract</p>	600	750
(9)	<p>Solan District :</p> <p>Mangal Panchayat.</p>	600	750
(10)	<p>Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.</p>	160	200

Serial Number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs. 10,000 to Rs. 14,000	Pay from Rs. 14,001 and above
13.	Uttar Pradesh : Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts : 2(a) Other area of District Pithoragarh and Uttarkashi (including district Headquarters of Uttarkashi). 2(b) Champawat District (including area of Lohaghat)	1,000	1,300
14.	Uttaranchal : Areas under Rudraprayag and Champavat Districts.	800	1,050

T JAYASHANKAR
ASST. GENERAL MANAGER (HRM)

Note : Earlier amendments to Indian Bank Officers' Service Regulations, 1979 were published in the Gazette as per details given below :

S. No.	S. O. No.	Dated
1.	22	31.05.1997
2.	25	16.03.2000
3.	34	25.08.2001
4.	1	04.01.2006
5.	72	01.05.2006
6.	02	16.10.2006



THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Mumbai-400005, the 29th October 2010

(Chartered Accountants)

3WCA(4)/1/2008-09 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on their Request with effect from date(s) mentioned against the names of the following members :-

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Date
1	001576	MR. VORA SHANTILAL POPATLAL	01/04/2008
2	002820	MR. SHAH KANTILAL RAMCHAND	01/04/2008
3	033431	MR. SHANBHAG NITYANAND RAGHUNATH	11/07/2008
4	034001	MR. SAWANT ASHOK SHANKARRA	01/04/2008
5	100905	MR. MEHENDALE AMARENDRA AVINASH	01/01/2009
6	103641	MR. CHAUGULE PARITOSH SAHADEO	01/04/2008

T. KARTHIKEYAN
Secretary

3WCA(4)/2/2008-09 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute On Account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members :-

S.No.	MRN	Member Name	Removal Date
1	000993	MR. MADHUSUDAN CHANDULAL MASHRUWALA	16/09/2008
2	001011	MR. SHATISHCHANDRA VIRCHAND GHATALIA	11/09/2008
3	001085	MR. DALAL NATVARLAL THAKORDAS	14/12/2008
4	001330	MR. DHONDY HORMUSJI BEHRAMJI	03/03/2008
5	001705	MR. GANDHI DEVENDRA CHIMANLAL	19/04/2008
6	002257	MR. GANDEVIA JEHANBUX JEANGIRJI	26/02/2008
7	002262	MR. REPORTER PHIROZE MARZBAN	25/03/2008
8	002305	MR. SHAH GUNVANTLAL JESHINGBHAI	06/06/2007
9	002448	MR. DESAI KANTILAL CHOTALAL	03/03/2008
10	002681	MR. HARIBHAKTI ISHVERLAL RATANLAL	08/07/2008
11	003020	MR. PANDYA MUKUNDLAL HIRALAL	16/02/2008
12	003039	MR. BHAVE MADHUSUDAN RAMCHANDRA	16/12/2008
13	003142	MR. DESAI BHARGAV JAGANNATH	09/10/2008
14	003143	MR. DORDI DINSHAW KERSASPJI	16/10/2008
15	003776	MR. DOSHI JAMNADAS DURLABHDAS	07/06/2008
16	004122	MR. CHICHGAR SAMMY ERACH	16/09/2007
17	004216	MR. MEHTA MANHARLAL MANEKLAL	21/06/2007
18	005037	MR. ABHYANKAR SHRIKRISHNA BHALCHANDRA	09/03/2008
19	005632	MR. BHANSALI DHANSUKH MANILAL	06/11/2007
20	005755	MR. KHAMBATTA ERUCH JEANGIRJI	10/05/2007
21	006012	MR. KHANDELWAL GOURI SHANKAR	26/01/2008
22	006112	MR. SHAH CHANDRAKANT CHIMANLAL	12/11/2007
23	006136	MR. RAJENDRA DAMJI PASAD	16/04/2008
24	006676	MR. CHANDAK RATANLAL SUNDARLAL	04/11/2008
25	006717	MR. GUPTA HARISH CHANDRA	03/10/2008
26	006881	MR. CHHAJED SOHANRAJ PUKHRAJJI	19/09/2008
27	006925	MR. REGE SHRIPAD RAJARAM	22/05/2008
28	007044	MR. SANJOY LAHIRI	18/01/2008
29	007335	MR. PARMAR PUNAMCHAND CHANDULAL	26/05/2008
30	007490	MR. PATEL VASANT RAVINDRANATH	29/03/2008
31	008764	MR. MUNDRA TRIMBAKAS KACHARDAS	29/08/2008
32	009379	MR. BHAT NARSINHA KRISHNA	20/07/2008
33	009450	MR. SHETH VINAYCHANDRA AMRATLAL	14/10/2007
34	009466	MR. SHAH RAYCHAND BHANJI	30/01/2008
35	009721	MR. GUPTA VIRENDRA	13/02/2008
36	009757	MR. DAVE ANIL DALPATRAM	13/02/2008
37	010299	MR. SWAMINATHAN T S	24/10/2007
38	010663	MR. LIMAYE VIKRAM VISHNU	15/04/2008
39	010939	MR. KULKARNI KRISHNA VASANTRAO	05/06/2008

S.No.	MRN	Member Name	Removal Date
40	011232	MR. SINGLA RAMESH KUMAR	23/02/2008
41	011240	MR. BHINGE RAMESH VAMAN	02/10/2007
42	011264	MR. DAK INDRAMAL CHHOGMAL	28/10/2008
43	011472	MR. MEHTA JITENDRA DHANSUKHLAL	04/07/2007
44	011483	MR. THAKKAR THAKORLAL RAVIRAMBHAI	07/05/2008
45	013063	MR. BHATT ROHITKUMAR M	09/09/2008
46	013074	MR. SHAH ASHWIN CHIMANLAL	28/09/2007
47	013978	MR. SANGHVI HARESH NATWARLAL	22/01/2008
48	014033	MR. PARMAR VALLABHDAS RAMJIBHAI	09/07/2007
49	014749	MR. MODI PIYUSH GIRDHARLAL	03/03/2008
50	016403	MR. DULDULE GULAM AHMED SIKANDER	26/01/2008
51	016664	MR. DESHPANDE ANIL KUMAR GOVINDRAO	31/07/2005
52	017073	MR. DOSHI NAVINCHANDRA VRAJLAL	22/05/2007
53	017211	MR. CHAKRABORTY KALYANESWAR B	06/05/2008
54	030211	MR. BHATT ATUL CHIMANLAL	06/06/2008
55	030708	MS. HOMAI JEANGIR ITALIA	05/02/2009
56	031473	MR. CHHAJED PRATHVIRAJ SAJANRAJ	02/05/2007
57	033124	MR. POLISHWALA SAM NARIMAN	08/02/2008
58	033721	MR. KERMANI BEHROOZ NOSHIR	14/10/2006
59	033735	MR. DADIYA BHARATKUMAR BABULAL	06/07/2008
60	034160	MR. NAGARSEKAR BHANUDAS SHRIPAD	26/07/2008
61	035983	MR. SREEKUMARAN P	25/06/2008
62	036142	MR. BHUTA BHARAT CHANDMAL	03/03/2008
63	036712	MR. DESHPANDE SATISH VENKATESH	21/11/2007
64	037523	MR. SHAH VASANT MANEKLAL	02/02/2009
65	037603	MR. BADRIPRASAD NAGABUSHANAM NAIDU	12/01/2009
66	037612	MR. RAMANANDA E KAMATH	27/12/2007
67	037847	MR. RANADE SHASHANK GOPAL	04/12/2008
68	037972	MR. BHOLE RAMKRISHNA DHANAJI	05/06/2008
69	039001	MR. DALAL ANIL JAYANTILAL	06/12/2007
70	041963	MR. PANDIT MILIND MANOHAR	04/09/2008
71	044089	MR. SANTOSH BANSILAL GANDHI	15/10/2008
72	045073	MR. RAMANATHAN VISWANATHAN	25/07/2008
73	048935	MR. MAKARAND VIDYADHAR THATTE	02/01/2009
74	105854	MR. PRADEEP MANOHAR ATHAWALE	12/05/2008
75	107506	MR. CHANDRAKANT NARAYAN SHENDURE	13/02/2008
76	117578	MS. HETAL MANSUKHLAL KAKKAD	05/02/2008
77	118330	MR. ASHVIN PRAVIN BHAI KATHIRIYA	08/10/2008
78	126257	MR. ANANDPRAKASH RAMNIWAS LAHOTI	01/06/2008

T. KARTHIKEYAN
Secretary

3WCA(4)/3/2008-09 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1) (c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 1/10/2008 on account of non-payment of prescribed fees, the names of the following persons :-

S.No.	MRN	Member Name & Address
1	001586	MR. CHOKSHI RANCHHODLAL MANILAL
2	001821	MR. NERURKAR MANGESH SHANTARAM
3	002239	MR. PINTO SYDNEY LEONARD
4	002244	MR. SANGHAVI CHHOTALAL NIMCHAND
5	002330	MR. PHATAK GOVIND DINKAR
6	002770	MR. PATWARDHAN BHAGWANT KRISHNAJI
7	002917	MR. SONI RANCHHODLAL VITHALDAS
8	002921	MR. SHAH RAMESHCHANDRA TRIKAMLAL
9	002991	MR. KHARE GOPAL PARASHARAM
10	003038	MR. GANU LAXMAN MAHADEO
11	003218	MR. HABIB MOHAMMED MYAN KOTHAWALA MOHAMMED
12	003325	MR. Vhora SHAFI UDDIN FIDAALLY
13	003464	MR. ANANTHARAMAKRISHNAN GOPALAN
14	003570	MR. PRADHAN SUSHILKUMAR AMRUTRAO
15	003574	MR. RAMESHCHANDRA KANTILAL NANAVATI
16	003696	MR. MAHADEVAN T V
17	003770	MR. KASIM ESUF IBRAHIM
18	003858	MR. TALPADE GANPAT MADHAVRAO
19	003892	MR. SELARKA CHANDULAL BHAGWANJI
20	004181	MR. JARIWALA PRADIPKUMAR BABUBHAI
21	004287	MR. JHAVERI RASIKLAL VITHALDAS
22	004483	MR. WANI NARSAILAL BANSIDAS
23	004849	MR. BHATT GANESH PREMSHANKER
24	004884	MR. PARCHURE JAGANNATH TRIMBAK
25	004908	MR. RAGHATATE VASANT MAHADEORAO
26	005075	MR. SHAH DILIP ASHABHAI
27	005202	MR. DESAI MAHENDRA NATVARLAL
28	005586	MR. KRISHNA RAO P V
29	005635	MR. MEHTA DHIRAJLAL SHANTILAL
30	005640	MR. PAI BRAHMAVAR GOVINDARAYA
31	005973	MS. RAMA SUMATI KUMAR DOSHI
32	006410	MR. CHOPRA JAGMOHAN LAL
33	006983	MR. MEHTA NADIR FAROS
34	007572	MR. SOONAWALLA BEHRAM DARA
35	007749	MR. NAIK ISHWERLAL CHHOTUBHAI
36	007777	MR. MAGRA ADI HOMI
37	007953	MR. COOPER ASPI DADY
38	008005	MR. JAYAWANT JAGADISH VASANT
39	008119	MR. BHATT HARIVADAN RAMANLAL
40	008441	MR. SAHASRABUDHE VIJAYKUMAR GANESH
41	008782	MR. BHARUCHA DARAYUS SOHRAB
42	008855	MR. MODI SOHAN RAMNIKLAL
43	008863	MR. PARIKH ARUNKUMAR NATWARLAL
44	008979	MR. BHATIA SUBASH H
45	008983	MR. KOTHARI MAHESH VASANJI
46	009343	MR. BUCH JANARDAN CHANDULAL

S.No.	MRN	Member Name & Address
47	009734	MR. CHAWDA SHANTILAL RANCHHODBHAI
48	009938	MR. KEDIA SUDARSHAN
49	010008	MR. TRILOKI NATH BANSAL
50	010205	MR. CHOKSHI MAHENDRA CHANDULAL
51	010403	MR. TONAPI SHRIKANT VASANTRAO
52	010595	MR. MAJMUDAR SHAMIT TRIDASH
53	010721	MR. KULKARNI DHANANJAYA GOPAL
54	010753	MR. BHATIA DIPAK CHANDRASEN
55	010857	MR. RAJENDRAKUMAR SUKHLAL PATNI
56	010920	MR. GUPTA VIMAL KUMAR
57	010936	MR. DAMANI VIJAYKUMAR BRIJGOPAL
58	011141	MR. EKAMBARAM M S
59	011243	MR. RAMAN P S
60	011351	MR. GOHIL RANJITSINH PURSHOTTAM
61	011750	MR. FRAMROZE DARIUS SOLI
62	011785	MR. NARESH SHANTILAL SHAH
63	011859	MR. SUHAS VISHNU JOSHI
64	011916	MR. RAMAN KUMAR SETH
65	011976	MR. RAJENDRA PRASAD
66	012182	MR. ARSIWALLA SHAPUR JAMSHEDJI
67	012216	MR. DHAVAL SUBHASH VINAYAK
68	012301	MR. AGARWAL KRISHNA KUMAR
69	012306	MR. HARISHANKER SANWARMAL KYAL
70	012432	MR. BUCH ANANTRAM HARSUTRAI
71	012542	MR. PATEL BHARATKUMAR GORDHANDAS
72	012914	MR. NAGNATH GANPATRAO RUDRAWAR
73	012970	MR. SHAH VASANTLAL MOHANLAL
74	013024	MR. DADASAHEB PRALHADRAO JADHAV
75	013237	MR. KHATAU KISHOR KRISHNAKUMAR
76	013403	MR. GAMBHIRWALLA MAHESH VIHARILAL
77	013495	MR. KAKARIYA KANTILAL KANAHAIYALAL
78	013647	MR. S SIVARAMAKRISHNAN
79	013654	MR. RAMAKANT NAGPAL
80	013730	MR. DESAI ARUN DINKAR
81	014066	MR. KEWAL KRISHAN K MANNAN
82	014124	MR. KALWACHWALA NOZER PHIROZE
83	014158	MR. RAMJI VELJI CHAUHAN
84	014191	MR. SHAH LAXMICHAND RATANSHI
85	014196	MR. TALYARKHAN FAREDOON RUSTOM
86	014268	MR. CREADO ASTOR THOMAS
87	014291	MR. RAVI BHUSHAN POPLAI
88	014373	MR. PATEL NANOLAL MOHANLAL
89	014656	MR. SEWAK SHRIPAD DAMODAR
90	014679	MR. BADJATE RAMESHCHAND GULABCHAND
91	014804	MR. BIJOOR SATISH ANAND
92	015244	MR. VALJI BARKU SHINDE

S.No.	MRN	Member Name & Address
93	015336	MR. UDAIPURWALA SHABBIR AKBARALI
94	015383	MR. KANOO JASBHAI PATEL
95	015625	MR. MALDE HARAKHCHAND PADAMSHI
96	015749	MR. DHOLABHAI AMAR DHANSUKHLAL
97	015787	MR. MAHADDALKAR PRAKASH SADASHIV
98	015791	MS. PATEL MADHUBEN ISHVARLAL
99	015835	MR. PAI K MOHAN
100	016238	MR. FIROZ ABDULTAYEB DHARIWALA
101	016334	MR. BANAJI PERSIS JEHANGIR
102	016378	MR. TAPARIA BRIJ MOHAN
103	016669	MR. BHARATKUMAR KANTILAL SHAH
104	016851	MR. SHAH MAHENDRA MOHANLAL
105	016876	MR. AHMED MUSHTAQ
106	016891	MR. PAREKH BHUPENDRA RAMANIKLAL
107	016930	MR. BHALODKAR RAJENDRA CHANDRAKANT
108	016966	MR. MADAN LAL JANGID
109	017095	MR. SHRIKANT RAGHUNATH KHATAVKAR
110	017236	MR. BANSAL VISHNU KUMAR
111	017318	MR. SANE MADHAV HARI
112	017394	MR. JOSHI DHANANJAY RAGHUVIR
113	017516	MR. DHOLAKIA BANKIMCHANDRA B
114	017878	MR. SHETH ABDULRAHMAN ABDULRAHIM
115	017914	MR. CAPOOR RAKESH
116	017984	MR. VAIDYANATHAN K
117	018049	MR. SUNDARARAMAN M
118	018973	MR. VEERABHADRAPPA G E
119	019216	MR. BHAT BALAKRISHNA U
120	019706	MR. BALAKUMAR S
121	020317	MR. SUBRAMANIAN S
122	020829	MR. SRINIVASAN C
123	021599	MR. VIJAY BANKA
124	021655	MR. MANICKAM V
125	021811	MR. K ESWARAN
126	022836	MR. P CHANDRASEKAR
127	023424	MR. VARGHESE EAPEN
128	023431	MR. NAGARAJAN SANKAR
129	023655	MR. SANKAR N
130	025321	MR. RAVINDRAN S
131	025519	MR. PARTHSARATHY V
132	025899	MR. SRIDHAR K
133	026163	MR. R CHANDRASEKARAN
134	026502	MR. SRIRAM CHANDER
135	026706	MR. GANESH S
136	026750	MR. VINAYAKUMAR N PANDYA
137	027083	MR. VISWANATHAN P
138	027356	MR. RAVI LOCHAN P
139	028237	MR. FRANCIS N J
140	028944	MR. SHESHADRI K
141	029641	MR. SURESH K C
142	029700	MR. NEELAKANTAN G K
143	030033	MR. CHITNIS RAVINDRA VASANTRAO
144	030103	MR. DUTIA SATISH DUNGERSEY
145	030176	MR. PHADKE ARVIND RAGUNATH
146	030340	MR. JAVERI MANOJ MOHANCHANDRA
147	030368	MR. SHRIDHAR SHESHADRI
148	030391	MR. RAJOTWALLA SALIM ABDULHUSAIN
149	030399	MR. PATEL JAGDISHBHAI HARJIBHAI
150	030444	MR. MEHTA DINESH JAYANTILAL
151	030465	MR. SHAH YOGESH JAYANT
152	030599	MR. SHAH MANHARLAL KESHAVLAL
153	030707	MR. BANA NAUZER HOMI
154	030740	MR. PREM CHAND

S.No.	MRN	Member Name & Address
155	030785	MR. DINESHCHANDRA UMIYASHANKER GOPIYANI
156	030813	MR. KARNAVAT SURENDRA SARDARSINGH
157	031045	MR. KAI DZOHER ALIMOHAMMED PEDHIWALA
158	031097	MR. P KRISHNAN PARAMESWARAN
159	031145	MR. IQBAL FAKHRUDDIN ZAVERI
160	031203	MR. DIPAK MAFATLAL SHAH
161	031301	MR. PARIKH SUSHIL KANTILAL
162	031380	MR. SHUKLA AJAY BHANUPRASAD
163	031416	MR. VENKATA CHELLA RAO THOTA
164	031443	MR. ROHINTAN NARIMAN PATEL
165	031444	MR. RAMAKRISHNAN GOPALKRISHNAN
166	031679	MR. DEEPAK NARAYAN JUEKAR
167	031746	MRS. VRINDA SHARAD BAL
168	031855	MR. PATEL RAJNIKANT LALLUBHAI
169	032112	MR. R RAMJI
170	032151	MR. AMIN ABUBAKAR ISMAIL
171	032237	MR. RAHATEKAR MAHENDRA SUKHAJ
172	032245	MR. TALATI BHARAT BHASKER
173	032328	MR. PAREKH RAJNIKANT NAUTAMLAL
174	032388	MR. PAREKH JAYESHKUMAR KODARLAL
175	032543	MR. GUPTA RANJIT MANOHAR
176	032647	MR. ATUL NAVNIT MERCHANT
177	032663	MR. JALAN DEEN BANDHU
178	032788	MR. DALVI NIHAL AJIT
179	032811	MR. SANJIV MALHOTRA
180	032825	MR. AGRAWAL KAILAS DWARKADAS
181	032894	MR. PRADIP DEVIPRASAD ANJARIA
182	032920	MR. PATEL YOGESHKUMAR JAYANTILAL
183	032965	MR. PAI TONSE VIVEK
184	032983	MR. SRINIVASAN N GOVINDARAJAN
185	033008	MR. MHETRE SUBHASHCHANDRA GURUPADAPPA
186	033055	MR. MISTRY KEKI MINOO
187	33063	MR. SHARMA DINESH
188	033107	MS. AMEETA SHAH
189	033122	MR. BARAI NANDKUMAR SUNDERLAL
190	33183	MR. SUNIL GOPAL PHADNIS
191	033207	MR. ANWAR SAEED
192	033233	MR. AJAY MANOHAR DESHMUKH
193	033293	MR. AMDEKAR DILIP MADHAV
194	033307	MR. GOSALIA BHARAT ISHWARLAL
195	033310	MR. VRAJESHCHANDRA RAMANLAL SARAIYA
196	033368	MR. NITIN AMRITLAL DHOLAKIA
197	033406	MR. NEGANDHI NITIN LAXMIDAS
198	033438	MR. GANDHI DHARMESH VIRENDRA
199	033617	MR. JAISANI MAHESH LALCHAND
200	033638	RAMAKRISHNAN R N
201	033643	MR. PATEL MAYANK DINKARBHAI
202	033776	MR. MOHAMMED ZAHID BHATKALI
203	033785	MR. SURESH SHRIPADRAO BHATTU
204	033843	MR. LALWANI GULU GOPE
205	033906	MR. MISTRY RAMESH RANCHHODAS
206	033913	MR. GUPTA VISHNU KUMAR M
207	033967	MR. CHOKSEY ABHAY BHAGWANDAS
208	034014	MR. PINTO IGNATIUS BENJAMIN
209	034043	MR. PATEL GAUTAMKUMAR VALLABHBHAI
210	034048	MR. SHIKANDAR NIJAMASAHEB KAJI
211	034077	MR. TARA CHAND JAIN
212	34084	MR. JATANIA SANJEEV PRAGJI
213	034117	MR. MAPARA VIPINCHANDRA RAMLAL
214	034185	MR. KISHORE CHHOTUBHAI PATEL
215	034193	MR. YASHODHAR NATVARLAL DESAI
216	034204	MR. SURESH KUMAR

S.No.	MRN	Member Name & Address
217	034226	MR. RADHAKRISHNAN S
218	034253	MR. GIRISH VITHALRAO LAKHE
219	034277	MR. SHANKAR KALIDAS MAJREKAR
220	034298	MR. GANDHI BIPINCHANDRA MANUBHAI
221	034301	MR. BAVADEKAR HEMANT KRISHNA
222	034308	MR. NARASIMHAN RAVICHANDRAN
223	034332	MR. MAHESH SITARAM SHETTY
224	034375	MR. DAMANI RAJEN JAYANTILAL
225	034417	MR. RELWANI MADAN MOHAN GURMUKH
226	034462	MR. MASTER BHUPENDRA AMRATLAL
227	034466	MR. DESAI LAXMIKANT YESHWANT
228	034494	MR. DAVE JAGDISH JAGANNATH
229	034590	MR. BAXI MAYANK HASMUKHLAL
230	034612	MR. SHAH KIRIT KUMAR RAMANLAL
231	034639	MR. RAMACHANDRA RAMA PANICKAR
232	034656	MR. KHETAN RAMESH KUMAR
233	034695	MR. VIJAYKUMAR BALAKRISHNA MENON
234	034717	MR. MODY DEEPAKKUMAR MANHARLAL
235	034740	MR. GADIA SURESH KUMAR
236	034745	MR. JAYESHKUMAR BHAILALBHAI PATEL
237	034771	MR. DEWANI KISHORE PESSULAL
238	034825	MR. MISTRY BOMI DHANJISHAW
239	034885	MR. SHARMA PIYUSH KUMAR M
240	034918	MR. SHAH NITIN DASHRATHLAL
241	034987	MR. SHUKLA SUBHASH KANTILAL
242	034998	MR. FONSECA MARK SIMON
243	035032	MR. SODHA BIMAL CHHABILDAS
244	035204	MR. MEHTA NITINKUMAR PANALAL
245	035264	MR. VENKATARAMAN SIVAKUMAR
246	035318	MR. SHAH UDAY PURUSHOTTAMDAS
247	035379	MR. AJIT DAMODAR CHITTAL
248	035415	MS. GROVER JAYASHREE
249	035529	MR. KANAKIA KIRIT JETHALAL
250	035530	MR. DAVE KAMLESH CHANDRASHEKAR
251	035545	MR. VENKATACHALAM K
252	035552	MR. SUBRAMANIAN C V
253	035585	MS. KINI GAYATHRI
254	035632	MR. ZAVERI HITENDRA SURVIR
255	035672	MR. VELAMPARAMPIL BABU JACOB
256	035725	MR. SHAH DIVYESH NAVINCHANDRA
257	035742	MR. SHAH SHIRISH SHANTILAL
258	035761	MR. KHANORKAR RAHUL BHASKAR
259	035813	MR. MEHTA CHANDRESH H
260	035849	MR. SANJIV MAHENDRABHAI JHAVERI
261	035879	MR. SONAR DEELIP GANPATRAO
262	035910	MR. FOUZDAR KERSI ERUCH
263	035942	MR. MEHTA RAJESH AMRITLAL
264	035958	MR. DEVENDRA VINAYAK SINAI KAKODKAR
265	035978	MR. DUKLE AVADHUT VENKATESH
266	035979	MR. DILIPKUMAR JESSARAM PHATWANI
267	036053	MR. AMBANI SANJAY RASIKLAL
268	036076	MR. MAHESHWARI PRAKASH ROOPCHAND
269	036097	MR. DHOOT VENUGOPAL MADANLAL
270	036106	MR. JAMBUNATHAN V
271	036119	MR. KANE NITEEN MAHADEO
272	036121	MS. MEHTA MANISHA AMRITLAL
273	036169	MR. KASOOKAR SAMSON SAMUEL
274	036171	MR. PAREKH MUKESH KANCHANLAL
275	036215	MR. KOTHARI VIJAY CHANDRAGUPTA
276	036226	MR. JAYANT KANTILAL POPAT
277	036237	MS. VIRANI SHAINAZ KASAMALI
278	036244	MR. IYENGAR GOVINDRAJAN PARTHASARATHY

S.No.	MRN	Member Name & Address
279	036283	MR. UPADHYAY RAM BABOO
280	036291	MR. KAJREKAR VIVEK SADASHIV
281	036449	MR. BHIDE SANJAY DINKAR
282	036463	MR. GHANASHYAM DATTATRAYA MUNSHI
283	036493	MR. BAKHRU LALIT HARIKRISHNA
284	036510	MR. DUBHASHI AJIT VASANT
285	036516	MR. DAVDA SUNILKUMAR POPATLAL
286	036605	MR. DINESH SOMNATH BHATT
287	036649	MR. MAKHJA SUNIL HARIRAM
288	036659	MR. IYER SUNDERRAJAN SIDDHAMOORTHY
289	036720	MR. DEDHIA KETAN CHHAGANLAL
290	036754	MR. SHARAD GAJANAN SOHONI
291	036802	MR. PATEL AHMEDHUSEIN KASAM
292	036856	MR. SONI MUKUND RAMCHHODLAL
293	036922	MR. SRIRAMASUBRAMANIAN VAIDYANATHA
294	037087	MR. BABU ALEXANDER
295	037108	MR. JHA DHARMESH VISHNUPRASAD
296	037125	MR. VASA DEEPAK MAHENDRA
297	037145	MR. SHAH ASHIT VINOD
298	037256	MR. NAVINKUMAR HARIRAM KARNESH
299	037286	MR. SABADRA VIJAY FAKIRCHAND
300	037308	MR. SHAH DINESH HARKISANDAS
301	037336	MR. BARVE UPENDRA GANESH
302	037353	MR. RAJESH SHIVANAND AIDOOOR
303	037356	MR. HAJARE SADANAND PUNDALIK
304	037366	MR. SREEDHAR VENKATRAMAN
305	037398	MR. DURGADSIMI VIRUPAKSH BASAPPA
306	037548	MR. GAJANAN MADHUKAR CHINCHWADKAR
307	037585	MR. JOSHI SHRIKRISHNA BHIKAJ
308	037618	MR. NADKARNI JAYANT SHANKAR
309	037639	MR. PACHCHIGAR BAKULCHANDRA VASANTLAL
310	037677	MR. RAMANI RAJAN BHAVANI
311	037692	MR. HRISHIKESH MARUTI CHAVHAN
312	037754	MRS. VANDANA SANJEEV PHADKE
313	037833	MRS. SARASWATHI RAMAKRISHNAN
314	037837	MR. SHAH DIPAK DINESHCHANDR
315	037861	MR. BAKRE GIRISH MADHUKAR
316	037863	MR. IDNANI SURINDER JETHANAN
317	037878	MR. NAIR VINOD KRISHNA
318	037897	MR. SHAH KAMLESH HIMATLAL
319	037923	MR. KAPILA KAMAL RAMSWARUP
320	037945	MR. PRADHAN GIRISH SUSHILKUMAR
321	037951	MR. KRISHNAMOORTHY VENKATESWARAN
322	037963	MR. VADUVUR SESHADRI RAMAN
323	037992	MR. RODRIGUES LEO MARSHALL
324	038037	MR. VAISHNAV NITIN MAHADEV
325	038047	MR. ANKLESHWARIA KIRIT JYANTILAL
326	038135	MR. JANANI KISHORCHANDRA JAYANTILA
327	038188	MR. PARIKH AMEET RAJENDRA
328	038192	MR. MERCHANT DEEPAK DHAIYASINH
329	038220	MR. VAKHARIA PARESH VINODCHANDRA
330	038242	MR. DHARMESH BHUPENDRA MEHTA
331	038278	MR. SARAF VIJAYKUMAR HARIPRASAD
332	038305	MS. FERNANDESMAY ANTHONY
333	038322	MR. FERNANDES ANTHONY LEO
334	038333	MR. RAMOS MERVYN ANDREW JOHN
335	038374	MR. GANDHI SUNILKUMAR KHMCHAND
336	038460	MR. HEMANT KESHAO KOLWADKAR
337	038496	MR. ASHESH ANANTRAI PAREKH
338	038506	MR. VISWANATHAN VIJAY KUMAR
339	038513	MR. PAREKH TEHMASP HOMI
340	038542	MR. HITEN AMBALAL PATEL

S.No.	MRN	Member Name & Address
341	038558	MR. LAXMANAN P S
342	038589	MS. SMITA MANUBHAI DESAI
343	038683	MR. BHAVESH PRAFULCHANDRA MADEKA
344	038699	MR. KANTAWALA MUSTUFA ZOYEB
345	038711	MS. ACHARYA RENU
346	038715	MR. KESWANI GOVIND KUMAR LAKHMICHAND
347	038748	MR. SHAH SANDIP RAMESH CHANDRA
348	038772	MR. SRIDHAR RAMAMURTHY
349	038798	MR. SRIRAM CHANDRASEKAR
350	038831	MR. KRISHNAN RAMESH
351	038879	MR. SABNIS MAHESH PRABHAKAR
352	038884	MR. SHAH DINESH VINODCHANDRA
353	038888	MR. SHAH NITIN SEVANTILAL
354	038921	MR. SHAH NISHID BABULAL
355	038940	MR. SATHE NIKHIL SATYARANJAN
356	038961	MS. NAMJOSHI RAJANI RAJESH
357	039059	MR. TALATI RAJAT BHASKER
358	039182	MR. MAKARAND MURLIDHAR KALE
359	039191	MRS. RAJKUMARI SABOO
360	039334	MR. DESAI AMIT DOLATRAI
361	039346	MR. SESA SRINIVAS MALLADI
362	039371	MR. CHABLANI ASHOK ATMARAM
363	039445	MR. VENUGOPAL CHANDRASEKARAN NAIR
364	039472	MS. SHEELA PHILIP
365	039476	MR. SHAH SANJAY VIRENDRA
366	039512	MR. CHHEDA RAMESH DAMJI
367	039518	MR. KRISHNAKUMAR SIVARAMAKRISHNAN IYER
368	039522	MR. LADHA GIRIRAJ
369	039589	MR. SURESH TARACHAND JAIN
370	039626	MR. TECKCHANDANI VINOD PRAKASH
371	039664	MR. SHAH BHARATKUMAR HIMATLAL
372	039760	MS. BEDRE SANGEETA MUKUND
373	039845	MR. RAJKUMAR NARAYANAN
374	039994	MR. SUBHEDAR RAJEEV SHRIKRISHNA
375	040150	MR. EHTESHAMAHMED ABDULHABIB CHATRIWALA
376	040179	MR. SHYAMSUNDER KASHINATH KAMAT
377	040199	MR. KHOT RAVINDRA ANANT
378	040281	MR. MERCHANT ASHWIN HARISINH
379	040285	MR. FERNANDEZ LUKE BENEDICT
380	040293	MR. NURANI BALAKRISHNAN KRISHNAN
381	040344	MR. MEHTA PRATIK S
382	040366	MR. MURLI MOHAN SINGLA
383	040394	MR. KATARIYA RAVINDRA KANAKMAL
384	040409	MS. TATA FARIDA SHYAMAK
385	040440	MR. SHETTY ASHOK KUMAR MAHABALA
386	040462	MR. KINI SUJEET
387	040513	MR. GIRISH GOVIND GANGAL
388	040530	MR. MANISH PATHAK
389	040569	MR. KOLHATKAR ANIL NARAHARI
390	040628	MR. DAGA ATUL SATISH
391	040647	MR. GODBOLE PRADEEP MAHADEO
392	040687	MR. APPU MOHANDAS
393	040696	MS. SAWANTGEETA CHANDRASHEKHAR
394	040725	MR. ABHYANKAR RAJA SHEKHAR SADASHI
395	040736	MR. SABOO NARESH KUMAR SATYANARAYAN
396	040754	MR. RAMAKRISHNAN T N
397	040770	MR. SHAH RUPESH SURENDRA
398	040771	MR. DOSHI MUKESH KUMAR
399	040797	MS. SANDHYA BALAKRISHNAN
400	040879	MR. VORA ANAND KANTILAL
401	040917	MR. KANNAN S
402	040925	MR. SHAIKH NAEEM AHMED

S.No.	MRN	Member Name & Address
403	040982	MR. SUBRAMANIAN VENKATKRISHNAN
404	041007	MR. SUNIL PRATAP SHETHIA
405	041049	MRS. SUMANGALI MRUGANK SHAH,
406	041067	MR. CHANDIRAMANI ROMI
407	041080	MR. DRESSWALA NAILESH CHIMANLAL
408	041098	MR. BHAGWAT GOVIND RAMRAO
409	041140	MR. OMPRAKASH KESHAYDEO HARSWAL
410	041166	MS. MALATHI R
411	041201	CA. UDAI KUMAR JAIN
412	041218	MR. JOOTHAWAT DINESH KUMAR
413	041227	MR. PANICKER VINOD KUMAR MADHAVAN
414	041250	MR. GADA SHANTILAL NARSHI
415	041304	MR. DORABJEE ADIL NAVAL
416	041356	MR. CHAUHAN RAMESHBHAI LAKHABHAI
417	041374	MR. MIYALA KUTBUDDIN RAJABALI
418	041413	MR. DESHPANDE MUKUND VASUDEO
419	041463	MR. ATRE MILIND GANGADHAR
420	041465	MR. RAMAKRISHNAN S
421	041480	MR. RAJEEV MADHAV BHIDE
422	041503	MR. PATEL PIYUSH SOMNATHBHAI
423	041521	MR. JABBAR H ABDUL
424	041543	MR. SHAHANE VIVEK KESHAV
425	041575	MR. KALERA RAJU PESSUMAL
426	041599	MR. RAJWADE PRATAP RAMCHANDRA
427	041606	MR. SHAH KAMAL SHAILESHBHAI
428	041658	MR. SHARMA MANOJ BAJRANGLAL
429	041682	MR. SANJAY YUWARAJ PATIL
430	041683	MS. KACHWALLA SHAMINA TAHER
431	041686	MR. MANOJ G
432	041735	MR. BHADVIYA BHARAT LAL
433	041748	MR. DARJI ARVINDKUMAR MAGANBHAI
434	041858	MR. TELANG MAHESH YESHWANT
435	041897	MR. PITHAWALA KERNAN RUSI
436	041916	MR. PARIKH RONAK NARENDRA KUMAR
437	041930	MR. JOSHI ABHAY BHALCHANDRA
438	041942	MR. MEHTA AJIT PRANJIVAN
439	042066	MR. AMBARISH RATIKANT GALINDE
440	042090	MR. SAVIO SEBASTIAN GOMES
441	042109	MR. PASUPULETY PURANDAR
442	042129	MR. SHANBHAG GANESH SHRINIVAS
443	042135	MR. SHARMA SANJAY RAMGOPAL
444	042198	MS. COUTINHO KAREN
445	042200	MR. MANISH ARVIND PARIKH
446	042201	MR. JITENDRA MADHUKAR MARATHE
447	042253	MS. BAJAJ DEEPA RADHAKISHAN
448	042294	MR. RAO SATYADEV RAMANNA
449	042349	MR. BHANSALI JAYASHEEL ARUN
450	042373	MR. GIRISH MANOHAR BALEKUNDRI
451	042396	MR. MAHESH SHRIPAD KASBEKAR
452	042406	MR. GANGADHARAN MURLIDHAR
453	042432	MR. DIAS MERVYN AMBROSIO
454	042451	MR. BHANSALI ASIT HARESH
455	042472	MR. TRIVEDI ASHOK AMRITLAL
456	042514	MR. PRAVEEN KUMAR CHOUDHARY
457	042525	MR. DESAI SANJAY VASANTBHAI
458	042689	MR. MODAK KAUSHIK
459	042702	MR. JANI TUSHAR YOGENDRA
460	042706	MR. DADACHANJI ROHINTON BURJOR
461	042829	MR. BHALERAO DINKAR KASHINATH
462	042848	MR. PATODIA RAM AVTAR
463	042868	MR. DOHADWALA SHABBIR AKBERALI
464	042892	MR. HITESHKUMAR KISHORBHAI JOSHI

S.No.	MRN	Member Name & Address
465	042955	MR. CHIDAMBARAM MURALI
466	043000	MR. HEGDE GANAPATI SHIVARAM
467	043005	MR. NADEEM QURAISHI MOHAMMAD
468	043037	MR. MIRCHANDANI SUNIL RAM
469	043078	MR. BHANSALI ASHISH MAHENDRABHAI
470	043121	MR. KANGLE ABHAY PURUSHOTTAM
471	043170	MR. NALAMUTT JAIRAJ CHANNABASAPPA
472	043287	MR. KASBEKAR NIRANJAN GAJANAN
473	043304	MR. UPADHYAY CHANDRAKANT NATWARLAL
474	043308	MR. JAIN RAJKUMAR AMARNATH
475	043327	MR. MERCHANT VIREN SHANTIKUMAR
476	043339	MR. RAO P LAKSHMIPRASAD
477	043353	MS. ACHAREKAR SUJATA SONU
478	043467	MR. RAJA NIKHIL CHHOTALLAL
479	043483	MR. MEHTA JINDAT KALIDAS
480	043497	MS. ANURADHA RAMAKRISHNAN
481	043518	MRS. SEEMA PRAKASH POTDAR
482	043582	MS. ANAMIKA SANJAY VARMA
483	043743	MR. RAMAKANT SHRINIVAS KINI
484	043754	MR. MEHTA VIKAS NAVNITLAL
485	043766	MR. VIJAYASARATHY RAGHAVAN
486	043786	MS. VACHHARAJANI PURTI MAN
487	043794	MR. ZAVERI MAHENDRA POPATLAL
488	043804	MR. SHAH APOORVA AJIT
489	043807	MR. DESAI DEEVYESH KANTILAL
490	043830	MS. SWATI HASMUKHBHAI PARIKH
491	043851	MS. SHETTY SUPRITHA GOVIND
492	043854	MRS. KALPANA KISHORE SAH
493	043867	MR. TULSIAN PIYUSH
494	043917	MR. JAIN RAJEEV
495	043953	MS. IYER LATA KRISHNAN
496	043987	MR. SUNIL MORESHWAR GOKHALE
497	043993	MRS. ANJALI DEEPAK MAKHIJA
498	043997	MR. OBEROI ASIT
499	044017	MR. RANE PRAVIN KRISHNA
500	044026	MR. KOPARKAR PRASAD YASHWANT
501	044037	MR. RAJE SACHIN RAMESH
502	044109	MR. MALLIK J
503	044198	MR. FRANCIS ARACKAPARAMBIL THOMAS
504	044217	MR. RAJENDRAKUMAR HARIKRISHANJI DHOOT
505	044234	MR. DAVE BHAVIN NIRANJANBHAI
506	044245	MR. NEGI GOVIND SINGH
507	044340	MR. MEHTA KHUSHRO
508	044376	MR. DEVARAJAN VENKITASUBRAMANIAN
509	044384	MR. SUNDAR RAM GOVINDRAGHAVAN
510	044399	MR. KAPADIA BAKUL BHAGWANJI
511	044434	MR. SHARMA GOVIND PRASAD
512	044482	MS. CHRISTABELLE RALLIARAM
513	044494	MR. PATEL SHASHIKANT SHANKERLAL
514	044586	MR. BHATTAR SHYAM SUNDER
515	044588	MR. DOSHI ABHAY PRAVINCHANDRA
516	044589	MR. PATRICK ANTHONY ROZARIO
517	044602	MR. SHAH AJITKUMAR KANTILAL
518	044613	MR. THAKKAR BHUPENDRA CHANDULAL
519	044620	MR. ALOYSIS WICKET
520	044626	MR. SUNIL CHUNILAL KHINVASARA
521	044642	MR. SHAH KEYUR BACHUBHAI
522	044671	MR. SHUKLA RAJESH HARIPRASAD
523	044701	MR. JOSE K
524	044708	MR. DHUPKAR SUDIN PRABHAKAR
525	044729	MS. KANTI MANOJ RAO
526	044737	MR. GANDHI BHAVESH GUNVANT

S.No.	MRN	Member Name & Address
527	044749	MS. DESHPANDE ASHWINI MUKUND
528	044758	MR. CHONKAR SACHIN RAVINDRA
529	044761	MR. CHAUHAN ATULKUMAR GOVINDBHAI
530	044775	MR. FOZDAR BHAVIN SUDHIRBHAI
531	044787	MR. PRABHUDESAI SACHIN GOVIND
532	044791	MR. KAMALKUMAR JITENDRAKUMAR VYAS
533	044814	MR. SARAF MAHESH KUMAR
534	044823	MR. PARANJPE ABHAY VASANT
535	044828	MR. SOMAIYA KALPESH NAVNIT
536	044870	MR. PATEL PRANAV BALOO
537	044962	MR. MANISH PRAVINBHAI HAKANI
538	045140	MR. GHANEKAR RAVINDRA TRIMBAK
539	045148	MR. KIRAN SHARAD VICHARE
540	045157	MR. HARI VENKATASUBRAMANIAN H
541	045158	MR. JITENDRA KASHINATH TAWRI
542	045183	MR. JYOTI PRASAD RATHO
543	045203	MR. IYER SHIVKUMAR KASINARAYAN
544	045223	MR. VAZ SUNIL PETER EDWIN
545	045244	MRS. RAJASHREE KRISHNAKANT PARAB
546	045265	MR. CHOKSI SHRENIK ARVIND
547	045279	MR. DALAL NIRAV BHUPENDRA
548	045323	MR. VIRK ARVINDER JATINDER
549	045337	MR. DHAKAPPA YATISH TRIYAMBAK
550	045355	MR. JAGADEESH BABU RAMANATHAN
551	045431	MR. SHANBHAG RAMESH RAMDAS
552	045525	MR. KARANDIKAR NEIL VITHAL
553	045538	MR. SIVARAMAN RAMACHANDRAN
554	045548	MR. SHAH PRAGNESH CHANDRAKANT
555	045569	MR. DESAI VIPUL BALVANTRAI
556	045609	MR. MUNDRA PAWAN KUMAR MANIKCHAND
557	045612	MR. SHAH DHARMEN HARISHKUMAR
558	045637	MR. BAGAI HARINDER SURINDER
559	045640	MR. DEEPAK RAMCHAND MAKHIJA
560	045648	MR. KOTWAL ATUL ARVIND
561	045675	MR. PAREKH PRASHANT DINESHCHANDRA
562	045679	MR. KIRITKUMAR NARSIDAS GANDHI
563	045843	MR. GEORGE NOEL THOMAS
564	045866	MR. IYER ASHOK RAMACHANDRAN
565	045920	MS. AARTI VAIDYANATHAN
566	045978	MR. SHAH HIREN RASIKLAL
567	046013	MS. KADAM SANGITA SHYAM
568	046040	MR. SUNIL SHAH
569	046074	MR. NALAWADE RAJENDRA PANDURANG
570	046087	MR. KARIM A M GANGANI
571	046099	MR. SANGHAI SUNILKUMAR KEDARNATH
572	046101	MS. PARUL DIPESH NANDU
573	046276	MR. TAJPURIYA RAJESH GOVIND
574	046291	MR. VIPUL KANTILAL SOMAIYA
575	046317	MR. MAHAJAN ANIL RAMCHANDRA
576	046329	MR. SUNIL NAVINCHANDRA TRIPATHI
577	046348	MR. GANDHI BIMALKUMAR NATWARLAL
578	046414	MR. GUPTA SAMEER HARISHANKER
579	046417	MR. ATUL VINODRAY MODY
580	046452	MR. JAIN PRAVEEN KUMAR
581	046464	MR. DEVANG JASHVANTLAL SHAH
582	046473	MR. SWAMY RAMESH NARAYANA
583	046474	MS. DAVDA INDIRA DUNGARSHI
584	046478	MR. JAJOO SANJAYKUMAR RAMAKANT
585	046517	MS. TASKAR NIHARIKA RAMESH
586	046554	MR. DEDHIA MANISH VISHANJI
587	046555	MR. BANTHIA DINESHMALL JEETMALL
588	046585	MR. ACHARYA SUDHIR SRINIVAS

S.No.	MRN	Member Name & Address
589	046650	MR. SHARMA ATUL KUMAR SITARAM
590	046656	MS. GHADGE SHUBHANGI REVAN
591	046659	MR. VISHWANATHPRASAD NARAYANASWAMY
592	046680	MR. NEVATIA VISHAL G
593	046698	MR. SHAH ALAY PRAVIN
594	046749	MR. SAH RAJENDRA PRASAD
595	046757	MR. SHAH HIMANSHU KANUBHAI
596	046772	MR. AGRAWAL KISHORKUMAR LUXMINARAN
597	046776	MR. NAIR UNNI KRISHNAN R
598	046789	MR. SHAH KAUSHIK RAJANIKANT
599	046808	MRS. RUKSHANA FARSHID SAVAKSHA
600	046816	MR. WATTS STEVEN
601	046825	MR. JAIN SUNIL KUMAR HANUMANMAL
602	046872	MR. ASPANDIYAR KAIKUSHROO KAWASIA
603	046915	MR. AGBOATWALA SAQUIB SALIM
604	046952	MR. SHIRPURKAR DEEPAK PRABHAKAR
605	047008	MR. RAMESH BHAGWANDAS VIRWANI
606	047034	MRS. PANKTI CHETAN BHANSALI
607	047093	MR. AJAY BALKRISHNA BHATWAL
608	047101	MS. PADMA BALAKRISHNAN
609	047111	MR. MAYUR MANOHAR ANKOLEKAR
610	047114	MR. VORA VIJAYKUMAR JAMNADAS
611	047118	MR. BORKAR SHAILESH SHANTARAM
612	047125	MS. RUKMINI BHASKARAN
613	047193	MR. KHALID NIHAL FAIZ
614	047227	MR. PAREKH FARROAKH HOMI
615	047237	MR. KATRAK NAVROZ KERSASP
616	047255	MR. PATIL SURYAKANT DEVAGOUDA
617	047267	MS. RAJAS SUBODH KUNTE
618	047269	MR. JAIN AJAY KUMAR
619	047274	MR. GOHLYAN PAWAN KUMAR
620	047276	MR. PEREIRA IAN RAYMOND
621	047359	MR. VOHRA TAHERI INAYATHUSEN
622	047380	MR. KAMATH MADHUKAR RAMDAS
623	047384	MR. JEETENDRA RAJPAL DARYANI
624	047386	MR. BAKLIWAL SANJAY KUMAR
625	047464	MR. SHAH HARISH RANCHHOD
626	047476	MR. ACHARYA SHRIPAD PUSHASEN
627	047507	MS. REBELLO SUNILA REUBEN
628	047536	MR. CHECHANI JAGDISH CHANDRA
629	047541	MR. ANUPKUMAR HARIKRISHNA VIJAI
630	047571	MS. THADANI HIRU DAYAL
631	047634	MR. SASANWAR NARESH PARBAT
632	047670	MR. THAKKAR NILESH BANSILAL
633	047710	MR. MALHARA PRASHANT SUNDARLAL
634	047728	MS. SHAH KAVITA RAKESH
635	047743	MS. DASWANI KALPNA RAMCHAND
636	047744	MR. SIRAJ MOHAMEDALI BHAVNAGARWALLA
637	047804	MR. D'SOUZA AUGUSTINE JEEVAN
638	047811	MR. JAIN NIRANJAN KUMAR
639	047815	MR. MAVINKURVE AJAY SURESHCHANDRA
640	047854	MS. ZARARIA SAVITA SHEKHAR
641	047877	MS. ARYA SHAILA VEDAVYAS
642	047881	MR. SHARMA RAJESHKUMAR MANGTURAM
643	047895	MR. UDESHI VIKRAM VIJAYSINH
644	047959	MR. VARADARAJ SUBRAMANIAN
645	048001	MR. KHANDWALA HABIB
646	048007	MR. KOTHARI RAKESH BHUPATRAI
647	048048	MR. ANIL DEVPAL SETHI
648	048069	MR. HATHI PRADEEP NETAICHANDRA
649	048088	MR. TAVINDER SINGH RAWAL
650	048226	MR. PANDEY ABHAY CHANDRA

S.No.	MRN	Member Name & Address
651	048228	MS. KALPANA DUNGARSHI DAVDA
652	048248	MR. AMIT GUNVANTBHAI SHAH
653	048251	MR. MALWADKAR JITENDRA MARUTRAO
654	048291	MR. SHAH VIPUL JAYSUKHLAL
655	048320	MRS. SUREKHA NEELAKANTAN
656	048329	MS. SHAILA PEREIRA
657	048352	MR. DOSHI RAJENDRAKUMAR PUNAMCHAND
658	048365	MS. IYER GAYATRI KRISHNAN
659	048370	MR. VENKATESH GANESAN
660	048405	MS. MISTRY HUZAN PHIROZE
661	048407	MR. DALAL KINJAL BHUPENDRA
662	048413	MR. ANIL JAYARAM SHETTY
663	048448	MRS. SANGEETA MILIND SARDESAI
664	048461	MR. VEERARAGHAVAN P R
665	048497	MR. CHHABRA GAURAV PRAKASH
666	048515	MR. SANJAYKUMAR MADHUKAR KARANDE
667	048518	MR. AJMERA SUNIL
668	048593	MR. MUKESH KUMAR SAMDARIA
669	048655	MR. MEHTA KIRAT NIRANJAN
670	048659	MR. KAKKAD PARITOSH VINODRAI
671	048673	MS. LYNETTE YOGESH GORE
672	048693	MS. MEHTA KASHMIRA DARAYUS
673	048702	MR. SYED ASIF ALI FERDZ HASAN
674	048742	MR. KULKARNI SHANKAR GAJANAN
675	048760	MR. MULYE KEDAR PARSHURAM
676	048787	MR. NAMJOSHI PRADIP MADHUKAR
677	048804	MR. RAO SAMEER
678	048828	MR. VAZ WILLIAM MARTIN
679	048831	MR. VEMURI UDAYBHASKAR
680	048858	MR. IYER NARAYANAN SANKARAN
681	048873	MS. LALWANI SARANGA OMPRAKASH
682	048909	MR. MISTRY SANJAY SUNDERLAL
683	048931	MR. NALAVADI SHANTANU YESHWANT
684	048956	MR. MANIAR MURTUZA NAJMUDDIN
685	048995	MR. MATHUR HARI RAVI PRAKASH
686	048999	MR. JAIN GANESH BRIJLAL
687	049033	MR. DINESH BANWARILAL SARAF
688	049042	MR. PARIKH URVISHKUMAR KANTILAL
689	049047	MR. RAJENDER KUMAR CHECHANI
690	049178	MR. SHENVI VINAYAK PRABHAKAR
691	049221	MR. BANDUKWALA ABDOULHUSEIN ABBAS
692	049249	MS. SABITA BRAGANZA
693	049250	MR. MAHANTE SACHIN NARAYAN
694	049295	MR. ELAVIA FAROOKH JIMMY
695	049300	MR. SALIAN SUDHIR KUMAR SHRINIVAS
696	049310	MR. MALPANI ALOK OMPRAKASH
697	049371	MR. KAMAT VAMAN RAMESH
698	049388	MR. ATIK ABDULGAFOOR MUNSHI
699	049421	MR. SONEJI JAYESH VIRKUMAR
700	049433	MRS. VEENA SANTOSH BADE
701	049468	MR. HIRA LAL KHATRI
702	049519	MR. SHETTY SURENDRA SEENA
703	049543	MR. GANATRA ANISH PRAVINKUMAR
704	049605	MR. UMESH ANILKUMAR DESAI
705	049606	MR. APTE GANESH SHRIDHAR
706	049612	MR. PRAJAPATI HEMANTKUMAR KARSANDAS
707	049619	MR. GANDHI SANJAY ANANTARAI
708	049685	MR. SAMIR KIRIT PAREKHJI
709	049720	MR. MANDASORWALA ALIASGAR S
710	049724	MR. AGARWAL VIKAS SURENDRAKUMAR
711	049732	MR. PAREKH DEEPAK KESHAVLAL
712	049753	MRS. MARY GREGORY

S.No. MRN Member Name & Address

713	049780	MR. KHETAN AMIT
714	049816	MR. PINTO HERMAN JOHN
715	049834	MR. SANJIV HIRACHAND JHAVERI
716	049847	MR. GORE YOGESH NANDKUMAR
717	049903	MR. OZA PARAG RAMESH
718	049999	MR. MAHARAJ AMIT SIDDHARTH
719	050628	MR. SAMIR KUMAR SAHA
720	050687	MR. ASHOK KUMAR JAIN
721	050701	MR. NIRANJAN BHATTACHARJEE
722	050977	MR. BASU PRATIP KUMAR
723	051242	MR. MOHAN GEORGE
724	051294	MR. SETT VIVEK
725	051489	MR. KOTAK NITIN VISHANJI
726	052015	MR. ADI NARAYAN VENKATESH
727	052056	MR. KRISHNASWAMY R
728	052069	MR. BACHHAWAT TILOK CHAND
729	052110	MR. GARODIA ARUN KUMAR
730	052153	MR. SUKAMAL MUKHERJEE
731	052347	MR. PRASAD AJAY NATH
732	052573	MR. HARJEET SINGH SODHI
733	052635	MR. RAJEEVA BHARGAVA
734	052670	MR. KISHAN KANT RATHI
735	052874	MR. DILIP CHAKRABORTY
736	053247	MR. BAJRANG KUMAR BARDIA
737	053333	MR. SUNIL TODI
738	053336	MR. SHAH PARESH
739	053725	MR. BHANDARI MAHENDRA
740	053827	MR. SHARMA ALOK
741	053863	MR. MANOJ KUMAR SONI
742	053926	MR. SAHA SOUMITRA
743	054012	MR. SUJIT CHANDRA PAUL
744	054174	MR. DAS MANAS
745	054533	MR. CHAKRABORTY SUDIP
746	054787	MR. CHATTERJEE RIJU
747	054936	MS. ANJANA PAUL
748	055225	MR. BEHERA BARIDA BARAN
749	055426	MR. ROY ASITAVA
750	055569	MR. SIL SANTANU
751	055646	MR. FAROOQ SIDDIQI
752	055711	MR. RAMDOSS H L
753	055807	MR. BANERJEE SAMBIT
754	056018	MR. HOR SHOUMYA
755	056477	MR. VENKATESH K
756	056531	MR. DALUKA KAMAL
757	056583	MR. PRADIP KUMAR MENON
758	056637	MR. ANUJ GOYAL
759	056937	MS. SEN SARMA MOUMITA
760	057096	MR. RATHI SHYAM SUNDAR
761	057294	MR. KHATTRY SANJAY
762	057667	MR. DIBYENDU BHADRA
763	057684	MR. DHOT AVINASH
764	057709	MS. RUPALI UDANI
765	057739	MR. RAJGARIA PRAMOD
766	057777	MR. GARODIA ALOK
767	057818	MR. MEHTA SUNDEEP
768	058090	MR. LINGA RAKESH KUMAR
769	058100	MR. PANSARI SUKESH KUMAR
770	058147	MR. MANOJ KUMAR DUGAR
771	058171	MRS. IPSITA BANERJEE
772	058431	MR. BOHRA MANISH
773	058714	MR. JHA BIJENDRA KUMAR
774	058901	MRS. SIMMI GUGNANI

S.No. MRN Member Name & Address

775	059082	MR. MODI VIKASH KUMAR
776	059219	MR. SENGUPTA NILADRI
777	059252	MR. SHARMA HANUMAN KUMAR
778	059263	MR. KHAITAN RAVI KUMAR
779	059369	MS. AGARWAL RANJEETA
780	059394	MR. KHETRIWAL RUPESH
781	059600	MR. MANDAL RAJKUMAR
782	059630	MR. SINHA DEBABRATA
783	059821	MR. LAKHOTIA VINAY
784	059947	MR. HEMANI ASIT KUMAR H
785	059987	MR. KRISHNA KANHAIYA
786	060149	MR. B NATARAJ SENAPATI
787	060193	MR. CHHAWCHHARIA AMIT
788	060244	MS. GUPTA NIDHI
789	060510	MR. GUPTA SAUNAK
790	060561	MS. SHETH SURABHI
791	060625	MS. MAHESHA PRIYANKA
792	060667	MR. CHOUDHARY SANJAY
793	060682	MS. MAJUMDAR MADHUMITA
794	061041	MR. BANERJEE ABHISHEK
795	061109	MR. GUPTA SUMIT
796	061230	MR. PANKAJ KUMAR
797	061255	MR. GUPTA KRISHNA KUMAR
798	061389	MR. TOSHNIWAL HIMANSHU SHIWNANDAN
799	061581	MR. MUKHOPADHYAYA SRIDIP
800	062076	MR. SEN SAMRAT
801	062106	MR. BHALLA SAURAV
802	062245	MR. SINGH ABHISHEK
803	062386	MR. MANISH JAIN
804	062558	MR. BHARTIA CHANDRA SEKHAR
805	062842	MRS. NAMITA SINGHANIA
806	063048	MR. JAIN GAURAV
807	063217	MRS. BONANI PANDE
808	063552	MS. MOHUNTA SHREYA VINOD
809	063687	CA. ANKITA SAHA
810	063740	MR. KHUNTIA SURYA KANTA
811	063743	MR. MADNANI HARISH
812	063900	MRS. SHRUTI DARUKA
813	063942	MR. SINGH VIKASH KUMAR
814	063984	MR. AGARWAL VIKASH
815	064133	MR. SURANA NISHANT KUMAR
816	064376	MR. DEEPAK KUMAR AGARWAL
817	064464	MS. SHWETA SINGH
818	064473	MR. RAHUL AGARWAL
819	064667	MR. ANIL KUMAR AGARWAL
820	064876	CA. VIKAS BAID
821	065315	CA. SNEHA TOSNIWAL
822	065330	CA. RAMESH CHANDRA MUNDHRA
823	065629	CA. SHUBHRO SANKHA DAS
824	070256	MR. TARA CHAND CHEJARA
825	070344	MR. PHADNIS AMARENDRA RAMESH
826	070702	MR. UMESH CHANDRA
827	070726	MR. PRAKASH CHAND BACCHAWAT
828	070832	MR. MUKHOPADHYAY SIDDHARTHA SANKAR
829	070951	MR. SUMIT DUTT
830	071106	MR. AGARWAL SHAMBHU KUMAR
831	071323	MR. SONI ANAND SWAROOP
832	071445	MR. AGARWAL RAJEEV
833	071706	MR. PANKAJ BOSE
834	071746	MR. NAND KISHORE GOYAL
835	071896	MR. ANINDYA DATTA
836	072064	MR. AJAYA JAIN

S.No.	MRN	Member Name & Address
837	072118	MR. BOKARIA MOHANLAL
838	072211	MR. LALIT SINGHVI
839	072620	RAJ KUMAR MEHTA
840	072729	MR. GARG GOPAL CHANDRA
841	072872	MR. AGARWAL ALOK KUMAR
842	073058	MR. SUMIT NEELAKANDAN KUMAR
843	073144	MR. RAO CHANDAN VENKAT NAG BHUSHAN
844	073218	MR. KANTI MAL BHANDARI
845	073344	MR. BHANDARI NARENDRA KUMAR
846	073359	MR. AGRAWAL UMESH
847	073636	MR. VIJAY KUMAR AJMERA
848	073715	MR. MIDHA RAJEEV
849	073750	MR. KUMBHAT VIRENDRA KUMAR
850	074146	MR. SURESH CHANDRA GATTANI
851	074254	MR. NAVIN KUMAR AGRAWAL
852	074566	MR. NAMA NATHULAL
853	074567	MR. SURESH MAHESHWARI
854	074759	MR. GUPTA AJAY KUMAR
855	074921	MS. USHA JANAKIRAMAN
856	075115	MR. GHOSH PARTHA SARATHI
857	075149	MR. SINGHVI SANJAY
858	075265	MR. TRIPATHI KAMAL
859	075465	MR. NAGESH KUMAR
860	075578	MR. JAIN VIMAL KUMAR
861	075691	MR. JITENDRA KUMAR GUPTA
862	075711	MR. DEVPURA JEEVAN SINGH
863	075832	MR. MUNHOT NAVNEET
864	075929	MR. MURALIDHAR K
865	076116	MR. MITTAL AJAY
866	076139	MR. VYAS DILKHUSH
867	076215	MR. SHRISHRIMAL ARVIND KUMAR
868	076293	MR. GULECHHA VISHAL
869	076413	MR. MEHTA ROHIT
870	076574	MR. AGRAWAL RAJESH KUMAR
871	076800	MRS. SEEMA BHAUMIK TURAKHIA
872	076943	MRS. NIDHI MALHOTRA
873	077084	MR. BAYA GAGAN
874	077431	MR. PUNGLIA SANJAY
875	077551	MR. HARISH KUMAR
876	077615	MR. ANAND MOHAN GUPTA
877	077877	MR. GARG NEERAJ KUMAR
878	078202	MR. SOORAJ JAYASAWAL
879	078380	MR. MEHTA SAURABH
880	078409	MR. SIDDHARTH JAIN
881	078608	MR. MAHESHWARI SUNIL
882	078660	MR. GARGIYA SHARAD KUMAR
883	078696	MR. RAKESH RATHI
884	078721	MR. KUMBHAT ANUJ
885	079099	MR. JAIN YATEEN
886	079143	MR. ASHISH MATHUR
887	079234	MRS. MONICA DHAWAN
888	079364	MR. BAHADUR GOPENDRA
889	079369	MRS. PRIYANKA BAYA
890	079381	MR. GUMAN MAL JAIN
891	079870	MR. BOKADIA SANJAY
892	079964	MR. BANSAL KAMLESH
893	079975	MR. JAIN DAULAT RAJ
894	081077	MR. GOEL VINOD KUMAR
895	081154	MR. PRAKASH KESHAD GORE
896	081165	MR. RAGHU S
897	083380	MR. RAMANUJAN R V
898	083905	MR. RAMACHANDRAN G

S.No.	MRN	Member Name & Address
899	084197	MR. RAJESH TUTEJA
900	084406	MR. RAKESH MEHRA
901	084950	MR. ARORA SANJAY
902	084991	MR. BAGGA AMAR JEET SINGH
903	085181	MR. TIWARI ARVIND KUMAR
904	085796	MR. PREMANAND M G
905	086193	MR. GHANSHYAM RATHI
906	086512	MR. SHARMA MADAN KRISHNA
907	086771	MR. BASU SANDIP
908	086834	MR. ASHU GULATI
909	088368	MR. DUA SURESH KUMAR
910	088884	MR. JAIN VIVEK
911	089235	MR. AGARWAL UMA SHANKER
912	089574	MR. PUNEET MATTIA
913	090272	MR. SURI PARIKSHAT
914	090698	MR. GHILDIYAL GIRISH CHANDRA
915	091581	MR. GROVER BHUPESH
916	091849	MR. BHANDARI GAUTAM
917	092448	MR. MALHOTRA RAJESH
918	092857	MR. BHANOT VIVEK
919	093079	MR. SAINI SOM NATH
920	093152	MR. VIKRAM TUSHAR
921	093741	MR. RAJESH BAGGA
922	093931	MR. GUPTA SANJEEV KUMAR
923	093973	MS. GROVER RACHNA
924	094167	MRS. NEELU CHOWDHARY
925	095277	MR. GOEL PANKAJ
926	095849	MR. SARKAR ABHIJIT
927	096030	MR. KEDIA SIDHARTH
928	097149	MR. SHARMA SUSHIL KUMAR
929	097160	MR. SIPANI DEEPAK
930	098718	MR. LATH KAMAL KUMAR
931	098803	MR. TIWARI SHAILENDRA KUMAR
932	098933	MR. KASLIWAL PARAG
933	099531	MR. RAVI BACHU
934	099569	MS. GUPTA DEEPTI
935	100015	MR. ENGINEER ABDUL QAIYUM KHAN AMANULLAH KHAN
936	100054	MR. JAIRAM NATHAN
937	100061	MR. TULSIAN ADITYA KUMAR
938	100078	MR. ATHREYA SHANKAR SUBRAMANIAN
939	100136	MR. PATANKAR NILESH ARVIND
940	100188	MR. HARJOT SINGH RIHAN
941	100198	MR. MOBEDJI HOMEYAR JIMMY
942	100218	MR. BILLIMORIA FARHAD DARA
943	100221	MR. KULKARNI KAILAS PANDURANG
944	100267	MR. MANOHAR SHAILESH RAMCHANDRA
945	100269	MR. SHAH AMIT BHUPENDRA
946	100274	MR. NARPAT KUMAR CHOPRA
947	100364	MR. SHENAI AJAY MADHAV
948	100367	MR. RAVINDRA GANESH RAJWADE
949	100375	MR. SHAH NIMISH NALIN
950	100389	MRS. JAYNA NILESH GANDHI
951	100406	MS. SHERMIN NATTY COSSES ALMEIDA
952	100448	MR. SHAH ASHISH HASMUKHLAL
953	100451	MR. DALAL SAMIR BHUPENDRA
954	100463	MRS. RADHIKA GOPALKRISHNAN
955	100465	MR. K T VINOD NAMBIAR
956	100466	MR. HARIHARAN VINOD ANANTH SUBRAMANIA
957	100476	MS. SHAH REENA HASMUKH
958	100494	MR. SAKPAL AJAY RAGHUNATH
959	100507	MR. BARODAWALLA HOZEFA FAKRUDDIN
960	100561	MS. ARADHYE RADHIKA ANANT

S.No.	MRN	Member Name & Address
961	100576	MR. FORBES BARZEEN ROHINTON
962	100579	MR. ROSHAN KUMAR AGARWAL
963	100600	MR. BHARAT DILIPKUMAR GUPTA
964	100607	MR. RAJDATTA SHRIRAM OAK
965	100608	MS. PATIL SANGITA SHANKAR
966	100619	MR. KATKAR RAJENDRANATH SHRIRANG
967	100625	MS. MULYE KIRTI KEDAR
968	100626	MR. PANDYA JIGNESH GHANSHYAM
969	100644	MR. ASHAR RAKESH DWARKADAS
970	100669	MR. JAIN JITENDRA SHANTILAL
971	100673	MR. MASCARENHAS CHRISTOPHER
972	100694	MRS. D'COSTA SANDRA
973	100724	MS. RESHMA ASHOK NARANG
974	100793	MS. KHOJA SALMA NAZIR
975	100807	MR. BALIGA VINAY SURENDRANATHA
976	100817	MR. PRAKASH LAVJI VAGHELA
977	100868	MR. ASHER BHAVIN NARESH
978	100878	MR. JITEN VITHALDAS DANANI
979	100885	MR. KRISHNAMOORTHY VISWANATHAN
980	100955	MR. DHARIA JAGAN RASIKLAL
981	100971	MS. LANGOTE MRINMAYEE BHAGAWAN
982	100989	MS. SOMAIYA KAVITA MADHAVJI
983	100998	MR. AGARWAL ABHISHEK BALKUMAR
984	101025	MR. PRADEEP KRISHNACHANDRA PANT
985	101030	MR. RAMANI MAHESHKUMAR JIVRAJBHAI
986	101089	MR. MUSTUFA ABDULHASAN MOMIN
987	101100	MS. VERMANI PRABJOTKAUR AVTARSINGH
988	101109	MR. KINI KARTIK RAMESH
989	101141	MR. DAVE TUSHAR GANESHLAL
990	101152	MR. SHAH ASHISH BHAILAL
991	101161	MR. SHAIVAL CHANDRAMUKH NANAVATY
992	101165	MS. KELKAR BAGESHRI SHRINIWAS
993	101175	MR. UPADHYAY PINKESH HASMUKHLAL
994	101239	MRS. FALGUNI H RAJGOR
995	101266	MR. SOMANI SANJAYKUMAR PRABHUDAYAL
996	101271	MR. SHIVAJI HANUMANTRAO PATIL
997	101276	MR. BAPAT DATTATRAYA NARAYAN
998	101285	MRS. FARZANA MUNAWWAR ANWARE
999	101311	MR. BALKRISHAN JAUJO
1000	101337	MR. MUNAWWAR MOHIUDDIN ANWARE
1001	101348	MR. RATHI AMIT ANAND
1002	101350	MR. TYAGI PRAVEEN
1003	101359	MR. PATHAK DARSHAN MADHUKAR
1004	101393	MR. SHINKAR SUBODH DAMODAR
1005	101409	MR. PRADEEP KUMAR AGRAWAL
1006	101415	MR. ASHISH RAMCHANDRA SHETYE
1007	101420	MR. LADHU LAL SONI
1008	101455	MRS. CASTELINO LYNETTE MARINA CHRISTINE
1009	101505	MRS. SAMEERA AMYN MERCHANT
1010	101528	MR. SITANI VIKRANT RAMESH CHANDRA
1011	101559	MR. MRUGEN HARINDRANATH TRIVEDI
1012	101646	MS. SHAH SHITALBEN SEYAKBHAI
1013	101698	MR. SARMA RAMESH DEVDEVESA
1014	101731	MR. SANJAY S SOMANI
1015	101732	MS. LAKSHMI LAKSHMINARAYANAN
1016	101744	MRS. RUTIKA M LALWANI
1017	101752	MR. GUPTA NAWAL KISHORE
1018	101761	MR. SHAH SAMIR PRAFULCHANDRA
1019	101775	MR. SHAH JIGNESH HARISH
1020	101786	MR. SAVLA JATIN HIRALAL
1021	101812	MR. MENON PRADEEP NARAYAN
1022	101818	MR. MARATHE JAIDEEP PRABHAKAR

S.No.	MRN	Member Name & Address
1023	101835	MR. IYENGAR RADESH RAMASWAMY
1024	101869	MR. RAJESH SADANAND SHETTY
1025	101880	MR. SHAH JAYESH RAMESHCHANDRA
1026	101921	MS. SHAH JIGNA KISHORE
1027	101925	MR. SONAR RAJESHKUMAR CHOTELAL
1028	101951	MR. SATPUTE SIDDHARTH SATISH
1029	101956	MS. APTE SONAL GANESH
1030	101971	MR. PAILA ANIL SUBBA RAO
1031	101974	MR. SUKRUT SHARDUL MEHTA
1032	102003	MRS. ANNAPURNA SACHINDRA DAINE
1033	102017	MR. MUKESHKUMAR RAMKARAN SHAH
1034	102036	MR. DESAI ASHUTOSH ARVINDKUMAR
1035	102041	MR. TUSHAR CHANDRAKANT SAWANT
1036	102045	MR. GORE AJIT VASANT
1037	102064	MR./MANDAR GAJANAN SHETYE
1038	102081	MR. SADDIQ GULAMALI PATEL
1039	102142	MR. DEEPAK BHASKAR NAGVEKAR
1040	102143	MR. WAGHANI PUNIT KANTILAL
1041	102165	MR. TATLI RAVISH MOHO HUSAIN
1042	102169	MR. KOTWANI ARUN CHELLARAM
1043	102170	MRS. USHA ANAND AHUJA
1044	102172	MR. JAIN SANJAY KUMAR
1045	102177	MR. TANNA AMIT KISHORCHANDRA
1046	102202	MR. SANE MANISH SURESH
1047	102213	MRS. SHILPA TARUN KUMAR GUPTA
1048	102216	MR. SHAH PARESH KISHORCHANDRA
1049	102222	MRS. MADHAVI UDAY NAIK
1050	102228	MR. SAVLA PRASHANT LAKHAMSHI
1051	102240	MS. ANAND RACHANA K
1052	102258	MRS. SHILPA SAMEER PHANSE
1053	102263	MR. PRADHAN ROHAN VIJAY
1054	102264	MR. LELE VISHWAS SHAM
1055	102267	MR. JOG KETAN DATTATRAY
1056	102275	MR. INDOREWALA HUSAIN GULAMABAS
1057	102280	MR. VAKIL BAKUL AMRUTLAL
1058	102314	MR. SHAH MALAVKUMAR BANSILAL
1059	102334	MR. EKBOTE ABHIJIT GAJANAN
1060	102342	MR. DOSI DEVENDRA P
1061	102358	MR. SHAH NIMESH DEVENDRA
1062	102365	MR. KHALE AMOL ARUN
1063	102386	MR. JINDAL ANUPAM
1064	102395	MS. DHIRUV TEJAL DILIP
1065	102402	MR. IYER RAMKRISHNAN RAMASWAMY
1066	102430	MR. AGARWAL AMIT GULZARILAL
1067	102439	MR. MALUSHE ASHISH SADANAND
1068	102460	MR. SHARMA NAVIN NANDLAL
1069	102498	MR. DHIREN SHANTILAL GALA
1070	102637	MR. KEDAR PRAKASH RAJE
1071	102642	DIWANJI ASHISH NILKANTH
1072	102701	MR. VORA JIGNESH NAVINCHANDRA
1073	102725	MS. HETAL SHANKERBHAI PATEL
1074	102741	MR. RISHIKESH RAMESHCHANDRA TRIVEDI
1075	102780	MR. ANUPKUMAR DIVYAKUMAR VAISHNAV
1076	102783	MR. DEEPAK KESHAVLAL MANIYAR
1077	102810	MR. VERMA SUNIL RAMDEO
1078	102814	MS. SAHASRABUDHE PRADNYA MADHUSUDAN
1079	102815	MR. SAPRA KUNWAR MOHIT
1080	102822	MR. VINODKUMAR SANTOSHKUMAR HASSANI
1081	102823	MR. TIWARI RAKESH SACHITANAND
1082	102847	MRS. ABHYANKAR SMITA SACHIN
1083	102866	MR. ALVA SUNIL JOSEPH
1084	102884	MS. KOTHARI DIPTI MULJI

S.No.	MRN	Member Name & Address
1085	102891	MR. PATEL NIHARISHKUMAR BHAILALBHAI
1086	102917	MR. SANGHAVI RAHUL RAMESHCHANDRA
1087	102933	MS. SANDYA VAIDYANATH
1088	102960	MS. CHOWDHRI REKHA MANOHAR
1089	102992	MS. CHOUDHARI ANITA CHANDRAPRAKASH
1090	103016	MR. LAKHANI DHARMESH BIPINCHANDRA
1091	103050	MR. PORWAL SURESH KUMAR
1092	103078	MRS. SHAMA ANUPAM CHAKRABORTY
1093	103081	MRS. JYOTSNA RAJESH SHARMA
1094	103105	MR. AJIT VINCENT ALFRED SEQUEIRA
1095	103124	MRS. PALLAVI MAHESH KALAMBI
1096	103129	MS. SANGHVI MANSI MUKESH
1097	103133	MR. SHAH AMIT HEMENDRA
1098	103135	MR. PATEL VINAYKUMAR NATWARLAL
1099	103143	MS. PARANJPE MANISHA PURUSHOTTAM
1100	103152	MR. GANPULE SATISH NARAYAN
1101	103158	MR. MANOJKUMAR BANWARILAL MALCHANDKA
1102	103191	MS. CHANDIRAMANI RESHMA KISHIN
1103	103213	MR. GANDHI JINENDRA V
1104	103214	MR. SUNIL VISHWANATHAN NAIR
1105	103219	MR. RAMESH HAMIRWASIA
1106	103259	MRS. ABHA SUNEET KABRA
1107	103292	MR. SURAJ LAKHANI
1108	103326	MR. PADGAONKAR JAGJIT SHRIKANT
1109	103338	MR. SACHIN VILAS SAHASRABUDDHE
1110	103342	MR. LOOMBA AMIT AMARJIT
1111	103344	MR. RAKESH KHETAWAT
1112	103360	MR. ABHYANKAR SACHIN SHASHIKANT
1113	103379	MS. KOLHEKAR RADHIKA PRAKASH
1114	103394	MR. SHAH CHIRAG JAYENDRA
1115	103422	MR. NAYA RAJ BARAL
1116	103438	MR. KANTHARIA MAULESH JAGATKUMAR
1117	103440	MR. DEVANG ASHOK JHAVERI
1118	103443	MR. SHAH JITENDRA SHANTILAL
1119	103474	MR. PORWAL ALPESH AMBALAL
1120	103499	MS. RAO SHAILAJA ADHIKARLA
1121	103514	MR. KAPOOR VISHAL VINOD
1122	103573	MR. MANISH BHUPENDRA KANIA
1123	103582	MR. GANDHI GAUTAM SHAM
1124	103599	MR. SAKHALKAR MILIND DAMODAR
1125	103613	MR. DESHMUKH MAHESH SURESHCHANDRA
1126	103636	MS. PRADHAN MEENAL ANIL
1127	103672	MS. PILLAY REKHA RAMACHANDRAN
1128	103699	MS. GUPTA NEENA VILAS
1129	103704	MR. PALITANAWALA HOZAIFA SHABBIR HUSSAIN
1130	103751	MR. UMESH K
1131	103767	MR. NEELESH CHANDRASHEKHAR SHRIKHANDE
1132	103773	MR. RAI BRIJESH H
1133	103776	MR. JOSHI AMOL GAJANAN
1134	103815	MR. VIPIN LAXMINARAYAN THAKUR
1135	103832	MR. DAVID TOBIN BARNABAS
1136	103855	MR. VASA KETAN DINKERRAI
1137	103864	MS. UDYAWAR SEEMA LAXMAN
1138	103942	MR. TELI PARESH RAMESHCHANDRA
1139	103956	MR. MAHENDRA B SEMLANI
1140	103986	MR. AGARWAL ABHINAV BALKUMAR
1141	104016	MR. KULKARNI ADITYA SHIVRAM
1142	104030	MR. AMBAKHUTWALA NAEEM NOORUDDIN
1143	104036	MR. NADKARNI VIKRAM VIJAY
1144	104039	MR. KENIA VIREN RAMNIKLAL
1145	104116	MR. ABHAYKUMAR GEBILAL GANDHI
1146	104118	MS. PUJARA RUPA PRAVINBHAI

S.No.	MRN	Member Name & Address
1147	104123	MR. TELLIS AJAY AUGUSTINE
1148	104135	MR. SAWANT NILESH SIDHARAM
1149	104162	MR. DEVENKUMAR KISHORKUMAR CHITALIYA
1150	104186	MR. MANOJ M
1151	104214	MR. ACHARYA RAGHUNATH
1152	104246	MR. PANKAJ DAMODAR SHARMA
1153	104279	MRS. KAKSHA KUNTAL MEHTA
1154	104288	MR. SUKHEJA NARENDRA PRABHUDAYAL
1155	104302	MR. KINGER DEEPAK KANAYALAL
1156	104314	MR. B SIVARAMAN
1157	104338	MR. KHANNA SUMIT OM
1158	104345	MS. GURBANI TARUNA PRATAPRAI
1159	104351	MR. PATEL PARESH PARSHOTTAM
1160	104370	MR. BUDDHADEV PARESH CHANDRAKANT
1161	104371	MR. UDESHI UMESH RANJIT
1162	104372	MS. PEREIRA ANITA WALTER
1163	104381	MR. KHANDEKAR SAMEER PRAKASH
1164	104411	MR. JASMEET SINGH BHATIA
1165	104449	MR. SRINIVASA GOKUL DAS SHENOY
1166	104467	MS. SHUBHANGI SHARAD KULKARNI
1167	104475	MR. NISHITH SURESH GANDHI
1168	104495	MR. MANISH JAYANTILAL JOSHI
1169	104512	MR. UPADHYE AMOL ANANT
1170	104514	MS. JAYASHREE KRISHNAN
1171	104549	MR. GOPAL PURANMAL AGRAWAL
1172	104560	MR. JAYESH HARKHCHAND DEDHIA
1173	104576	MR. RYAN ALFRED RONALD FERNANDEZ
1174	104587	MR. PRADIPTA BIJAY DATTA
1175	104640	MRS. MANORI SURIL SHAH
1176	104672	MR. MALLESHAM MALLAIAH BANDARI
1177	104719	MR. PRATIK DEEPAKBHAI SHAH
1178	104741	MS. RACHANA SATYANAND SINGH
1179	104764	MR. MANOJ OMPRAKASH GATTANI
1180	104779	MR. RAMAKANT PRAKASH SHEMAKAR
1181	104788	MR. VISHAL RAJENDRA PRASAD AGARWAL
1182	104800	MS. FALGUNI HARILAL DEDHIA
1183	104856	MR. BAMORYA NITIN
1184	104896	MRS. PURVI KALPESH GANDHI
1185	104902	MR. SATISH PADMANABHAN
1186	104935	MR. ASIF NAZIR KHOJA
1187	104946	MR. RAJESH BALVANT BIRARI
1188	104962	MR. KETAN SHANTILAL JAIN
1189	104987	MR. DEVANG BHARAT VORA
1190	105044	MR. UMESHA DOMBE
1191	105045	MR. BHAVIN SURESH SHAH
1192	105075	MS. SHUNALI KUNAL NAGARKATTI
1193	105088	MR. UKIDAVE AMOL VINAYAK
1194	105094	MR. JOHN GEORGE ALBERT MENEZES
1195	105096	MRS. SUPRIYA CHHAWCHHARIA
1196	105103	MR. BALAJI VENKATACHALAM
1197	105116	MR. DEEPAK CHANDRATAN RATHI
1198	105174	MRS. KINNARI RAJESH KATEJA
1199	105176	MR. ALOK MADHUSUDAN SANGANERIA
1200	105183	MR. DINESH KUMAR CHHAJER
1201	105218	MR. SHABBIR JABIR BANDUKWALA
1202	105234	MR. FARHAD HOSHEGAR SAMJI
1203	105235	MR. CHIRAG CHINUBHAI PATEL
1204	105258	MR. BOSCO SANTIAGO NORONHA
1205	105300	MR. BHAVESH TRYAMBAKLAL UPADHYAY
1206	105307	MR. VIPUL K MALKAN
1207	105337	MR. RAJIWATE SAMAD HUSAIN
1208	105383	MR. GIRISH BHOGILAL GAJJAR

S.No. MRN Member Name & Address

1209	105391	MR. MALU SANJAY
1210	105444	MR. SHAILESH LAVU PEDNEKAR
1211	105457	MS. ANUPAMA CHANDRAKANT NAIK
1212	105462	MR. ADISH SUBIR CHAKRABARTY
1213	105466	MS. MITRA SANGEETA SAMIRAN
1214	105475	MR. SHANTANU S KHARKAR
1215	105476	MR. ASHISH GIRISH VASAVADA
1216	105483	MR. SACHIN VIJAY WAGLE
1217	105491	MS. PRATIBHA CHINTAMAN LELE
1218	105492	MR. GANESHKUMAR ANANTHALAXMI IYER
1219	105514	MS. KARUNA BHAJANLAL CHHABRIA
1220	105519	MR. NIKHIL ANANDBHAI GAJJAR
1221	105538	MR. PARAS KESHARICHAND SHAH
1222	105540	MR. SAMEER NARAYAN REGE
1223	105541	MR. PARESH HARIDAS SHAH
1224	105568	MS. SHARMA RITIKA BABULAL
1225	105576	MR. SUNIL ROOPCHAND SHAH
1226	105581	MR. SHISHIR SHRIKANT KALKONDE
1227	105586	MS. KHUSHNAM PESHOTAN MOGAL
1228	105605	MR. ARUN KUMAR R RAMCHANDRAN
1229	105679	MS. SWATHI SWAMINATHAN
1230	105680	MS. SEEMA SHANKARAN NAMBOODIRI
1231	105697	MR. JITENDRA MOTIRAM HARYAN
1232	105743	MS. PRITI TOTLA
1233	105749	MR. GOPAL CHECHANI
1234	105820	MS. K NITHYA V
1235	105858	MR. ANISH RANJIT UDESHI
1236	105861	MS. MILY K DASGUPTA
1237	105931	MS. MONALI MOHAN PATKI
1238	105964	MR. YUSUF NEMAT ALI SAYED
1239	105995	MR. SHAILESHKUMAR MANUBHAI PATEL
1240	106007	MR. PRAKASH SHIVANDAS PAMNANI
1241	106043	MR. AMIRKUMAR ASHOK SAMANT
1242	106053	MR. SRINIWAS SANKARAN THIRUVAIYARU
1243	106116	MR. TAILOR SHAILESH HARKISHANDAS
1244	106133	MRS. KANCHAN GIRISH LOKWANI
1245	106141	MS. NISHA OMPRAKASH SHARMA
1246	106167	MR. PIYUSH RAMESHCHANDRA JAIN
1247	106233	MS. KIRAN PARIMAL GANDHI
1248	106236	MR. VIPUL SURYAKANT VAKHARIA
1249	106313	MR. RAJEEVKUMAR PRAVINCHANDRA SHAH
1250	106346	MR. JAIPRAKASH YATIRAJ SONI
1251	106372	MR. NIRAV CHITTARANJAN MEHTA
1252	106415	MR. SATISHWAR BALAKRISHNAN
1253	106438	MR. KAUSHIK KIRITKUMAR DESAI
1254	106457	MR. ANEESH VRAJENDRA MALOO
1255	106471	MR. SHAILESH VISHWANATH HALDANKAR
1256	106493	MR. BINAYAKE ASHUTOSH
1257	106504	MR. NALIN K MISTRY
1258	106521	MS. RAJANI SHIVSHANKAR RAIKAR
1259	106524	MR. ASHUTOSH VINAYAK GORE
1260	106530	MR. SANTOSH ASHOK PHENE
1261	106558	MS. D'SILVA VICTORIA
1262	106584	MR. NADEEM ABDULKARIM BHAMLA
1263	106605	MR. NILESH VASANTLAL CHUTTAR
1264	106615	MR. VENKATKRISHNA RAJAVENKAT RAO
1265	106623	MR. SUMEET KANTILAL TANK
1266	106633	MS. NIKITA MATHURADAS SHRESTHA
1267	106655	MR. RAJESH PATNI
1268	106667	MS. DEEPALI PAREKH
1269	106672	MS. SANGEETA VENKATESAN
1270	106680	MR. PALLAV K SHAH

S.No. MRN Member Name & Address

1271	106710	MR. SABOO PREMPRAKASH
1272	106731	MRS. MEGHANA MAHENDRA SEMLANI
1273	106742	MR. JUGAL KISHORE SHARMA
1274	106749	MR. RAVIKIRAN DATTATRAY HEGDE
1275	106772	MR. YAZAD KERSI COOPER
1276	106806	MR. SUNIL DHIRUBHAI DARJI
1277	106833	MS. ADITI SANJAY POTE
1278	106837	MR. ANDREW DOMINIC BERTRAND
1279	106872	MR. PADMANABHAN SHESHADRI MUDALIAR
1280	106895	MR. AMAR CHAND MALANI
1281	106917	MR. JAIN AJAY MOTILAL
1282	106925	MS. SAMIKSHA NIRAJ DESAISHETH
1283	106932	MS. MAMTA MANOHAR GUPTA
1284	106936	MS. MITAL CHHOTABHAI PATEL
1285	106938	MR. VIKRANT K MEHTA
1286	106940	MS. NEELU NANDKISHORE JALAN
1287	106970	MS. KAVITA CHANDRAKANT PANSE
1288	107049	MR. NILESH KALA
1289	107077	MS. RIPPLE ARORA
1290	107106	MR. SINGH MANDJ
1291	107124	MR. YATINKUMAR D DOLIA
1292	107180	MR. GIRISH MALLESHPA HUGAR
1293	107187	MR. ALPESH POPATLAL SHAH
1294	107214	MR. SAMIR PREMCHAND MEHTA
1295	107237	MR. SACHIN SURESH RAUT
1296	107240	MR. PANKAJ PRALHAD PATIL
1297	107247	MR. RUPESH AMRITLAL DAVE
1298	107252	MR. HARSH RANJIT ACHARYA
1299	107305	MR. DINESH MOHANLAL JASRAPURIA
1300	107338	MR. CHIRAG ASHWINBHAI TANNA
1301	107339	MR. KUNAL SHIRISH DESAI
1302	107368	MR. MITESH NARANJI SOMESHWAR
1303	107377	MRS. KIRAN PRASHANT GOSAVI
1304	107383	MS. GURDEEP KAUR BANSAL
1305	107385	MR. ASHISH DEVIPRASAD DUBEY
1306	107394	MR. KEDAR ANIL SAWALE
1307	107402	MR. ATUL SHANKARLAL GAJJAR
1308	107409	MS. ESMERALDA J FRANCO
1309	107410	MS. KAVITA VASANT PARIKH
1310	107432	MR. SANJAY KASHI PRASAD KEDIA
1311	107451	MR. KOVID SHANTILAL FARIA
1312	107517	MR. ABHAY ARUN UDAS
1313	107530	MRS. MINAL KALPEN SHAH
1314	107536	MR. MIHIR HARSHADKUMAR PUJARA
1315	107546	MR. MAITRA JOYSHISH
1316	107569	MS. JYOTI NARASIMHA MALLYA
1317	107583	MS. PRACHI S BAKRE
1318	107591	MR. PRADEEP ARVIND KOTHARI
1319	107620	MR. SURESHKUMAR SELVARAJ YADAV
1320	107635	MR. DHRUV BHARAT SHAH
1321	107644	MR. AMIT DAULATRAI DOSHI
1322	107651	MS. SEEMA V NAGDEV
1323	107695	MR. DEEP PANKAJ KANTAWALA
1324	107726	MR. VISHAL S THAKUR
1325	107744	MR. AMIT K SHELANKAR
1326	107782	MR. CHETAN DHIRENDRA VAKHARIA
1327	107808	MS. DHANASHREE PRAKASH TAMHANE
1328	107809	MR. SHEETAL K DAFTARY
1329	107817	MR. INTEKHAB CHINI
1330	107850	MR. BADALIA ANKIT
1331	107867	MR. NIMESH SHANTILAL CHHEDA
1332	107905	MR. JAIDEEP SATISH VAIDYA

S.No.	MRN	Member Name & Address
1333	107912	MR. HARSHAL AVINASH SULAKHE
1334	107918	MR. RITESH RAJENDRA KOTHARI
1335	107930	MR. HITESH CHANDRAKANT SHAH
1336	107936	MR. DEEPAK GUPTA
1337	107943	MR. PHOPHALIYA VIRENDRA
1338	107944	MS. MICHELLE GEORGE D'SOUZA
1339	107949	MRS. JYOTI MILIND RANADE
1340	107990	MRS. SARITA RAMNATH SHANBHAG
1341	108025	MR. DEEPAK N BUDHWANI
1342	108075	MR. MILIND PANDHARINATH TELAWANE
1343	108082	MS. SMITA ARUN GHANEKAR
1344	108095	MS. KAVITA HARIHARAN
1345	108103	MS. SURABHI SANTOSH MEHTA
1346	108111	MR. RAJENDRA MANOHARLAL KOTHARI
1347	108115	MR. VIPUL VINOD AGARWAL
1348	108127	MR. SANTOSH R MISHRA
1349	108157	MR. KENITH N JAIN
1350	108161	MR. NEIL BHARGAV JOGLEKAR
1351	108167	MR. NAVIN KUMAR SINGHAL
1352	108174	MR. RAKESH KRIPASHANKAR TRIPATHI
1353	108191	MR. MANOHAR M MURALI
1354	108200	MR. KINNAR N SANJANWALA
1355	108231	MR. UJWAL NAGNATH LANDGE
1356	108234	MS. PADMAJA GOVIND MALIYE
1357	108246	MS. KASHMIRA HOMI PALIA
1358	108289	MR. GOYAL KEDAR
1359	108299	MS. SIRISHA SHIVKUMAR PINNALI
1360	108313	MR. NIRAV VIJAYSINGH ASHER
1361	108317	MR. AMIT ARUNKUMAR SHAH
1362	108332	MR. UMESH MOHAN JADHAV
1363	108370	MR. SACHIN SURAJMAL SOMANI
1364	108376	MS. SHILPA JAYANT DHAVAL
1365	108397	MS. KAKAR SHRUTI
1366	108404	MR. SANDEEP R AGRAWAL
1367	108411	MR. BARANWAL SANJIVE
1368	108430	MRS. MANYA AVINASH PAMNANI
1369	108445	MS. MITA ARUN KUMAR MODI
1370	108448	MR. SUNILKUMAR BHIKHUBHAI THAKKAR
1371	108455	MR. MUKESHKUMAR SATYAPAL MITTAL
1372	108465	MR. LALIT DUJARI
1373	108476	MR. GUNJAN MAHENDRA SHAH
1374	108478	MRS. ANCY SENASTOAM PARIATH
1375	108481	MS. MRUNALINI KRISHNA MARATHE
1376	108508	MRS. RASHMI ATUL BHAMRI
1377	108591	MR. ROHIT J BRAHMBHATT
1378	108594	MR. DEVAL ANIRUDDH JOSHI
1379	108611	MR. NIKHIL HARLAKA
1380	108616	MS. MINAL SURESH LOTANKAR
1381	108617	MR. GAURANG M SHAH
1382	108633	MR. NAVEEN KAMALKUMAR AGARWAL
1383	108648	MR. LINUS JOHN D'SOUZA
1384	108656	MR. AYUSH VIJAY AGARWAL
1385	108668	MRS. NIVEDITA RAJESH PANCHWAGH
1386	108693	MR. MAKARAND ARVIND LIMAYE
1387	108707	MR. BHAVIN PRUTHVISINH LAKHPATWALA
1388	108709	MS. ASHWINI PANDURANG KHER
1389	108733	MS. SANJI ASWANI
1390	108781	MR. RAJESH SRINIVASAN
1391	108790	MS. ADITI VASANT MARATHE
1392	108795	MR. HARSHIT SHIRISH SHAH
1393	108798	MR. NAVEEN SHANTILAL JAIN
1394	108818	MR. AMITKUMAR RAJNIKANT MEHTA

S.No.	MRN	Member Name & Address
1395	108821	MR. ASHISH GIRDHARILAL SEKSARIA
1396	108822	MR. SUNILKUMAR JASHANKUMAR BAWA UDASSI
1397	108835	MR. SHABBIR FAIZUDDIN NASEEM
1398	108837	MR. RITESH BHARAT PAREKH
1399	108839	MR. JAYWANT MILIND MASUREKAR
1400	108852	MR. RAKESH VISHNUPRASAD AGRAWAL
1401	108866	MR. CHIRANJEEV SHUBH KARAN SONI
1402	108883	MR. AMIT RAMESH YADAV
1403	108893	MR. SHAILESH THAKARSIBHAI BHALALA
1404	108901	MR. MAHESH MANOHAR DESAI
1405	108910	MR. SHAILENDRA RAMCHANDRA BADE
1406	108916	MR. RAMESHKUMAR VITHALBHAI GEVARIYA
1407	108926	MR. PRANAV ARUNKUMAR DAVE
1408	108929	MS. BELA KIRTIKUMAR SHAH
1409	108943	MS. SHWETA SUBODHBHAI TRIVEDI
1410	108983	MR. SUSANT SUDHIR DESAI
1411	108985	MR. RAMESH KUMAR OMPRAKASH KALANTRI
1412	109008	MR. RAVI SHRAWANKUMAR BANSAL
1413	109009	MRS. SHRUTI AMAR DEVASTHALI
1414	109020	MR. SATISH SALVEKAR
1415	109028	MR. RISHIKESH TAMASKAR
1416	109065	MR. AKRAM ABDULLA KHAN
1417	109073	MS. SHANU BANSAL
1418	109080	MR. ANIRUDDH GUPTA
1419	109095	MR. AJAY PURSHOTTAM GOYAL
1420	109104	MR. DHIRAJ GOLCHHA
1421	109109	MR. PRAVIN NAMDEO TAWLE
1422	109197	MR. KALPESH UGARCHANDBHAI GADHECHA
1423	109220	MS. JASMINE MANECK PITHAWALLA
1424	109247	MRS. KANCHAN SHRIKANT NEURGAONKAR
1425	109276	MS. SANGEETA ANIL SAMANT
1426	109277	MR. SITARAM KASHINATH MAHARANA
1427	109309	MS. PRACHI VINAYAK NAIK
1428	109321	MS. SAINI RAJGOPAL
1429	109324	MR. MAHESH PARAMESWARAN
1430	109358	MR. TARUN VEERENDRA SHAH
1431	109387	MR. ANAND NARENDRA NAGADA
1432	109398	MR. NITIN RAMCHANDRA LATHI
1433	109401	MR. ASHISH NAVINCHANDRA MEHTA
1434	109409	MR. MEHUL KHUSHAL SHAH
1435	109417	MS. PRIYA SRICHAND MATHRANI
1436	109418	MR. MANISH CHHABRA
1437	109435	MR. ARABINDA CHOUDHURY
1438	109451	MRS. LEENA RAMAKRISHNAN IYER
1439	109455	MR. PANKAJ GUPTA
1440	109458	MR. AMOL RAMACHANDRA GOKHALE
1441	109466	MR. KULIN ASHOK ASHER
1442	109481	MR. DIPESH RAMESH THAKKAR
1443	109494	MR. DEEPAK BADARAM GEHLOT
1444	109542	MS. GAURI SURESH KAWATKAR
1445	109556	MS. KAVITA RAJARAM PATIL
1446	109569	MR. AJAYKUMAR PURUSHOTTAM BOHRA
1447	109574	MR. UMESH VAMAN GOGATE
1448	109598	MR. VIJAY PRADIP KAMDAR
1449	109621	MR. SACHIN PRAVIN PATEL
1450	109629	MR. VIKAS KHETAWAT
1451	109643	MR. ASHISH DIGAMBAR THAKUR
1452	109644	MR. CHIRAG JAYKUMAR SHAH
1453	109671	MR. KUMAR RAMKRISHNA DAVE
1454	109672	MR. VAIBHAV FULCHAND SANKLA
1455	109680	MR. SACHIN ASHOK PATIL
1456	109687	MR. DANNY FELIX SALDANHA

S.No.	MRN	Member Name & Address
1457	109728	MR. JAGDISH MULCHAND THADANI
1458	109737	MR. RAJESH KANTILAL KAKARIYA
1459	109777	MRS. AMRUTA SASWADKAR
1460	109778	MR. PRASHANT ARVIND KHOPKAR
1461	109779	MR. HEMANT RATANLAL MANTRI
1462	109785	MR. ASHOK OMPRAKASH BIYANI
1463	109793	MR. MANISH KUMAR NAVALAKHA
1464	109823	MS. MOUKTIKA SURESH JADHAV
1465	109831	MS. SHILPA MAULIN VORA
1466	109858	MR. ADITYA MAKARAND KOTIBHASKAR
1467	109870	MR. NIRDESH KARNAWAT
1468	109884	MR. NARAYAN SHRIVALLABH MUNDADA
1469	109886	MS. SUMAN SATYANATH HEGDE
1470	109887	MR. ANISH NITIN SHAH
1471	109895	MRS. SAGARI ASHER
1472	109966	MS. RUDRI BHARAT JOSHI
1473	110042	MR. ABDUL SAMAD PATEL
1474	110089	MR. KALPESH KANAIYALAL JOSHI
1475	110149	MR. GOPAL SHRIRATAN LAKHOTIA
1476	110157	MR. AVINASH EKNATH JAGDALE
1477	110169	MR. GOPAL KAMAL KHETAN
1478	110176	MR. PRATYUSH BHUPENDRA JAGDISHWALA
1479	110187	MS. MEENU AGARWAL
1480	110194	MR. DUSHYANT DILIP NAVLAKHA
1481	110223	MR. ADWAIT SATYAWAN MORWEKAR
1482	110237	MS. RADHA J TIBREWALA
1483	110238	MR. KAPIL VIJAYSINGH SETHIA
1484	110241	MR. RUPESH JAGDISH AGRAWAL
1485	110256	MR. SUDHIR MURARILAL JOSHI
1486	110267	MR. HIMANSHU MAHESHWARI
1487	110270	MR. MANISH BACHUBHAI JETHWA
1488	110281	MS. REENA RAMESH BAGLA
1489	110294	MRS. UMA RITESH SHETH
1490	110322	MR. BHUPESH DUNGARMAL AGARWAL
1491	110335	MR. VISHAL ATUL JOSHIPURA
1492	110349	MR. PARAG PRAKASH MEHTA
1493	110359	MR. RAVI RAJAGOPALAN
1494	110374	MR. PARIMAL PURUSHOTTAM SATHE
1495	110379	MRS. MINAL TEJAS SHARMA
1496	110386	MR. PRAKASH LAMSAL
1497	110393	MS. HEENA SEVAKLAL BHATHAWALA
1498	110406	MR. AJAYKUMAR SUBHASHCHANDRA JAJU
1499	110410	MR. MANISH KUMAR BANDI
1500	110433	MR. ASHISH RAMANIKLAL PATEL
1501	110460	MR. SUSHANT BHANSALI
1502	110478	MS. KARISHMA INDRAJEET SOLANKI
1503	110480	MRS. ANUJA KAUSHAL SHAH
1504	110484	MR. SANDEEP MANMOHAN MALPANI
1505	110485	MR. RAM D RAICHURA
1506	110499	MR. ASHISH MULCHAND GALA
1507	110503	MS. KAUMUDI OMPRAKASH MAHESHWARI
1508	110506	MS. JIGISHA PRAVINCHANDRA SHAH
1509	110512	MS. PRACHI VINAYAK KALE
1510	110514	MR. BHAIK NAVINCHANDRA MITHANI
1511	110518	MR. MANISH UTTAMCHAND JAIN
1512	110528	MS. ANAGHA JAYANT NADKARNI
1513	110529	MR. NILESH MUNDRA
1514	110539	MS. SMRUTI KISHORE KALYANPUR
1515	110562	MS. RITU KAMAL BAGREE
1516	110568	MR. NEVILLE KEKI MOTAFRAM
1517	110572	MR. NARENDRA DHIRAJLAL CHOKSHI
1518	110585	MR. SUDHIRKUMAR PANDURANG DALVI

S.No.	MRN	Member Name & Address
1519	110599	MRS. VRUSHALI MAKARAND POTNIS DAMLE
1520	110637	MS. RINA DHIRAJLAL SHAH
1521	110643	MR. RAKESH HARIPRASAD KASHIMPURIA
1522	110650	MRS. PREETI VIRAL MEHTA
1523	110654	MR. CHANDRASHEKHAR BABURAO HADKAR
1524	110668	MR. NINAD VIJAY KANADE
1525	110670	MS. KUNJAN JAYANTILAL VEERA
1526	110671	MR. GIRISH RAMNIWAS GUPTA
1527	110674	MS. MAMTA DWARKAPRASAD DHANUKA
1528	110680	MR. JACOB VARGHESE PAYRA
1529	110683	MR. AMAR MADHAV KALKUNDRIKAR
1530	110701	MS. PRESHEMA JHAWAR
1531	110706	MS. SANGITA VENKETASUBRAMANIAM IYER
1532	110726	MR. ASHOK KUNDER
1533	110745	MR. RAJESH GAGRANI
1534	110751	MR. NAYAN MAHESH SHAH
1535	110756	MS. APARNA KALMANJE RAMANAND ACHARYA
1536	110766	MS. APARNA RAJARAM MORE
1537	110768	MR. VIJAY PRAKASH BASANTANI
1538	110773	MR. SUJEET GANGADHAR DEULKAR
1539	110803	MR. BIREN BHARAT SHAH
1540	110818	MR. VINIT KOMAL JAIN
1541	110820	MR. HARICHANDAN DAYANIDHI
1542	110830	MR. SACHIN RAMCHANDRA LATH
1543	110844	MR. KAILASH KUMAR KATARUKA
1544	110847	MR. RAJESH SADANAND RAUT
1545	110855	MS. SAMEERA EBRAHIM KAZI
1546	110865	MRS. BINA NIMESH SHAH
1547	110883	MR. KAUSTUBH SATISH CHAUBAL
1548	110898	MR. GIRISH SATISHCHANDRA POONAM SHETTY
1549	110901	MR. SHAILESH GOKALDAS RUGHANI
1550	110919	MRS. DIPTI TAPARIA
1551	110947	MR. KEDAR PRABHAKAR SABNE
1552	110948	MR. SANTOSH SHANKAR KARANDIKAR
1553	110962	MS. AMRUTA ASHOK BANG
1554	110988	MR. AMIT RAJESHBHAI DOSHI
1555	111005	MR. DARSHAK RAMESH VORA
1556	111015	MRS. VRUSHALI VIBHAS KHOPADE
1557	111036	MS. KARUNA PARMESHWAR JAISWAL
1558	111071	MR. BINU PAUL
1559	111086	MR. GURMUKH ARJANDAS RAGHANI
1560	111092	MR. HIRANYA JAYSINH ASHAR
1561	111100	MRS. RASHMI VIKRAM MOHITE
1562	111108	MRS. APARNA SHRIRANG ATHAVALA
1563	111115	MR. MAULIN SAURABH DIXIT
1564	111158	MR. SANJEEV CHANDRANARAYAN RATHI
1565	111206	MR. PRADEEP AVADHOOT KHOT
1566	111214	MRS. RENUKA RAMAKANT SHEMBEKAR
1567	111215	MR. JAYESH KUMAR THAKKAR
1568	111218	MR. SACHIN RAGHUVIR GURAV
1569	111221	MS. NISHA CHANDRAN
1570	111228	MR. KASHYAP VORA
1571	111245	MS. DEEPA PADMANABHAN PINDATH
1572	111252	MR. CHETAN KIRANRAJ BHANDARI
1573	111266	MR. SHIJU RAVINDRAN KOLAT
1574	111278	MR. VIRAL JITENDRA THAKKER
1575	111279	MR. RAJESH GERIMAL PATHAI
1576	111284	MR. HARDIK VIJAY DALAL
1577	111307	MR. RAKSHIT HARI KUMAR KEJRIWAL
1578	111365	MR. VIKAS VINOD MUNDHRA
1579	111384	MR. RAHUL KANAIYALAL GANATRA
1580	111430	MS. SUJATA SANDEEP MEHTA

S.No.	MRN	Member Name & Address
1581	111436	MR. PRADEEP APPUKUTTAN PILLAI
1582	111446	MR. KASHYAP KIRIT PALICHA
1583	111460	MRS. KIRTI RAKESH AGRAWAL
1584	111465	MR. RAJAT DWARKA PRASAD SAWARIA
1585	111488	MR. HITESH ASHOK THAKKAR
1586	111497	MR. MANISH SATYAPRAKASH JAIN
1587	111500	MR. DHANANJAY SHASHIKANT MULAY
1588	111537	MRS. DEVAL RITESH SHAH
1589	111547	MR. NIMESH RAMESH VORA
1590	111548	MR. RAHUL CHANDRAN
1591	111555	MR. MITESH BIPIN VORA
1592	111563	MS. YUKTI BALJIT CHANDOK
1593	111571	MS. PRIYA VENKATRAMAN
1594	111589	MR. MANISH RAVI JAIN
1595	111618	MS. JAINA HARISH SHAH
1596	111627	MR. RAKESH HEMRAJ SANGHVI
1597	111629	MS. JIGNA NIRANJAN SHAH
1598	111650	MR. HARESH KISHINCHAND MELWANI
1599	111654	MR. AMIN JAMALUDIN NARSINH
1600	111658	MR. HEMANT DHANSUKHLAL WAGHELA
1601	111684	MRS. RUTA AMIT VAZE
1602	111705	MR. SANDEEP MANAKCHAND KEDIA
1603	111710	MR. RAJESH SHRIDHAR CHOWTA
1604	111742	MS. MOON MOON MAJUMDAR
1605	111746	MR. CHIRAG VINOD SHAH
1606	111766	MRS. POONAM SARANG JOSHI
1607	111774	MR. ANAND BADRI BALDAWA
1608	111795	MR. AJAY HANUMANT GIRME
1609	111801	MRS. DAKSHATA ASHISH AGARWAL
1610	111803	MR. SHRENIK SHASHIKANT PREMILA SHAH
1611	111808	MS. ALPA RAJU SUCHDE
1612	111823	MS. LARA ARAMITA MENEZES
1613	111824	MR. BIBEKANANDA NAYAK
1614	111855	MR. SAGAR PRAVIN LAKHANI
1615	111884	MR. SAMEER BIPIN GANDHI
1616	111889	MRS. GITA SACHIN VED
1617	111891	MRS. VRISHALI RAJAT NAYAK
1618	111929	MR. NEMISH BHARATKUMAR KAPADIA
1619	111963	MR. AMIT CHANDRA SINGH LODHA
1620	111969	MR. SAMIR PRASAD DAHAL
1621	111971	MR. AMIT S BHATIA
1622	111975	MR. NAVEEN KUMAR NAGABUSHANAM MANCHIKANTI
1623	111990	MR. VIKAS VINOD KAPOOR
1624	111993	MR. DEVANG DINESHCHANDRA BHATT
1625	111999	MR. VINOD MANSUKHLAL KAPADIA
1626	112009	MR. JITENDRA DHANUJI BHANUSHALI
1627	112024	MR. PINKESH KANTILAL SONI
1628	112030	MS. SURABHI NIRANJAN APARNA DEORAS
1629	112107	MR. ROSHAN SHETTY
1630	112115	MR. HARSH R PARIKH
1631	112149	MR. AMIT VASANT VAZE
1632	112185	MR. MANISH GAJENDRA BOHARA
1633	112254	MR. HAKIMUDDIN SHABBIR COLOMBOWALA
1634	112255	MS. BHAVINI HIMATLAL SHAH
1635	112264	MR. GAURAV KIRIT VORA
1636	112286	MR. VINAY KUMAR GAIROLA
1637	112295	MR. SACHIN JAIN
1638	112305	MS. SUPRABHA SOMANATH KARANTH
1639	112335	MR. HITESH ASHOK MADAN
1640	112372	MR. MANISHKUMAR KANTILAL TAKWANI
1641	112393	MS. RASHMI NILKANTH WALKER
1642	112400	MS. RASHMI MOTILAL AGRAWAL

S.No.	MRN	Member Name & Address
1643	112407	MR. HEMANTKUMAR NIRMALKUMAR NAYYAR
1644	112515	MR. DEVENDRA RAMESHCHANDRA BHATT
1645	112524	MR. DEEPAK CHANDARPRAKASH PUSHKARNA
1646	112527	MR. SUSHIL SAJJANLAL KATARIYA
1647	112536	MR. KRISHNA NITIN KANAKIA
1648	112540	MS. PALLAVI SHARAD WARANG
1649	112544	MS. JYOTI PADMAKAR PALLAVI PHADKE
1650	112545	MR. AMRISH HASMUKHBHAI SHAH
1651	112558	MR. SUYASH SUDHIR PATWARDHAN
1652	112560	MR. SAGAR SUDHIR KANETKAR
1653	112579	MS. MAMTA MISHRA
1654	112633	MR. AMOL CHINTAMANI SHRINGARPURE
1655	112645	MR. GIRISH PRAMOD SOLANKI
1656	112650	MR. MANISH NARPATSINGH LUNIA
1657	112667	MS. JANNINE NICHOLAS FERNZ
1658	112705	MR. ROHIT SUDHEER BHAGADE
1659	112712	MR. ASHISH CHATURVEDI
1660	112714	MR. ABHISHEK GATTANI
1661	112716	MR. ATUL AGRAWAL
1662	112724	MRS. HETAL YASH KOTAK
1663	112740	MR. AKSHAY S DIXIT
1664	112742	MS. SHRIVIDHYA JAMBULINGAM
1665	112753	MR. JITENDRAKUMAR RASIKLAL SANGHAVI
1666	112759	MR. CHETAN SURESH KINI
1667	112789	MS. VEENA PURSHOTTAM NAIDU
1668	112804	MR. ANIL PAMECHA
1669	112807	MR. PRAVIN BABU SHETTY
1670	112814	MR. LALITROHAN VISHNU BARHATE
1671	112815	MS. KIRTI JAYARAM SHETTY
1672	112816	MR. SANDEEP JAYARAM SHETTY
1673	112879	MR. PAVAN MILAN JAIN
1674	112882	MS. SREELEKHA MANIYAN
1675	112906	MR. NISHANT SADANAND PRASAD
1676	112915	MR. HARSHVARDHAN MANMOHANKRISHAN BIHANI
1677	112917	MR. HARSHAD SUBHASH KALE
1678	112935	MR. PANKAJ MULCHAND LATORIA
1679	112942	MR. BRAJESH PALSANIYA
1680	112954	MR. RAJENDRA BABU P
1681	112965	MR. ASHISHKUMAR KIRITKUMAR MAKATI
1682	113026	MS. SHALINI R PRAKASH SHUKLA
1683	113028	MR. RAMMOHAN MANJESHWAR RAO
1684	113030	MR. SUDHIR J SHETTY
1685	113043	MR. VIKAS JITENDRA GANDHI
1686	113050	MR. RAHUL SURESHCHANDRA SHAH
1687	113064	MR. SACHIN LAXMICHAND SAVLA
1688	113092	MR. GAURAV PARMANAND AGRAWAL
1689	113099	MRS. VAIBHAVI NAVEEN JAIN
1690	113111	MS. PRITI LALITKISHORE KAPUR
1691	113127	MR. AMIT PRADIP SHAH
1692	113140	MR. ASHISH BHARAT SHAH
1693	113150	MS. MANALI CHITTANATH PATIL
1694	113186	MR. BRIAN JOAQUIM FERNANDES
1695	113189	MR. BHUPESH KALYANI
1696	113212	MS. SMITHA V PILLAI
1697	113224	MR. SATISH JAYARAM
1698	113226	MRS. PURVI SACHIN MEHTA
1699	113236	MR. SHEETAL SONI
1700	113283	MR. VIMAL VASANJI GALA
1701	113317	MR. MAYANK SHYAM THATTE
1702	113323	MR. BENNY JOSE
1703	113334	MR. SACHIN SODANI
1704	113338	MS. RADHIKA PRAKASH HULYALKAR

S.No.	MRN	Member Name & Address
1705	113356	MRS. RADHIKA VINAY BALIGA
1706	113362	MRS. SMRITI SATISH MODY
1707	113420	MR. VINEET DINESH MISHRA
1708	113433	MR. PRASAD ULHAS KHATKUL
1709	113436	MR. KEYUR KIRTI SONI
1710	113444	MR. MUKESH GULRAJ MEHTA
1711	113448	MS. MITAL VINOD GANDHI
1712	113449	MR. HIREN NARENDRA SHAH
1713	113462	MR. SALIM JAMIL KHAN
1714	113463	MR. ABHIJIT KIRAN RUNWAL
1715	113480	MR. RAJIV DHANESH GANDHI
1716	113485	MS. NEHA SURESH DAVE
1717	113488	MS. SONAL JAYANT WAD
1718	113501	MR. AMIT ARUN SHARMA
1719	113509	MR. VIKAS SANTOSH JAIN
1720	113545	MS. SUPRIYA RAJENDRA SHAH
1721	113566	MS. VIDYA VAIDYANATHAN
1722	113572	MR. MAKRAND ANANT TIPRE
1723	113578	MR. ALPESH MADHUSUDAN ADODRA
1724	113588	MR. MAHESH KUMAR SUBHASHCHANDRA BAHETI
1725	113589	MS. KIRTI SURESH AJWANI
1726	113594	MR. SIDDHESH PRAKASH MAHADDALKAR
1727	113596	MR. RAJESH ROHIT MEHTA
1728	113636	MS. KAVITA PADAMCHANDJI POKHARNA
1729	113641	MR. SAJID ALI ABDUL KADIR KHAN
1730	113655	MR. ANSHUL BHARGAVA
1731	113656	MR. HIRENKUMAR ASHVINBHAI PANDYA
1732	113660	MR. SHRIPAD SUBHASH INAMDAR
1733	113680	MR. RAKESH JAGETIYA
1734	113686	MR. RAJEEV TOSHNIWAL
1735	113706	MR. BHAVESH CHHOTALAL PARMAR
1736	113711	MS. DEVI KAMESHWARI MANGIPUDI
1737	113712	MR. ABBAS ASGARALI RANGWALA
1738	113723	MR. ABHIRANJAN BIHARI
1739	113726	MR. SEBASTIAN FRANCIS
1740	113740	MR. HARSHAD SHRIPAD KHURJEKAR
1741	113745	MR. SIDDHARTH NYATI
1742	113750	MS. SHREYA KISHORE DEOTARASE
1743	113766	MS. JIGNA HARSHADBHAI THAKER
1744	113778	MS. DEEPTI AVINASH SHAH
1745	113790	MR. VAIBHAV KUMAR AGARWAL
1746	113792	MR. ASHUTOSH DHANANJAY SINGH
1747	113804	MR. ARUN LAXMAN PRASAD AGARWAL
1748	113843	MR. DINAR PRAKASH DAPTARI
1749	113846	MR. SUJAY GIRISH SHAH
1750	113861	MS. PALLAVI SURYAKANT JADHAV
1751	113892	MR. PANKAJ KEDIA
1752	113897	MR. ABHISHEK RADHESHYAM AGRAWAL
1753	113900	MRS. MADHVI HEMANT DABKE
1754	113903	MR. JAYPRAKASH MOHANLAL CHECHANI
1755	113919	MR. KARTIK HARSHADBHAI SOLANKI
1756	113935	MR. YOGESH DATTARAM PEDNEKAR
1757	113985	MR. SAGAR SURESH DANI
1758	113996	MR. SUNIL INDRAKUMAR HOTCHANDANI
1759	114058	MR. ARVIND BAPUSAHEB KALE
1760	114065	MR. VIVEK VIKAS PATANKAR
1761	114071	MR. AVANEENDRAN N
1762	114093	MR. PUNIT JAIN
1763	114106	MR. RUCHIR CHANDAK
1764	114112	MR. JATIN DIDWANIA
1765	114115	MRS. JAIYEENI ANAND VEERKAR
1766	114123	MR. ARUN VISHNU BEDEKAR

S.No.	MRN	Member Name & Address
1767	114151	MR. SATISH KUMAR JAIN
1768	114161	MR. CHANDRASHEKAR BALASUBRAMANIAM
1769	114168	MS. MANISHA VEDPRAKASH
1770	114198	MRS. BHARTI N VACHHANI
1771	114242	MR. AKHILESH ASHOK DHARMADHIKARI
1772	114245	MRS. MAMTA SANJAY ALMEIDA
1773	114267	MR. ROHIT ASHOK PODDAR
1774	114281	MR. SAMIR UTTAMRAO JAGANADE
1775	114319	MR. DEVANG GOPALLAL SHARMA
1776	114324	MR. SAKET JYOTINBHAI SHAH
1777	114339	MR. JITENDRA SONI
1778	114348	MR. SACHIN CHAMADIA
1779	114381	MR. SHASHIBHUSHAN MAHABIRPRASAD JOGANI
1780	114388	MR. KISHORE VENKAT
1781	114402	MR. KUNAL YASHWANT VICHARE
1782	114441	MR. MANU VAIKUNTHNATH PANDE
1783	114442	MR. RUPESH MADHUKANT THAKKAR
1784	114452	MR. NEHRU SUBRAMANIAM
1785	114465	MR. JAYESH JANARDAN CHAVAN
1786	114526	MS. SONA NARENDRA RAVANI
1787	114528	MR. BHARAT KUMAR
1788	114535	MR. NARENDRA NATH SHARATCHANDRA BHAT
1789	114551	MS. SHALAKA SHASHIKANT MORYE
1790	114587	MR. ASHWANIKUMAR SUSHILKUMAR LADHA
1791	114602	MR. ABHISHEK RAJENDRAKUMAR KABRA
1792	114631	MR. DANNY JOHN FERNANDES
1793	114648	MR. VISHAL CHIRANJILAL GABDA
1794	114695	MS. NIKITA DILIP MALTI SHAH
1795	114711	MR. RITESH FATEHCHAND RANAWAT
1796	114725	MR. AKASH KANWARLAL BAFNA
1797	114736	MR. JAYANDRA KRISHNA NAYAK
1798	114748	MS. SARIKA ANKUSH SURVE
1799	114796	MR. DHAVAL PRAMODCHANDRA VAKHARIA
1800	114798	MR. REETESH MELARAM GUPTA
1801	114801	MR. JIGNESH CHANDRAKANT MEHTA
1802	114802	MR. BIPIN SHANKER MORE
1803	114809	MR. MANISH NANDLAL TAKRANI
1804	114811	MR. UTKARSH LALIT BANDI
1805	114813	MRS. SHRADOHA GANESH IYER
1806	114819	MS. NIPA PARIMAL GANDHI
1807	114820	MS. REKHA DATTATRAY GAIKWAD
1808	114825	MR. KEYUR HEMENDRA SHAH
1809	114849	MR. HASEEN AHMAD RASHEED AHMAD KHAN
1810	114856	MS. PRITAM ASHOK NARSALE
1811	114859	MS. NASREEN MOHOMED ISMAIL SHAIKH
1812	114868	MRS. NAWAZ ARFAKHASHAD VARAWALLA
1813	114873	MRS. MINAL HEMAL GOHEL
1814	114883	MR. VAIBHAV DATTATRAYA DESHPANDE
1815	114886	MR. NIRMANSU SHAH
1816	114908	MR. AMITKUMAR RAJENDRA PRASAD SINGHANIA
1817	114916	MR. MUKESH KUMAR SHARMA
1818	114925	MR. MANGESH KALYANRAO DIXIT
1819	114962	MR. MARUTI VINODBHAI PATEL
1820	114963	MR. SHARAD S MOHNOT
1821	114979	MR. RAJESH VALLABHJI NAGDA
1822	114985	MR. NILESH JITENDRA MALAVIA
1823	114990	MR. ANIL KUMAR CHOMAL
1824	114996	MS. SHITAL CHINTAMANI PRABHUNE
1825	115003	MS. HEMALI HARISHKUMAR DOSHI
1826	115004	MR. MANISHKUMAR PRAKASHRAJ KOTHARI
1827	115024	MR. ASHISH ASHOK KUMAR TULSIAN
1828	115057	MR. NAVENDU BISWAL

S.No.	MRN	Member Name & Address
1829	115071	MR. KISHOR
1830	115091	MR. AVINASH BAGDI
1831	115125	MS. BHARTI RAMESH SHAKUNTALA GANDHI
1832	115174	MR. MUSTAFA ABDULHUSAIN KAGALWALA
1833	115195	MR. KAMAL MOHAN JAIN
1834	115199	MR. DILIP RAJKUMAR SHAH
1835	115225	MR. AMAR ASHOK DATAR
1836	115247	MR. ATIT DEVENDRA SHAH
1837	115272	MS. JAYA RAJAN MEENA LALWANI
1838	115276	MR. PRASHANT VIJAY KAITKAY
1839	115281	MR. SRIRAM SRINIVASAN
1840	115283	MR. SK ABDUL RAHIM
1841	115291	MR. SUNIL GOPALDAS VASWANI
1842	115298	MR. ASHISH NANDKISHOR SHARMA
1843	115302	MS. CELINE AGNEL D'SOUZA
1844	115315	MR. ARNAB PRANAB CHAKRABORTI
1845	115320	MR. RAKESH JAIN
1846	115321	MS. NEHA RASIK KAMDAR
1847	115329	MR. ASHISH KUMAR JAIN
1848	115349	MR. SURESH CHANDRA RAM KRIPAL BIND
1849	115351	MR. VISHAL CHANDRAKANT VYAS
1850	115362	MS. PAYAL SANJAY SATALKAR
1851	115407	MR. RAVISHANKAR NITINKUMAR PODAR
1852	115416	MR. GYANESHWAR YADAGIRI KATARAM
1853	115460	MR. AJAY MOTILAL NARDHANI
1854	115484	MR. KALPESH KUNTILAL MUTHA
1855	115489	MR. MUFAZZAL TAHER SADRIWALA
1856	115491	MR. JAYADEV ARAVINDAKSHAN SARASWATHY NAIR
1857	115518	MR. SANDEEP JAIN
1858	115537	MR. AMOL GOPINATH PATIL
1859	115540	MS. MANASI SURESH PARADKAR
1860	115548	MS. KAJAL HEMANT PATEL
1861	115553	MS. NIKITA CHANDRAKANT MODY
1862	115565	MS. MEENA ISSARDAS LALWANI
1863	115574	MRS. HEMLATA SANJAY SAINANI
1864	115582	MR. ADITYA HEMANT KORKE
1865	115587	MR. SAGAR ANIL DHARMADHIKARI
1866	115617	MS. NILI YOGESH PARIKH
1867	115640	MR. JIGAR JEETENDRABHAI MISTRY
1868	115642	MS. KINJAL MAHENDRABHAI SHAH
1869	115643	MS. PREETI PANDURANG WADEKAR
1870	115654	MR. VISHRANG KIRTIKUMAR SHAH
1871	115671	MS. TINA RAMESH BOLAKANI
1872	115690	MS. P. SANGEETA EKNATH RAO
1873	115693	MR. RUPINDERSINGH BHUPINDERSINGH ARJANI
1874	115716	MS. SHUBHADA SOMAJI DALVI
1875	115742	MR. KEDAR SHANKAR MUCHANDI
1876	115766	MR. ANAND NANDLAL MUNDADA
1877	115804	MR. PANKAJ BALDUA
1878	115811	MR. MANISH RAMESHLAL MAMTANI
1879	115812	MR. PRATEEK RADHESHYAM AGRAWAL
1880	115815	MR. ASIF SABJAN SHAIKH
1881	115821	MR. HITEN NATWARLAL ASHA DAVE
1882	115823	MR. ATAL K CHUG
1883	115824	MR. SAURABH MAHAJAN
1884	115841	MS. DHARA ASHOK MISTRY
1885	115842	MR. KETAN ARAJANBHAI BHUT
1886	115849	MR. VIJAY MAHENDRA SHAH
1887	115893	MR. MANISH BANKEBIHARI VYAS
1888	115896	MR. SACHIN RAMESHCHANDRA MEHTA
1889	115907	MR. VINISH MAHESHWARI
1890	115919	MR. NILESH VIJAY BHAGWAT

S.No.	MRN	Member Name & Address
1891	115962	MRS. RITU RUCHESH MEHTA
1892	115996	MR. YOGESH RAJENDRA BOTHRA
1893	116006	MR. TEJAS BHUPENDRA DIPIKA SHAH
1894	116010	MRS. DEVAKI SUOHANWA KALAMKAR
1895	116024	MRS. ANUJA MAKARAND DEO
1896	116035	MS. SMITA VICTOR D'SOUZA
1897	116049	MR. SMIT NARENDRA SHETH
1898	116077	MR. GAUTAM SHRIKANT RADHA MARATHE
1899	116107	MR. AGARWAL ARUN
1900	116112	MR. SHYAMKUMAR MADANLAL KAMALA AGRAWAL
1901	116118	MR. NARINDER PAL BHUPINDER SINGH BHATIA
1902	116151	MR. JAYANTILAL BHAVAN PATEL
1903	116170	MR. ASHWIN ARVIND BIJUR
1904	116188	MR. SIDDHARTH SHYAM SHETYE
1905	116198	MR. VINAY SUDESH KUMAR SETH
1906	116221	MS. PAURNIMA HASMUKH SUCHETA SHAH
1907	116234	MR. KALPESH RATILAL CHAVDA
1908	116245	MR. ROHIT RAJENDRA PATORIA
1909	116252	MS. PRAJAKTA VASUDEO ALKA GADRE
1910	116261	MR. ROOPAM SACHIDANAND BHURKE
1911	116299	MS. SHWETA DAGA
1912	116324	MS. SNEHA MANHARLAL SHAH
1913	116396	MR. RAJAN SHASHI LAXMAN
1914	116461	MR. BHARAT HARISH JOSHI
1915	116475	MS. HETAL PRADEEP MEHTA
1916	116499	MR. SRIVATSAN JAIRAM IYER
1917	116502	MS. NIKITA JITENDRA SHAH
1918	116519	MR. SHARAD NANDKISHORE DARAK
1919	116528	MR. ANANTHAKRISHNAN S IYER
1920	116552	MS. GARIMA
1921	116569	MR. SAMIR CHANDRAKANT JOSHI
1922	116570	MR. ASHISH PARMANAND SUDHA AGARWAL
1923	116590	MR. MEHUL PREMAL SUKKAWALA
1924	116611	MR. HIRENKUMAR HEMENDRA SHAH
1925	116614	MR. CHARUDATTA RAJAN MANTRI
1926	116618	MS. DEEPAI HARISH DATTA
1927	116619	MR. BHAVIN SHANTILAL GANDHI
1928	116625	MR. SANDEEP RAJKUMAR CHAMADIA
1929	116633	MR. JITENDRA RAMDAS KHALPADA
1930	116635	MR. DIGESH MANILAL RAMBHIA
1931	116641	MR. NILESH RAMESH NIKAM
1932	116677	MS. PRACHI SUBHASH SUCHITA THAKUR
1933	116689	MRS. RINKU N DARYANI
1934	116701	MS. MADHAVI KIRAN SHAH
1935	116709	MS. RESHMA SUBHASH KULKARNI
1936	116728	MR. ROHIT DHANRAJ SARDA
1937	116761	MR. CHINTAN MUKESHBHAI DIXIT
1938	116763	MR. JAYSHEEL KASHYAP VACHHRAJANI
1939	116767	MRS. JOY MARIA MELVINE MATHIAS
1940	116825	MR. ROHAN KISHOR GHARE
1941	116847	MR. PAVAN RAJENDRA KHABIYA
1942	116858	MS. SNEHAL DAMODAR BALAPURE
1943	116863	MS. PRIYA K R KANNAN
1944	116866	MR. SACHIN DEVICHAND JAIN
1945	116924	MRS. VARSHA SALEEL JOSHI
1946	116956	MS. RAJESHWARI VEERAMANI IYER
1947	116963	MR. AMIT KISHOR BHUTA
1948	116965	MR. IMRAN AHMED MOHAMMAD JAFFAR
1949	116977	MS. TORAL CHANDRAKANT PANDYA
1950	116979	MR. ADITYA RAJKUMAR BAJAJ
1951	116991	MR. MANISH VINODCHANDRA SOLANKI
1952	116994	MS. SARIKA RAMESHCHANDRA SHAH

1953	117006	MR. KABRA BRAJESH
1954	117019	MR. NIRMAL DILIP GANDHI
1955	117024	MR. SANTOSH ANANTHAKRISHNAN IYER
1956	117032	MS. DIPALI GAJENDRA SAMPAT
1957	117049	MR. PRANAY ATUL SAFARI
1958	117054	MRS. BHAKTI AMOL PATIL
1959	117056	MS. MEGHA RAMESH MAJITHIA
1960	117068	MR. PARAS MANUBHAI MODI
1961	117069	MR. SANJAY KUMAR JAIN
1962	117082	MR. VIPUL CHOUDHARI
1963	117083	MR. SAMEER NAZIR SHAIKH
1964	117094	MR. RAMAMURTHY JAYARAMAN
1965	117103	MR. BHAWANI SHANKAR
1966	117175	MR. AMIT HEMCHAND SHAH
1967	117196	MR. SHLESHANK SIDDHARTH LAHERI
1968	117203	MR. DEEPAK NAWAL
1969	117225	MR. RAJIV NANDKISHOR KHANDELWAL
1970	117229	MR. SUMIT KANHEYALAL TAWARI
1971	117258	MR. RANJITHKUMAR HERIYA BILLAVA
1972	117265	MS. RESHMA LIYAQUAT INAMDAR
1973	117275	MR. MAYANK SUSHIL KABRA
1974	117278	MR. BITTU VARGHESE NELLISSERY
1975	117326	MS. LEENA ANAND WALAWALKAR
1976	117329	MR. SANDESH BHASKAR SHETTY
1977	117339	MR. TRIYOG RAJIV PANDYA
1978	117340	MR. VIJAY EASWAR
1979	117387	MR. PINKESH JAGDISH JASANI
1980	117395	MR. JOSEPH GEORGE CHIRIYANKANDATH
1981	117418	MRS. JAYSHREE VIRAL KARIA
1982	117467	MR. RAHUL RAVINDRA RAJ MEHTA
1983	117483	MR. CHETAN SITARAM NARSULE
1984	117517	MS. SAKINA SHABBIR UJJAINWALA
1985	117518	MS. VIDULA MUKUND SAWLAPURKAR
1986	117524	MS. ROSHNI GAVITH BARBOZA
1987	117531	MS. SVAATHI SUBRAMANIAN
1988	117548	MR. SANJEEV JAIPRAKASH MAHESHWARI
1989	117567	MR. ARSAD ALI
1990	117585	MR. MANISH BAGARIA
1991	117588	MR. VENKATRAMAN VENKITACHALAM
1992	117600	MR. AMIT SURESHCHAND CHHALLANI
1993	117623	MR. JITENDRA TUKARAM RAHATE
1994	117635	MR. DIPEN RAMESH SHAH
1995	117640	MS. JAGRUTI JANARDAN SAWANT
1996	117647	MS. ROSELYN LAWRENCE PEREIRA
1997	117668	MS. APARNA RAMESH SUDHA MODI
1998	117673	MRS. LOVELEENA PATNI
1999	117689	MS. REEMA IRFAN KHAN
2000	117691	MR. ARVIND SHARMA
2001	117697	MR. DEEPAK MOONDRA
2002	117700	MR. ABHIJIT ANIL SONTAKKE
2003	117712	MR. CHINTAN VIJAYKUMAR DEVALIA
2004	117732	MR. MOHINDER S CHAWLA
2005	117757	MRS. ANNAPURNA RAMESH
2006	117759	MS. NISHA MAHESHCANDRA SARLA PODDAR
2007	117761	MR. ANIRUDH SOMANI
2008	117763	MS. SARITHA MURALIDHARAN MENON
2009	117769	MR. RAVIRAJ DIWAKAR BHAWE
2010	117826	MR. AMIT KIRTI THAKKAR
2011	117853	MR. MANDAR SHRIKANT JOSHI
2012	117863	MS. HARSHADA VINAYAK SAMANT
2013	117875	MR. ANKUSH RAMCHANDRA LUHANA
2014	117887	MR. SUMITKRISHNA CHANDRA

2015	117890	MR. SANDEEP KUMAR SATEESHBHAI SHAH
2016	117902	MR. MADHAV SHRIRAM PARANJPE
2017	117907	MR. SUMIT SAJJAN LUNKER
2018	117932	MR. NOORUDDIN HUSAIN
2019	117943	MS. HEMAL TARACHAND GALA
2020	117960	MR. JAINULABEDIN ABDULRAHEMAN HAKIMJI
2021	118003	MR. VAJIHUDDIN SHAMSUDDIN HUSENI
2022	118010	MS. VRUNDA SHARAD ASHA DIXIT
2023	118011	MR. APOORVA NITIN BAID
2024	118028	MS. GARIMA KRISHNAKUMAR SHAKUNTALA DEORA
2025	118040	MR. GIRISH CHANDRAN NAIR
2026	118045	MS. ADITI MUNNALAL JAIN
2027	118066	MR. HOZEFA SHABBIR NAFISA JAWADWALA
2028	118074	MR. AMIT KUMAR KULKARNI
2029	118084	MS. DIPTI PRABHAT SINGH
2030	118101	MS. HENNA AVTAR SINGH MINHAS
2031	118146	MS. ANU ABRAHAM
2032	118150	MR. AMIT BHALCHANDRA BARASKAR
2033	118159	MR. SUBODH SANJIV RAO
2034	118164	MR. NARENDRA GAJANAN WADADEKAR
2035	118204	MR. AVIL JEROME GRACY MENEZES
2036	118217	MR. PRASAD PRABHAKAR JOSHI
2037	118231	MR. JIMISH ARVIND SANGHAVI
2038	118264	MR. NEERAJ ASHOKKUMAR GANGWANI
2039	118274	MR. JAYKUMAR PESUMAL ARLANI
2040	118380	MR. JOHN SYDNEY DIAGO D'SOUZA
2041	118397	MR. RITESH DILIPBHAI KOTAK
2042	118421	MR. IMTIYAZ MOHAMMED ALI SHAIKH
2043	118424	MR. VAIBHAV RAMNIK SARITA BAXI
2044	118434	MR. SAMIR BHAGUBHAI GAJJAR
2045	118436	MS. NISHA ARUN KHETAN
2046	118440	MR. BHAVIN N SHAH
2047	118455	MR. ASHISH SHYAMLAL CHHANGANI
2048	118492	MR. SAMIR MURLIDHAR MAHAJAN
2049	118510	MS. KAJAL HARISHCHANDRA JAIN
2050	118523	MR. MURTAZA YUSUFBHAI HINGANGHATWALA
2051	118529	MR. HITESH TARACHAND BEHRA
2052	118530	MR. NIRAV ASHOK MEHTA
2053	118534	MR. SUNIL SHAMRAO PATIL
2054	118540	MR. NIRAV LAXMICHAND MAMNIYA
2055	118591	MR. NIBUKUMAR CHANDRASEKHARAN NAIR
2056	118594	MR. PRAMOD GAJANAN RELEKAR
2057	118603	MS. ANUPAMA SINGH
2058	118604	MR. ANIRUDDHA KRISHNA DESHPANDE
2059	118621	MR. YOGESH SATISH SUSHILA KUWAD
2060	118624	MR. SAURABH VIJAYVERGIA
2061	118636	MR. PRAVEEN DAD
2062	118651	MS. KARISHMA MEHTA
2063	118659	MR. ABHAY AGAM PRAKASH GOYAL
2064	118671	MR. AMIT KUMAR CHOUDHARY
2065	118682	MS. SAILEE SHAM WAGH
2066	118689	MR. VISHAL KAMALKISHORE JOSHI
2067	118692	MR. SANDIP KRISHNAKAMAL BHURE
2068	118696	MR. GAURAV DINESHCHAND KOTHARI
2069	118704	MRS. KAVITA HITESH HAKANI
2070	118734	MS. KALPNA SURESHLAL HASSIJA
2071	118735	MR. ROSHAN JAIN
2072	118741	MR. HITESH JAGDISH SHAH
2073	118749	MR. SACHIN NAGARMAL GUPTA
2074	118752	MR. CHINTANKUMAR ARVINDBHAI VYAS
2075	118757	MR. RISHI RATHI
2076	118764	MR. CHETAK SHESHMAL LALWANI

2077	118774	MR. SAAD RAUF SURTI
2078	118790	MR. HARI SHANKAR MODI
2079	118795	MR. PRASHANTH RAMANATHAN MENON
2080	118796	MR. ANOOP VIJAY KAYAL
2081	118801	MRS. KIMAYA ROOPESH SHAH
2082	118803	MS. PRITI PREMANAND KANE
2083	118831	MR. NAVTEJ RAMESH VARSHA THAKKAR
2084	118849	MR. SANDIPKUMAR ARVINDKUMAR KOTHARI
2085	118869	MS. DIVYA SWAMINATHAN
2086	118880	MR. ANKUR MANGAL
2087	118889	MRS. HIMANI BADONI
2088	118899	MS. ASMITA BHALCHANDRA LAGU
2089	118906	MR. AMOL RAMESH GHONGE
2090	118921	MR. MANGESH SHAMRAO TEKADE
2091	118949	MR. NIRANJAN GAJANAN BANODKAR
2092	118996	MR. DEVANG YOGESH BUDDHADEV
2093	119042	MR. KAILASH SHYAMLAL SAHETYA
2094	119050	MR. KARAN RAVINDER TALWAR
2095	119061	MR. HARSHAL NIRANJAN TALATI
2096	119062	MR. PRANAY MITHULAL AGRAWAL
2097	119068	MS. PALLAVI ARVIND HARDAS
2098	119076	MS. GOURI RAJAN
2099	119081	MR. PUSHKARAJ VASANT VARTAK
2100	119091	MS. MAITHILI VIJAY KHOT
2101	119093	MR. GAGAN CHATURVEDI
2102	119095	MR. MIHIR DEEPAK BHANSALI
2103	119104	MS. PRADEEP KULWANTSINGH SOODAN
2104	119109	MS. SALONI SARANG SHAH
2105	119122	MR. SUMEET YOGESHBHAI DESAI
2106	119143	MR. BALMUKUND SOMANI
2107	119150	MS. DIVYABEN NAVNITLAL PRAJAPATI
2108	119154	MR. ANIRBAN SHYAMAL SEN
2109	119162	MR. SHIVANAND BHOJA SHETTY
2110	119164	MS. RITU SURENDRANATH MAHESHWARI
2111	119169	MR. ANUPAM LAHOTI
2112	119175	MR. CHETAN ANIL DESHMUKH
2113	119179	MR. SWAPNIL SHANTILAL JAIN
2114	119192	MRS. DEEPTI TUSHAR MASURKAR
2115	119211	MR. NAVIN CHANDRA LODHA
2116	119219	MS. ABHILASHA ARUN PANDE
2117	119235	MR. VIKAS CHANDAK
2118	119250	MS. MALINI UNNIKRISHNAN
2119	119285	MR. NARENDRA SONI
2120	119298	MS. SHARMILA GHANSHYAM RANAWAT
2121	119301	MS. MANASI SANJAY DADARKAR
2122	119308	MS. ASHA JAYANTILAL THAKKAR
2123	119313	MR. JITENDRA JAYANTILAL MASHRU
2124	119337	MS. AMITA ASIM KUMAR SENGUPTA
2125	119346	MR. AASHISH THOMAS BAPTISTA
2126	119359	MR. ANAND JAIN
2127	119367	MR. BHAGWAN SWAROOP GAGRANI
2128	119370	MR. ANOSH ATIL NANDINI KOPPIKAR
2129	119385	MR. SURYANARAYANAN HARIHARAN
2130	119416	MS. PAYAL ARUN KANITKAR
2131	119448	MR. SHRINIVAS ASHOK KULKARNI
2132	119455	MR. GANPAT KISAN LAMKHADE
2133	119456	MRS. SANGITA SUMEET BADALE
2134	119460	MS. DIPTI MAKARAND KANADE
2135	119512	MR. MURTAZA ABBAS KHANDWALA
2136	119519	MS. PALLAWI MANASUKH CHHAJED
2137	119541	MR. HARSHIT AJITBHAI SHAH
2138	119542	MS. MITA ANIL GOURI SAMANT

2139	119561	MR. YASH VIJAYSINGH SETHIA
2140	119614	MR. SATCHIT MUKUND SAGADE
2141	119634	MRS. SNEHAL SANDESH KARWA
2142	119637	MR. RAHUL MEHTA
2143	119642	MR. JITENDRA BAJRANG LAL GUPTA
2144	119648	MR. HIMANJAL JAGDISHCHANDRA BRAHMBHATT
2145	119668	MR. DATTATRAYA SUDAM BHALERAO
2146	119678	MR. JAYESH MADHUKAR JADHAV
2147	119696	MR. CHINTAN UPENDRAKUMAR DAVE
2148	119705	MR. NACHIKET VISHWANATH DESHPANDE
2149	119755	MR. NITIN MADANLAL ZANWAR
2150	119757	MR. SANJAY OMPRAKASH SETHI
2151	119779	MS. MAMATA JAYARAM SHETTY
2152	119815	MR. KAMLESH CHECHANI
2153	119817	MR. KAMLESH MOTI SIDHWANI
2154	119837	MR. MANOJ MADHAV RAMANE
2155	119843	MRS. TEJAS DEVENDRA PARULEKAR
2156	119858	MS. JANET AUGUSTINE SERRAO
2157	119863	MR. HATIM ALI
2158	119873	MR. ABHISHEK VIJAY BAGWE
2159	119884	MR. SIDDHARTH SHRIPAL BACHHAWAT
2160	119896	MR. KARAN CHANDER MOHAN VEENA KHANNA
2161	119897	MR. AJAY BORDIA
2162	119928	MR. MANISH TULSI RAM SUNITA KAYAL
2163	119931	MS. FARNAZ JIMMY KHORSHED TALATI
2164	119939	MR. DILRAJSINGH NUPINDERSINGH VILKHU
2165	119946	MR. RAHUL BHOJWANI
2166	119949	MR. ASHWIN CHANDRAKANT NITA PAI
2167	119959	MS. SMITA PREMCHAND JAIN
2168	119965	MR. MANISH MUNDRA
2169	119990	MS. RASHMI RATNESH NANGIA
2170	119999	MR. SUHAS BHANUDAS GAWALI
2171	120003	MR. ANKUR PAWAN KUSUM AGARWAL
2172	120006	MR. KUNAL PRAFUL MALVIKA SHAH
2173	120010	MR. ASHISH GOYAL
2174	120026	MR. MANOJ PYARELALJI AGARWAL
2175	120099	MR. TEJAS BIPINCHANDRA GANDHI
2176	120119	MR. YOGESH ATMARAM RUKMANI DHARNIDHARKA
2177	120159	MRS. NAYNA PRITAM MAHADIK
2178	120165	MR. SHREEKUMAR NARAYANA PILLAI
2179	120174	MR. ANIL RAMGOPAL LATA
2180	120193	MS. HEMAKSHI DILIP KOTHARI
2181	120278	MR. AKHILANANDA CHOUDHURY
2182	120283	MR. ABHISHEK KUMAR JAIN
2183	120290	MR. AMOL PRABHAKAR ANAGHA WAIRKAR
2184	120343	MR. ROHIT PRAKASH SOMALWAR
2185	120349	MRS. RADHA NILESH NIKHADE
2186	120361	MR. ROHIT FUTARMAL SAJJAN JAIN
2187	120373	MR. NITIN NAROTTAMBHAI TARSARYA
2188	120374	MRS. SHEETAL KAUSHAL SHAH
2189	120396	MS. PRERNA VARMA
2190	120401	MR. HIRAL JAYANTILAL SHAH
2191	120413	MS. SAJITHA BEGAM PEER MOHAMED
2192	120418	MR. ANAND SATISHKUMAR BHUTADA
2193	120421	MR. MAHESH KHANDLWAL
2194	120425	MR. PUNIT MAHARAJKRISHAN PURI
2195	120429	MR. VIVEK RAJENDRABHAI RAJANI
2196	120451	MR. RAJESH NANDLAL MUNDADA
2197	120475	MS. PUNAM RAMESH RANI SHARMA
2198	120479	MR. KUNAL JASHAWANT REKHA DHARIA
2199	120492	MR. MURTAZA PARTAPURWALA
2200	120508	MR. VIPIN BIHARI GOYAL

2201	120521	MR. RAJESH VINOD MURARKA
2202	120531	MR. MANOJ KUMAR MOHANDAS
2203	120535	MR. YOGESH PRATAP PATIL
2204	120544	MR. SEETHARAMA RAO MORAMPUDI
2205	120545	MR. NEHAL ANIL SHAH
2206	120552	MS. JAYASHREE KESHAVA PRAMILA SHETTY
2207	120553	MRS. BHAVNA MUKESH BINWANI
2208	120556	MS. KALPANA RAJARAM DESAI
2209	120571	MR. MANOJ KANTILAL SHAH
2210	120575	MR. PRASHANT JAIN
2211	120599	MR. ACHALKUMAR ASHOKKUMAR LOHADE
2212	120611	MR. KAPIL SURESH KARNAWAT
2213	120616	MS. MAYURA MADHUKAR DAMLE
2214	120619	MR. YASH ANAND WALAWALKAR
2215	120650	MR. NAVEED ARIF WELDON
2216	120655	MS. RAFAT ABDUL AZIZ SADIKA DABIR
2217	120668	MS. BHAVYATA BHERULAL DUGHALIA
2218	120708	MR. AMITABH SARAFF
2219	120731	MR. VINAY KUMBHAT
2220	120735	MR. SANJAY RATANLAL BOHRA
2221	120746	MR. KUNAL GULABDAS DATTANI
2222	120747	MRS. PRIYA SAMEER BHOYAR
2223	120770	MR. UDAYCHANDRA NELSON PANKAJAVALLI DEVASPER
2224	120772	MR. KAUSHIK JITENDRA TANNA
2225	120899	MR. PRASHANT CHANDRAKANTBHAI MATHUKIYA
2226	120923	MR. NIHAR CHIRAG SHETH
2227	120936	MR. KRUTIK PRADIPBHAI SHAH
2228	120938	MR. RAHUL MAHENDRABHAI SHAH
2229	120959	MR. CHIRAG CHANDRAKANT SHAH
2230	120978	MS. PAROOL SHANKARLAL PATEL
2231	121006	MS. PUNAM VIJAY KARNIK
2232	121034	MR. VINIT VISHWAS PATIL
2233	121047	MR. BASANT KANTICHAND SINGHEE
2234	121076	MR. ABHISHEK SINGH
2235	121092	MR. HRISHIKESH VINAYKUMAR PATIL
2236	121116	MR. KAUSHAL MANOJKUMAR PATEL
2237	121149	MR. RAVISH SHREYASBHAI SHAH
2238	121155	MR. ANKIT MAHENDRABHAI DESAI
2239	121168	MS. MAYURA AVINASH ARANKALLE
2240	121173	MS. SHOBHITA VINODCHANDRA PARIKH
2241	121178	MR. MAHESH SHRIKANT BAJAJ
2242	121181	MR. SANJEEV MODI
2243	121187	MS. HETAL JAYANT KATUDIA
2244	121196	MR. SACHIN RAMESHCHANDRA PANIYA
2245	121204	MR. TUSHAR SUBHASH JAIN
2246	121214	MS. SARITA
2247	121242	MR. GAURAV SURESH SUSHILA JAIN
2248	121288	MS. SWETA JAYVADAN MEHTA
2249	121296	MR. HATIM HUSAINI BANATWALA
2250	121307	MR. VISHAL NARAYANDAS RATHI
2251	121319	MR. SURANDAR MOTIRAM JESRANI
2252	121346	MR. NISHANT JAYESH DOSHI
2253	121371	MR. VIKRAM RAMESH KUMBHAR
2254	121404	MR. BHAVESH VASUDEVBHAI CHELANI
2255	121410	MR. MOHIT SATAK
2256	121455	MR. HEMANT RAMANLAL BOTHARA
2257	121482	MR. MUKESH GHEESULAL SODESA
2258	121483	MR. VISHAL YOGESH LINA THAKKAR
2259	121507	MR. SACHIN OMPRAKASH MANDAVEWALA
2260	121518	MR. NISARG KAMLESH MODY
2261	121523	MR. SHRIKANTH UMESH RAO K
2262	121552	MR. CHIRAG MUKESHBHAI SHAH

2263	121559	MR. SANJAYKUMAR TRILOKKUMAR AGRAWAL
2264	121565	MR. BHAVYA GANDHI
2265	121569	MS. ADITI MOHAN NARAYAN
2266	121573	MRS. MONICA S KARKHANIS
2267	121579	MS. UMA RAJENDRA KABRA
2268	121583	MR. SHAILESH SUSHIL AGRAWAL
2269	121611	MRS. NEHA JAGESH THAKKAR
2270	121617	MRS. POONAM GANDHI
2271	121643	MS. SULAKSHANA SITARAM AMBRE
2272	121676	MR. JAI PRAKASH
2273	121708	MR. RAHUL JAIN
2274	121712	MS. SUCHITA MANMATHNATH RAY
2275	121738	MS. BINAL PARESHKUMAR SONI
2276	121756	MR. ANUKOOL JAIN
2277	121785	MR. TANVEER SHABBIR AHMED FAROOQUI
2278	121793	MR. SANDESH SHRIPRAKASH KARWA
2279	121811	MR. VINAYAK VITTAL KINI
2280	121841	MR. KISHORILAL RAMDULAR BIND
2281	121843	MR. VISHAL PRAKASH JAIN
2282	121844	MS. LEE ANN LILY DIAS
2283	121871	MR. KRISHNA KANT CHIRANIA
2284	121873	MR. SUSHANT KUMAR SHIVRAM NAYAK
2285	121893	MRS. RICHA TRIPATHI
2286	121900	MR. ATUL ASHOK NAWALKHA
2287	121926	MS. DEEPTI VIJAY HERWADKAR
2288	121945	MR. JIBI JACOB CHOWALLOOR
2289	121947	MR. ANKURKUMAR ATULKUMAR PARIKH
2290	121950	MR. KAMLESHKUMAR PRAVINCHANDRA SHAH
2291	121960	MR. SUJIT BHALCHANDRA PARAB
2292	121964	MR. APARAJIT BHALCHANDRA BHANDARKAR
2293	121980	MR. ATUL VASANTLAL BORA
2294	121981	MS. RUTVA LILADHAR SHETH
2295	121986	MS. MAHIMA BOKARIYA
2296	122022	MS. NAMRATA AVINASH SAWAI
2297	122034	MS. SWATI ARUN TANUJA BETKEKAR
2298	122061	MS. SWARUPA VISHNU LATA DATE
2299	122071	MR. BHAVIK LALIT SHAH
2300	122073	MS. REKHA SUBRAMANIAM
2301	122093	MRS. JAYEL VENKATKRISHNA RAO
2302	122097	MS. RASHMI WAMAN NAGWEKAR
2303	122136	MR. VIKAS LAXMAN KALIBAUG
2304	122145	MRS. JYOTI JITENDRA PUNJABI
2305	122147	MR. PIYUSH RAJENDRA MEENA BUBNA
2306	122178	MS. NETRA NARAYAN SEEMA RANE
2307	122180	MR. MAHAVIR INDERCHAND PATNI
2308	122193	MR. SACHIN JITENDRA SHARADA HINGU
2309	122199	MR. YOGESH RAIPURIA
2310	122204	MR. MANISH ARVIND THACKER
2311	122209	MR. ASHWINI TAK
2312	122228	MR. HARDIK KIRITKUMAR VASAVADA
2313	122229	MS. ANNAPURNA NARENDRA TRIVEDI
2314	122243	MR. MOHNISH NILKANTH KATRE
2315	122251	MR. JITENDRA VIJAY KHEDEKAR
2316	122265	MR. NIGEL AUSTIN D'SOUZA
2317	122278	MR. SACHINKUMAR SATISHCHANDRA SANGANI
2318	122284	MR. DHAVAL ASHOK SHAH
2319	122290	MR. VIKAS MAHAVEER KIRAN GADIYA
2320	122322	MS. RADHIKA MAHADEVAN
2321	122340	MR. AMIT ALOK BANERJEE
2322	122382	MR. SARANG CHANDRASHEKHAR PACHLAG
2323	122402	MS. RUPALI CHANDRAKANT KAMINI CHAVAN
2324	122407	MR. NILESH MAHESHBHAI THACKER

2325	122451	MS. ARTI VIJAY GHATPANDE	2387	123473	MS. SUMATHI SAMPATH
2326	122504	MR. SAMEER NAZEER SHAIKH	2388	123479	MR. VISHAL MAHASUKHLAL GANDHI
2327	122536	MR. DHARMESH RAMESHKUMAR HANSABEN BATAVIA	2389	123481	MRS. TEENA SARAFF
2328	122569	MR. HARINARAYAN RAJAGOPALAN IYER	2390	123483	MR. RAVISHANKAR SATYANARAYANA REDDY
2329	122604	MR. KHUZAN DEENYAR DASTOOR	2391	123502	MS. KANCHAN RAMCHANDRA SITA SHANBHAG
2330	122611	MR. KRISHAN KUMAR BOHRA	2392	123507	MR. VINIT PODDAR
2331	122616	MR. SAMAR ANIL VED	2393	123540	MR. KURUSH HOSIE PITHAWALA
2332	122620	MR. HIREN KRISHNALAL GORADIYA	2394	123565	MR. AFTAB GUMANI
2333	122625	MS. SHRIVANI GUNVANT PRABHUSALGAONKAR	2395	123577	MS. SNEHAL SUHAS PHADKE
2334	122628	MR. VIKAS PANSARI	2396	123595	MR. VIVEK SURESHCHANDJI BAJ
2335	122675	MR. UMESH PRAKASH TELA	2397	123648	MR. VIKAS SHANKARLAL DHANUKA
2336	122692	MRS. ANIKA HITESH RAHEJA	2398	123716	MR. SUNIL DIPAK SHAH
2337	122694	MS. SONU GIRDHARICHAND MEHTA	2399	123742	MR. ABHISHEK AMAR SHOBHA TALREJA BATHIJA
2338	122696	MR. BHIKAMCHAND GAUTAMCHAND BOTHARA	2400	123750	MR. DEVENDRA JAYSINH ASHER
2339	122718	MR. NIRAV DHIRAJ MADHU SHAH	2401	123752	MS. NIDHI PODDAR
2340	122729	MS. SWEETY DEVKINANDAN GUPTA	2402	123766	MR. MOHAN KERU TULVE
2341	122740	MS. SONAL NISHIKANT THARTHARE	2403	123770	MRS. ANAGHA UDAY KANE
2342	122748	MS. PRANJALI ASHOK JAYA MOKASHI	2404	123775	MR. PARVEZ GULAMMOHAMMED MANSURI
2343	122763	MR. KINJAL PRAKASH PANCHOLI	2405	123798	MR. JAYESH KISHORKUMAR MANDALIA
2344	122789	MR. AMIT KUMAR AGARWAL	2406	123807	MR. RAJ KAMAL
2345	122797	MR. PRESHIT HARISH KADAM	2407	123822	MR. HASMUKHBHAI NATVARBHAI PATEL
2346	122817	MR. SHARAD SINGHI	2408	123835	MR. VARUN GUPTA
2347	122820	MR. CHIRAG NARESH SHANTABEN PATEL	2409	123840	MR. ANKIT MEHTA
2348	122824	MR. NITIN GHANSHYAM MODI	2410	123854	MR. MEHULKUMAR SHANTILAL TRIVEDI
2349	122828	MR. ANKIT SURESH MAHESHWARI	2411	123871	MR. SAURABH CHANDRA SHEKHAR TRIPATHI
2350	122839	MS. PRAPTI JITENDRA DOSHI	2412	123898	MR. VISHAL KRISHNAKANT GANDHI
2351	122869	MR. GLYCEN BABU	2413	123923	MR. HITEN CHANDRAKANT KANABAR
2352	122874	MS. HIRAL KAUSHIKBHAI SHUKLA	2414	123933	MR. TARAL KRISHNAKANT KANSARA
2353	122881	MR. NARESH JASWANTLAL MANCHANDA	2415	123935	MR. SUNIL RAMAVTAR SAH
2354	122884	MR. RAFAT AHSAN MOHAMMAD	2416	123938	MR. YASHESH NATVARLAL CHANDRIKA ASHAR
2355	122900	MR. JATA SHANKER THAKUR	2417	123945	MR. DINESH RAMLAL GUPTA
2356	122908	MR. SHEKHAR OMPRAKASH BHANSALI	2418	123951	MR. KINJAL RAMCHANDRA TAKALIKAR
2357	122930	MR. MAHAVIR MANAKCHAND JAIN	2419	123973	MS. KOMAL DAYAL BHAGAT
2358	122952	MR. PRAVIN SHESHRAO GAVANE	2420	124005	MS. NEHA ASHOK DAGA
2359	122995	MR. ABHIJIT BALKRISHNA GAIKWAD	2421	124006	MR. MUFADDAL SHABBIRHUSAIN HAKIMI
2360	123024	MR. ALEKH YOGENDRA KASTWAR	2422	124007	MR. MANMOHAN GOVINDLAL BAJAJ
2361	123045	MR. RAMJEEVAN VISHWANATH PUSHPA KHEDIA	2423	124009	MS. MEGHANA PRABHAKAR GODBOLE
2362	123049	MRS. PRIYANKA JAIN	2424	124020	MR. RAMGOPAL SOMANI
2363	123054	MS. LATA MOTILAL JAIN	2425	124030	MR. DEVENDRA MANHER RANJAN ZANJARKIYA
2364	123083	MR. RAJEEV MUTHA	2426	124065	MR. RAJESH RAMESH BUDHRANI
2365	123113	MS. AVANI RAMESH NAYANA MAVANI	2427	124069	MR. JIGNESH CHHOTALLAL VAORA
2366	123120	MR. MAHESH RATNAKAR ANUPAMA KADAM	2428	124088	MR. NAVEEN KUMAR NARSINGLAL KABRA
2367	123127	MR. ROHAN VJENDRA AGRAWAL	2429	124093	MR. BRIJ DHIRUBHAI PATEL
2368	123130	MR. SOURABH NAGORI	2430	124109	MR. MUKESH DHARMCHAND MAHANTWAR
2369	123136	MR. BHAVIN DARSHAN MEHTA	2431	124123	MR. ASHWIN VAJUBHAI BARAD
2370	123186	MR. AMIT DATTATRAYA SUVARNA MIRGULE	2432	124188	MR. SUDHAKAR NARSIMCHARY PODCHETTI
2371	123187	MR. DEEPAK RAJ IYER	2433	124209	MR. VIPUL VISHWANATH SHETTY
2372	123194	MR. SANDEEP NARSHI WALIBEN LAKHANI	2434	124227	MR. BRAJESH LALIT BANNAWALA
2373	123219	MR. NAVEEN BHADADA	2435	124232	MR. SANJAY BADRILAL PUNGLIA
2374	123241	MS. NUPUR PRAMODKUMAR KABRA	2436	124289	MR. VICKY BALKRISHNA AGARWAL
2375	123243	MR. ROHIT NAVEEN CHOUDHARY	2437	124306	MR. MILTON NASUMENT FERNANDES
2376	123248	MRS. NAMRATA OMKAR MATHKAR	2438	124317	MR. UMESHKUMAR SUKHDEVBHAI BHATT
2377	123257	MRS. MEGHA MAHESH DEORUKHKAR	2439	124329	MR. SAURABH GOVIND DHADPHALE
2378	123260	MR. SHAHIDALI SYED RAZZAKALI SYED	2440	124335	MR. DHARMESH MAROTI MOHADIKAR
2379	123317	MS. RACHANA PRAVIN BHARTI KAPADIA	2441	124337	MR. SAURABH NATWARLAL KOTECCHA
2380	123321	MR. YUSUF ESMAIL DURAIYA RUPAWALA	2442	124353	MS. DIVYA JAYARAM SARALA SHETTY
2381	123328	MR. ANUBHAV AJAY GOYAL	2443	124388	MS. HETAL RAJENDRA KAMDAR
2382	123342	MR. YOGESH GHANSHYAMBHAI KUMBHARE	2444	124450	MR. VIVEK PRAKASHRAO DESHPANDE
2383	123361	MS. KUNTAL MADANLAL BAMB	2445	124510	MR. PARTHA MOHAN VEENA TAMBDAY
2384	123395	MR. SANDEEP SHAH	2446	124511	MRS. NIKITA PARTHA TAMBDAY
2385	123398	MR. HARSHAD ANAND ASANARE	2447	124526	MR. KISHOR RAMDAYAL NAWAL
2386	123421	MS. RASHMI MADHAV DESHPANDE	2448	124538	MR. AMAR ASHOK HADYE

2449	124545	MR. CHAITANYA SUNIL SUNITI GUPTA
2450	124550	MR. SWAPNIL UDDHAV SANDHYA PATIL
2451	124576	MR. SUMIT SANTOSH KHANDLWAL
2452	124599	MR. DEEPAK BABULALJI SUSHILA KHARWAD
2453	124604	MRS. POOJA ALWIN LOPES
2454	124613	MS. VILASH BALUBHAI RADADIYA
2455	124660	MS. SWETA KIRIT RUKMA KAPADIA
2456	124667	MS. DIMPLE VRAJESH DAVE
2457	124682	MR. JIGNESHKUMAR PRAVINKUMAR THAKKAR
2458	124716	MR. VIKAS DAGADU BANKHELE
2459	124820	MS. KOJAGIRI GIRISH DOSHI
2460	124846	MR. NIKET SHRIKISHANJI MANTRI
2461	124847	MR. AMIT SHRIPAT DAREKAR
2462	124853	MR. AKASH DHONDOPANT KOKADWAR
2463	124973	MR. TUSHAR SOMESHCHANDRA LAKDAWALA
2464	125002	MR. NEAL NEVLIN MACHADO
2465	125021	MRS. SIVAGAMI SUNDARI DEVANAND
2466	125025	MR. SHREERAM SURESHKUMAR GATTANI
2467	125027	MR. VINOD SHARMA
2468	125028	MS. SANJANA BANERJEE
2469	125055	MRS. RASHMI SINGH CHAUHAN
2470	125056	MR. ANUP MADANMOHAN RATHI
2471	125098	MR. PUSHKAR SUOHIR VAIDYA
2472	125106	MS. NIKITA PANKAJ LATA DESAI
2473	125123	MR. ADITYA HIRALAL JHAWAR
2474	125125	MR. GAJANAN RAIBHANRAO MUNGAL
2475	125163	MS. HEMANSHI BHARAT BHAVNA SHAH
2476	125183	MR. NABENDU PODDAR
2477	125187	MR. KAMAL VARYANI
2478	125216	MS. VINITA BHARAT VORA
2479	125265	MR. SHREERAM MUKUND VASUNDHARA DESHPANDE
2480	125282	MR. PAWANKUMAR HARGUNDAS GAJWANI
2481	125287	MR. VIKAS GUPTA
2482	125292	MR. MUKESH GARG
2483	125342	MR. HEMANTKUMAR CHHAGANLAL PATEL
2484	125348	MR. VISHNU HANUMANT YANNAM
2485	125360	MR. AMIT CHATURBHUI JOSHI
2486	125374	MS. SHRADDHA MANHAR MATHURIA
2487	125392	MRS. SNEHA MALPANI
2488	125414	MR. NILESH NARENDRA SHAH
2489	125431	MS. SURABHI KOURAW
2490	125437	MR. CHAITANYA SHRIKANT GANORKAR
2491	125455	MR. LALCHAND SEVARAM SONAIYA
2492	125465	MR. PRATIP CHIKKAYA SHETTY
2493	125476	MR. JONATHAN ALEXINHO GOMES
2494	125485	MR. VINAY OMPRAKASH CHUDIWALA
2495	125510	MR. ABHISHEK GOPAL AMRUTA AWADHANI
2496	125572	MR. ANRIKSH JAYANTIBHAI PATEL
2497	125580	MR. PRINCE GEORGE
2498	125602	MR. DHARMENDRA MOLANI
2499	125608	MS. SWATI SHRIKRISHNA JOSHI
2500	125619	MR. MANOJ GHANSHYAMCHANDRA ABHA SHARMA
2501	125631	MR. VIKAS PORWAL
2502	125662	MR. SANKET RASIKBHAI MAKADIA
2503	125679	MR. SURYAKANT RAJARAM MARDHEKAR
2504	125724	MR. KARTHIK SUBRAMANYAN
2505	125735	MR. KISHAN VAISHNAV
2506	125739	MRS. ARTI JAYDEEP SHUKLA
2507	125750	MS. PRINCY RACHEL MATHEW ALEYAMMA
2508	125780	MR. ANUP AMAR AGARWAL
2509	125784	MR. PANKAJ PRANJIVANBHAI GOTECHA
2510	125807	MS. JANHAVI DINESH MADHUBALA PRABHU

2511	125809	MS. ROMA TARACHANDJI CHORDIA
2512	125814	MR. SANDESH SUMANT NARVEKAR
2513	125815	MR. ASHISH DAWESHAR
2514	125844	MR. SOURABH ASHOK PALOD
2515	125845	MS. SOUNDARAM S
2516	125860	MR. NICKY MADANLAL RAJANI
2517	125893	MR. PRAKASH RAVSAB GADAGE
2518	125908	MR. PRANAV KISHORCHANDRA VIBHA TURAKHIA
2519	125920	MR. VIPUL ISHWARLAL LEELABHEN PANCHASARA
2520	125947	MR. RAJESH KANHAIYALAL TAPARIA
2521	125959	MR. NIRAV DINKARRAI GANATRA
2522	126014	MR. PARAG DILIPKUMAR ADWANI
2523	126029	MR. SANDEEP MADHUKAR GOKHALE
2524	126045	MR. JEET SUSHIL GANDHI
2525	126056	MR. KEDAR SOMNATH PANDE
2526	126065	MR. MANGIRISH ASHOK GAITONDE
2527	126086	MR. ARUN KANSARA
2528	126115	MS. KAMLESH KOTHARI
2529	126121	MR. SACHIN KRUSHNAJI BAGUL
2530	126126	MS. HRITU BASANT MAHESHWARI
2531	126142	MS. ANJALI BHARATKUMAR TRIVEDI
2532	126145	MR. SHIVKUMAR GANESAN
2533	126174	MR. PUNIT RAJESH BHARTI SEJPAL
2534	126175	MR. HARESH BALRAM MEENA UDASI
2535	126184	MRS. SONAL JHANWAR
2536	126218	MR. CHINTAN PRAKASH KALPANA SHAH
2537	126279	MS. TEJAL KANAIYALAL SHAH
2538	126280	MRS. KSHITIJA GANESH SARPOTDAR
2539	126282	MS. SONAL SHAMPASAD SULABHA TALATHI
2540	126317	MR. KISHAN HARSHADBHAI TANNA
2541	126318	MS. VIJAYALAKSHMI R
2542	126320	MR. KUNAL SHAILESH SHETH
2543	126345	MR. SARVESH KOTHARI
2544	126360	MR. AMIT RAMKRISHNA PUNWATKAR
2545	126410	MR. NAKUL SURENDRA KASADWALA
2546	126447	MR. DEVANG DEEPAKKUMAR DOSHI
2547	126464	MR. HUSSAIN QURAISH RASHIDA RATLAMWALA
2548	126483	MR. MOHD AKBAR QAMARALI SAYYED
2549	126580	MR. DHARMESH GORDHANDAS RATANGHAYRA
2550	126596	MR. RUPESH SATISH BORA
2551	126616	MR. MAYANK RAJNIKANT SHAH
2552	126626	MR. ALPESH GUPTA
2553	126635	MRS. BHAVIKA KAUSTUBH GANDHI
2554	126639	MRS. KHUSHALI SANJAY DAVE
2555	126684	MR. NARENDRA NANDKUMAR ZADGE
2556	126761	MRS. JYOTI NAVEEN CHORDIA
2557	126769	MR. CHETAN MOTILAL SONI
2558	126813	MS. CHHAVI RAKESH SETHI
2559	126821	MS. MONIKA JASWANTRAI SUSHILA WADHANI
2560	126855	MR. MAHESH NARAYAN RIMAL
2561	126860	MR. ASHUTOSH SUBHASH TRIVEDI
2562	126862	MR. ANIL KRUSHNADAS PAREKH
2563	126881	MR. BIREN FULCHANDBHAI SHAH
2564	126889	MR. RAKESH DEVKINANDAN AGARWAL
2565	126895	MS. SABRINA SHABBIR ZEENA ATTERWALA
2566	126897	MS. DIPTI SUBHASH ANURADHA ZUNJARRAO
2567	126920	MR. KAILASH MAFATLAL BAFNA
2568	126939	MR. DINESH NANDKISHORE DARAK
2569	126980	MR. AMARSINGH JAISINGH VARMA
2570	127023	MR. NISHEETH JAIN
2571	127026	MR. NITIN RADHAKISAN AJAGE
2572	127031	MR. DARSHAN SURYAKANT SANGURDEKAR

2573	127126	MR. NISHIT RATAN RATHI
2574	127137	MR. AZIM SALIMBHAI GIRACH
2575	127153	MR. AMITKUMAR KISHORKUMAR SHAH
2576	127162	MS. MANISHA MULCHAND ROCHIRAMANI
2577	127164	MR. MAYUR KHETSHI NISAR
2578	127167	MR. HUSSAIN NAJAF ALI GARI
2579	127180	MR. AMISH TRIBHOVAN VANITA DAHISARIA
2580	127185	MS. DIKSHA MOHANLAL KUKREJA
2581	127186	MR. NIRAV MANOJ KHATRI
2582	127191	MS. PRIYA VIJAYRAGHAVAN S V
2583	127205	MS. MITTAL KISHOR VORA
2584	127217	MRS. SNEHA AMEY VAIDYA
2585	127244	MR. CHETAN RAJENDRA KEJRIWAL
2586	127270	MR. BHAVESH RAMESH NAGDA
2587	127293	MS. GARIMA KAPOOR
2588	127311	MR. YOGESH ANANT KULKARNI
2589	127338	MR. VYOM MAYANKBHAI PANDYA
2590	127339	MRS. RAKHEE SUNIL SALI
2591	127342	MR. ABHISHEKH DATTA GUPTA
2592	127349	MR. FEROS SAMANDER KHAN
2593	127354	MS. VAISHALI BHASKAR NEELAMBARI BIDAYE
2594	127363	MR. SANDEEP PARASMAL NAHATA
2595	127406	MR. PRAVINKUMAR HASMUKHLAL PANCHIWALA
2596	127411	MR. CHIRAG KARAN KOTHARI
2597	127418	MR. GOKARN SOMNATH SOLANKI
2598	127425	MS. ANJALI BABAN PISAL
2599	127430	MR. NITIN DATTA YEREKAR
2600	127462	MR. AVINASH KISAN WALUNJ
2601	127471	MS. TEJA SHUBHANAN AJGAONKAR
2602	127482	MR. PIYUSH JAWAHARLAL CHATURVEDI
2603	127491	MS. MEENAL JANARDAN KAMBLE
2604	127496	MR. GIRISHKUMAR RADHESHYAM VYAS
2605	127497	MRS. BHAVANA MAHESH SHIRODKAR
2606	127547	MS. HEMA DHANRAJ KANGYA
2607	127552	MR. JIGNESH PRAFUL REKHA SHIAL
2608	127608	MR. MEHUL RAJENDRA MEENA DESAI
2609	127618	MR. PRANAV VIMAL RAVAL
2610	127619	MR. PRAKASH VASUDEV TIRTHANI
2611	127684	MR. SUDHIR RATILAL AMBALIYA
2612	127687	MR. NIKIT DEEPAKBHAI SHAH
2613	127696	MR. ANSHUL GROVER
2614	127706	MS. AMI BIPIN USHA MEHTA
2615	127720	MR. RAJIT RAGHAVBHAI GOLETAR
2616	127725	MR. HIREN PRAVINKUMAR PANDIT
2617	127732	MR. JIGNESH BHUPATBHAI DEVANI
2618	127747	MS. RIMA HARIDAS NAIR
2619	127758	MS. JANHAVI CHANDRAMOHAN SHARMA
2620	127763	MR. AJAY CHANDULAL MEHTA
2621	127767	MS. DHARINI MANESH SHAH
2622	127775	MR. MANISH KARANAWAT
2623	127784	MR. RAJ KUMAR SOMANI
2624	127843	MR. MITHIL PRITHVIRAJESINGH PAWAR
2625	127853	MR. MAYANK BALMUKAND JHANWAR
2626	127887	MS. SWETA DWARKAPRASAD DHANUKA
2627	127912	MR. DEEPAK GOPAL MAHESHWARI
2628	127931	MRS. NISHA CHIRAG SHAH
2629	127938	MR. VISHALKUMAR PRAFULCHANDRA GOKANI
2630	127953	MR. KARTHIK CHAITANYA V
2631	127960	MR. GAURAV VIJAY KUMAR AGGARWAL
2632	127978	MR. NIRAJ SHASHIKANT LIYA
2633	127989	MS. SEEMA SHYAMSUNDER KAKANI
2634	128017	MR. TRUSHAR BANSIBHAI THAKKAR

2635	128039	MR. DIVYESH ASHOK SHETH
2636	128050	MR. VIBHOR PRADEEP CHANDRA
2637	128053	MS. HEMANI HASTKANT KHATRI
2638	128057	MS. NAMRATA NANDLAL BOTHRA
2639	128065	MR. AMIT KUMAR SRIVASTAVA
2640	128067	MR. VIVEK HARIHAR PRASAD MISHRA
2641	128077	MR. ABOOZAR YUNUS ALI
2642	128079	MS. YASHODHARA BALKRISHNA BARHATE
2643	128089	MR. AMIT KUMAR SHARMA
2644	128092	MR. MURTAZA ALI MOTI
2645	128102	MR. RAKESH GOPALBHAI JIMULIYA
2646	128118	MR. DEEPAK SHARADKUMARJI ZHAWAR
2647	128122	MR. NINAD SURESH MAUSKAR
2648	128144	MR. KANTILAL PRATAPRAM BHATI
2649	128178	MS. NEHA RAVINDRA SINGHANIA
2650	128185	MR. DHILIP KUMAR SONI
2651	128208	MR. VIPUL INDRAVADAN DESAI
2652	128212	MS. BIJAL JAYKUMAR SHAH
2653	128218	MS. ALJA JACOB ALPHONSA
2654	128223	MR. VIVEK JHUNJHUNWALA
2655	128227	MS. FATIMA ZEHR A NAQVI
2656	128251	MR. PRITESH GORDHANBHAI HIRAPARA
2657	128256	MR. ASLAM ALLAUDIN DHAMANI
2658	128277	MR. SANKET HEMCHANDRA SUCHITA RAJE
2659	128333	MR. PAWAN BANSI PARAKH
2660	128344	MS. SEEMA SHIVDAS MENDADKAR
2661	128346	MR. ATUL RAMNARAYANJI CHHAPARWAL
2662	128347	MR. ABHISHEK SAJJANLAL DOSI
2663	128360	MR. SOMANATH SAHOO
2664	128364	MR. SANDEEP KUMAR AGARWAL
2665	128365	MR. SHER SAMMANDER KHAN
2666	128378	MR. CHIRAG BHARATKUMAR SARVAIYA
2667	128382	MR. KETUL PRAGNESHKUMAR PATEL
2668	128392	MS. NUSRAT NAZARULLAH HASAN
2669	128417	MR. RAHUL GANDHI
2670	128467	MR. ARUN LAXMINARAYAN VYAS
2671	128492	MR. MAHESH KUMAR
2672	128520	MR. SAMEER RAMESH DUMBARE
2673	128553	MR. CHANDRAPRAKASH CHIRANJILAL PAREEK
2674	128574	MR. KUNAL PRAKASH POKALE
2675	128584	MR. NILESH RAGHUNATH DESAI
2676	128617	MRS. APEKSHA GAUTAM SHAH
2677	128644	MR. NANDAN YOGENDRABHAI MEHTA
2678	128649	MR. GAURAV RAJNIKANT BHUPTANI
2679	128717	MR. AJIT RAJARAM TALGAONKAR
2680	128719	MR. NAINISH RAJESH GANDHI
2681	128745	MR. DHRITABRATA BIPLAB BISWAS
2682	128773	MS. ASHWINI SHARAD CHHAYA LAAD
2683	128792	MR. NITYA PRAKASH LANJEWAR
2684	128856	MR. JITENDRA KUMAR
2685	128929	MS. MAUSMI SHULINKUMAR JHA
2686	128939	MRS. SONALI VENKAT SARIPALLI
2687	128958	MR. VAIBHAV RAJESH MAHESHWARI
2688	128961	MRS. MONICA SANJAY LODHA
2689	200449	MR. GHANSHYAM B BHAIYA
2690	200665	MS. NAGESHWARI S
2691	201425	MR. RAMESH M V
2692	202238	MS. ANJANA RAMASUBRAMANIAN
2693	202501	MRS. JOTHI SUBRAMANIAM IYER
2694	202511	MR. RAM KUMAR J
2695	202528	MR. NARAYANAN S
2696	202847	MR. GOPINATH KRISHNAN

2697 203185 MR. PRASANNA B
 2698 203901 MR. GOPIKRISHNAN M S
 2699 203918 MR. P K SADAGOPAN
 2700 204375 MR. RAVICHANDRAN T
 2701 204865 MR. VAIDYA PRAMOD YESHWANT
 2702 204910 MR. S VINOD ANAND
 2703 205086 MR. PRAVEEN KUMAR G
 2704 205232 MR. KUMAR N V S S J L N
 2705 205358 MR. SURESH J
 2706 205520 MS. SHIVASHANKARI S
 2707 205620 MR. RAVEENDRAN K
 2708 205668 MR. RAJESH S
 2709 205705 MS. SAHANA K RAO
 2710 205808 MS. SRIPRIYA R
 2711 205897 MR. DAMODARAN MANOJ KUMAR
 2712 206199 MR. RAGHURAJ B
 2713 206512 MR. NARAYANAN R
 2714 206762 MR. SHANKAR J
 2715 207208 MS. ANEETHAKUMARI S
 2716 207440 MR. SHAM K
 2717 207615 MR. SHARMA AKEELLA S R S
 2718 207995 MR. SRINATH S
 2719 208145 MR. HARICHANDAN DURGA PRASAD
 2720 208968 MR. VIKRAM K
 2721 209046 MR. KRISHNA PRASAD C R
 2722 209521 MR. QUADROS VALANCE
 2723 209911 MR. UDAYA KUMAR
 2724 210236 MR. HARIHARAN R
 2725 210589 MR. LAKSHMINARAYANAN HARIHARAN
 2726 210648 MR. ATMAKURI SERISH
 2727 212382 MR. MANOJ MAHESHKUMAR SHAH
 2728 212396 MR. KRISHNAN G
 2729 212622 MR. RAVIKUMAR YANAMANDRA
 2730 212715 MR. SATYANARAYANA Y V
 2731 212803 MR. KRISHNAN R S
 2732 212967 MS. NANDHINI G
 2733 212993 MR. NARASIMHA RAO MUPPALLA
 2734 213404 MR. VIKAS ARYA
 2735 213848 MR. MIRZA MUSTAQUE BAIG
 2736 214275 MS. URMILA SRINIVASAN
 2737 214580 MR. ANIL KUMAR INANI
 2738 215169 MR. HARI BABU VEDAGIRI
 2739 215273 MS. VRINDA PISHARODY
 2740 215815 MR. RANJITH RAVINDRAN
 2741 215998 MS. SHWETHA SHETTY
 2742 216695 MR. SHANKAR NARAYAN
 2743 216809 MS. PUSHAGIRI V
 2744 218737 MR. KARADI UGINE ANNAPPA
 2745 400108 MR. GARG RADHA MOHAN
 2746 400229 MRS. SUSHMA DIWAKER
 2747 400320 MS. JAIN ANUPAMA
 2748 400334 MR. SINGHAL PAWAN KUMAR
 2749 400678 MR. DHAMANIA MANISH KUMAR
 2750 401117 MR. LODHA SURESH CHAND
 2751 401220 MS. NEGI RUCHIRA
 2752 401300 MR. NILESH CHAUDHARI
 2753 401361 MR. CHATURVEDI RAHUL

2754 401839 MR. JAVARIA VAIBHAV
 2755 402029 MR. JAIN MANISH
 2756 402040 CA. NIDHI BIYANI SARDA
 2757 402332 MR. SICOH
 2758 402400 MR. JETHLIYA AJAY
 2759 402424 MR. CHHABRA PRABHJOT SINGH
 2760 402861 MR. MAHESHWARI BHARAT SHREE
 2761 402947 MRS. AHUJA USHA
 2762 402976 MS. JAIN CHARU
 2763 403029 MS. JAIN STUTI
 2764 403037 MRS. MONIKA NIRMAL GANDHI
 2765 403058 MR. SAKLECHA HEMANT
 2766 403072 MRS. NEHA CHAUDHARI
 2767 403166 MRS. ABHA MAHESH GUPTA
 2768 403177 MR. BAHETI SHELENDRA
 2769 403384 MR. TAJ ZUHER ALI
 2770 403776 MR. SHAH NEERAJ
 2771 404349 MR. KALRA SUMEET
 2772 404386 MR. MANGAL GOTI SHIV LAL
 2773 404606 MR. JAIN PRATEEK
 2774 404798 MRS. MAMTA NIRAJ AGRAWAL
 2775 404921 MR. BANSAL AMIT KUMAR
 2776 404993 MR. GOYANKA YASH KUMAR
 2777 405041 MR. MUNDRA MANOJ KUMAR
 2778 405333 MR. PRADEEP KHANDLWAL
 2779 405471 MR. MOHIT KUMAR YADAV
 2780 405570 MR. DIGVIJAY NARAYAN MISHRA
 2781 405580 MS. SHILPI SETH
 2782 405630 MR. NAMAN KHANNA
 2783 406111 CA. SUDHAKAR SHARMA
 2784 406265 CA. VISHAL SHISHODIA
 2785 406467 CA. RAGHVENDRA PANDEY
 2786 406819 CA. MANISH KUMAR JAIN
 2787 407042 CA. ABHA JAIN
 2788 407072 CA. AMIT KUMAR SHARMA
 2789 408226 CA. MUKESH AGARWAL
 2790 408614 CA. DEEPAK KUMAR DOLIA
 2791 500067 MR. ARORA AMIT
 2792 500320 MR. NARENDER SHARMA
 2793 500653 MR. DILIP KUMAR
 2794 500765 MR. SINGHANIA RAHUL
 2795 500774 MR. DEWAN UDIT
 2796 500956 MR. AGARWALA MUNISH
 2797 501782 MR. PRABHU AMIT
 2798 501970 MR. RAJEEV KUMAR
 2799 502186 MS. BAJAJ SONICA
 2800 502803 MS. AGGARWAL SAVITA
 2801 503050 MR. TRIPATHY PRADEEP RANJAN
 2802 504000 MR. ROHIT KUMAR
 2803 504687 MR. TIKMANI SANDEEP KUMAR
 2804 506282 MS. AMITA AGARWAL
 2805 506507 MR. PARAS KUMAR JAIN
 2806 506888 MS. GAYTRI JHAMB
 2807 507689 MS. ADITI GUPTA
 2808 507773 MS. MITALI KALRA
 2809 509618 MR. DHIRENDRA SURESHJI BHATTAD

T. KARTHIKEYAN

Secy.

Kolkata-700071, the 15th December 2010

3ECA/5/1/2009-2010 : With reference to this Institute's Notification Nos : 3ECA/4/11/1982-83 Dated-31/03/1983, 3ECA/4/11/1984-85 Dated-31/03/1985, 3ECA/4/10/1986-87 Dated-27/02/1987, 3ECA/4/11/1986-87 Dated-31/03/1987, 3ECA/4/10/1987-88 Dated-14/01/1988, 3ECA/4/6/1989/90 Dated-02/11/1989, 3ECA/4/2/1996-97 Dated-20/12/1996, 3ECA/4/3/1998-99 Dated-12/05/1999, 3ECA/4/3/2000-01 Dated-22/02/2001, 3ECA/4/3/2001-02 Dated-19/11/2001, 3ECA/4/3/2002-03 Dated-31/03/2003, 3ECA/4/2/2003-04 Dated-08/09/2004, 3ECA/4/3/2004-05 Dated 31/01/2005, 3ECA/4/5/2005-06 Dated 06/04/2006, 3ECA/4/4/2006-07, Dated-30/11/2006, 3ECA/4/1/2007-08 Dated 15/12/2008, 3ECA/4/1/2008-2009 Dated 30/09/2009, 3ECA/4/3/2009/2010 Dated 06/04/2010, it is hereby notified in pursuance of Regulations 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names of the following members:-

S.No.	MRN	Member Name & Place	Restoration Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Place	Restoration Dt.
1.	007782	Mr. James Errol Leslie ACA Berkshire	04/06/2009	14.	050399	Mr. Chatterjee Ashish Kumar FCA Auckland	03/03/2010
2.	008444	Mr. Neme Chand Saha ACA Kolkata	08/09/2009	15.	050581	Ms. Ila Sengupta ACA Kolkata	04/03/2010
3.	008856	Mr. Asutosh Sen FCA Kolkata	30/07/2009	16.	050612	Mr. Sheo Kumar Saraogi FCA Kolkata	18/12/2009
4.	009873	Mr. Prakash Chand Bhandari FCA Kolkata	22/06/2009	17.	050716	Mr. Pratyush Kiran Mitra ACA Kolkata	22/12/2009
5.	010570	Mr. Rawat Lakshmi Narain FCA Kolkata	07/07/2009	18.	050906	Mr. Chandrasekharan A ACA Kolkata	11/02/2010
6.	010803	Mr. Bijay Kumar Tekriwal FCA Delhi	30/06/2009	19.	050992	Mr. Chaudhuri Achintya ACA Durgapur	30/10/2009
7.	019525	Mr. Nataraja Pillai ACA Chittoor	22/10/2009	20.	051421	Mr. Gupta Adarsh FCA Ontario	23/02/2010
8.	019784	Mr. Jaya Kumar Ganesan ACA Hyderabad	29/12/2009	21.	051458	Mr. Asim Kumar De ACA Kolkata	11/12/2009
9.	020547	Mr. S. Sainathan ACA Mumbai	25/08/2009	22.	051627	Mr. Ganguli Dipankar ACA Toronto	31/12/2009
10.	022029	Mr. Viswanadha Sharma A ACA Mumbai	17/12/2009	23.	051857	Mr. Tandon Pradip ACA Cambridge	22/02/2010
11.	050145	Mr. Madhu Kumar Kapoor ACA Mumbai	25/02/2010	24.	052183	Mr. Mitra Pradip Kumar ACA Kolkata	20/08/2009
12.	050324	Mr. Chattopadhyay Sajani Tosh FCA Kolkata	01/12/2009	25.	052671	Mr. Abhijit Konar ACA Manama	29/12/2009
13.	050387	Mr. Das Sukumar ACA Mumbai	22/09/2009	26.	052784	Mr. Agarwal Keshav FCA Kolkata	27/01/2010

27.	052924	Mr. Awadhesh Kumar Choudhary FCA	08/01/2010	47.	055881	Mr. Sarkar Nandan Kumar ACA	10/02/2010
		Kolkata				Gurgaon	
28.	052954	Mr. Basak Subhendra ACA	11/02/2010	48.	055960	CA. Rajendra Singh ACA	22/09/2009
		Kolkata				Kolkata	
29.	053008	Mr. Anchalia Naresh Kumar FCA	08/05/2009	49.	056395	Mr. Chakravorty Udit ACA	01/02/2010
		Surabaya				Kolkata	
30.	053522	Mr. Basu Saibal ACA	08/05/2009	50.	056425	Mr. Om Praksash Agarwalla FCA	22/06/2009
		Muscat				Guwahati	
31.	053595	Mr. Agarwal Shambhu Kumar FCA	27/10/2009	51.	056533	CA. Sarkar Utpal ACA	24/04/2009
		Gurgaon				Raipur	
32.	053619	Mr. Sen Kalyan FCA	27/08/2009	52.	056741	Mr. Maharaj Pankaj Kumar FCA	28/10/2009
		Canada				Mumbai	
33.	053791	Ms. Kapur Priti FCA	28/01/2010	53.	056751	Mr. Mehta Sanjay ACA	16/06/2009
		Kolkata				Kolkata	
34.	054062	Mr. Pathak Indrajit ACA	24/09/2009	54.	057039	Mr. Dugar Sushil Kumar ACA	25/01/2010
		Mumbai				Perth	
35.	054269	Mr. Banthia Harak Chand FCA	22/02/2010	55.	057078	Mr. Khan Sabah ACA	04/05/2009
		London				New York	
36.	054327	Mr. Bani Prasad Acharya FCA	02/04/2009	56.	057094	Mr. Sujit Sircar ACA	22/06/2009
		Bhubaneswar				Bangalore	
37.	054446	Mr. Sahoo Ajaya Kumar ACA	16/10/2009	57.	057154	Mr. Mehra Rajiv ACA	27/10/2009
		Bhubaneswar				Kolkata	
38.	055062	Mr. Ali Hussain Hassan FCA	25/08/2009	58.	057301	Mr. Sibaji Ghosh ACA	22/06/2009
		Jinja				Kolkata	
39.	055526	Mr. Mishra Udayendu ACA	01/03/2010	59.	057427	Ms. Mehta Shuchi ACA	21/12/2009
		Cuttack				Kolkata	
40.	055535	Mr. Neelesh Mehta FCA	24/04/2009	60.	057682	Mr. Agarwal Sanjay ACA	01/06/2009
		Melbourne				Kolkata	
41.	055686	Mr. Kundu Amitava ACA	19/11/2009	61.	057883	Mr. Agarwal Maheshwar ACA	24/09/2009
		Kolkata				Dubai	
42.	055709	Mr. Sharma Manoj Kumar ACA	29/06/2009	62.	057897	Mr. Dutta Sudipta Nath ACA	29/12/2009
		Lopburi				Evanston	
43.	055739	Mr. Sanjay Kumar Agarwal FCA	13/07/2009	63.	057984	Mr. Dash Arun Kumar ACA	11/06/2009
		Kolkata				Bangalore	
44.	055742	Mr. Rungta Rakesh FCA	16/07/2009	64.	058055	Mr. Gattani Sanjay ACA	16/02/2010
		Dubai				Singapore	
45.	055760	Mr. Chattopadhyay Sourav ACA	10/09/2009	65.	058087	Mr. Krishna Kumar Rath FCA	24/06/2009
		Kolkata				Gurgaon	
46.	055848	Ms. Susmita Dutta ACA	14/04/2009	66.	058453	Mr. Arindam Lahiri FCA	16/06/2009
		Mississauga				Kolkata	

67.	058559	Mr. Moda Naveen ACA New South Wales	01/01/2010	87.	061226	Ms. Prema Somani ACA Kolkata	26/11/2009
68.	058716	Mr. Pillai Nobay Kumar FCA Edmonton	14/10/2009	88.	061329	Ms. Kavita Kumari ACA New York	04/05/2009
69.	058942	Mr. Sarda Sandip ACA Dubai	17/04/2009	89.	061446	Mr. Sen Sujoy ACA London	07/05/2009
70.	059099	Mr. Rajarshi Charan Mallick FCA Bhubaneswar	27/10/2009	90.	061461	Ms. Khemka Amrita ACA Kolkata	10/09/2009
71.	059114	Mr. Bhola Sanjay ACA Bangalore	09/07/2009	91.	061497	Mr. Rawal Mihir ACA Roorkee	28/08/2009
72.	059179	Mr. Manish R Asopa ACA Bangalore	19/06/2009	92.	061777	Mr. Sanjoy Kumar Agarwal ACA Kolkata	30/10/2009
73.	059246	Mr. Jhunjhunwala Vivek ACA Salcete Goa	29/05/2009	93.	061781	Ms. Jain Snehlata ACA Bothell	11/12/2009
74.	059432	Mr. Jain Praveen Kumar FCA Kolkata	15/05/2009	94.	061888	Mr. Jhanwar Bhawani Shankar ACA Kolkata	04/06/2009
75.	059503	Mr. Sunil Jha ACA Kolkata	06/08/2009	95.	061916	Ms. Bipasa Sadhukhan ACA Rishra	12/01/2010
76.	059731	Mr. Jena Upendra Kumar ACA Ruwi	25/02/2010	96.	061978	Mr. Satapathy Sudhir Charan ACA Kolkata	18/12/2009
77.	060064	Mr. Sadhukhan Milan ACA Kolkata	12/01/2010	97.	062009	Ms. Soni Preeti ACA Berkshire	10/03/2010
78.	060173	Mr. Damani Manish ACA Mumbai	31/08/2009	98.	062020	Mr. Sharma Harkesh ACA Howrah	30/09/2009
79.	060314	Mr. Sanyal Anirban ACA Kolkata	01/02/2010	99.	062021	Ms. Bhavana Dalmia ACA Kolkata	18/12/2009
80.	060368	Mr. Patnaik Vikram ACA Kolkata	05/02/2010	100.	062180	Mr. Agarwala Aditya ACA Kolkata	14/01/2010
81.	060419	Ms. Sushma Patwari ACA Kolkata	10/06/2009	101.	062408	Mr. Goenka Asis ACA Kolkata	09/06/2009
82.	061017	Mr. Kothari Radhe Shyam ACA Rishra	22/05/2009	102.	062962	Mr. Varanasi Rajesh ACA Pune	10/06/2009
83.	061027	Mr. Parida Tusar Kant ACA Mumbai	17/09/2009	103.	063091	Mr. Mishra Sanjay Kumar ACA Mumbai	23/10/2009
84.	061038	Mr. Khaitan Dipak Kumar ACA Howrah	29/12/2009	104.	063123	Mr. Agarwal Amit ACA Bankura	29/06/2009
85.	061080	Mr. Manish Patni ACA Kolkata	02/07/2009	105.	063127	Mr. Agarwal Gaurav ACA Kolkata	25/11/2009
86.	061171	Ms. Mou Sengupta ACA Kolkata	30/06/2009	106.	063211	Mr. Sarkar Manas Kishore ACA Kolkata	30/03/2010

107. 063234	Mr. Tulsyan Anurag ACA	31/08/2009	125. 065774	Mr. Sushmit Banerjee ACA	21/08/2009
	Kolkata			Kolkata	
108. 063255	Mr. Manot Ravi ACA	06/04/2009	126. 066148	Ms. Sweta Dhandhanian ACA	31/08/2009
	Singapore			Kolkata	
109. 063396	Mr. Kedia Deepak ACA	18/11/2009	127. 066308	Mr. Santh Kumar Pattanayak ACA	19/05/2009
	Bangalore			Bhubaneswar	
110. 063658	Mr. Mishra Anshuman ACA	10/07/2009	128. 066420	Mr. Sandip Kumar Jain ACA	12/10/2009
	Bhubaneswar			Kolkata	
111. 063787	Mr. Agarwal Sandeep ACA	10/06/2009	129. 066445	Mr. Amit Kumar Khatri ACA	18/11/2009
	Bangalore			Rajgangpur	
112. 064023	Mr. Jain Pramod ACA	15/10/2009	130. 066488	Mr. Sudhir Kumar Gilra ACA	22/01/2010
	Kolkata			Gurgaon	
113. 064047	Mr. Verma Ratan Kumar ACA	17/08/2009	131. 066538	Mr. Vishal Agarwal ACA	01/02/2010
	Hydrabad			Kolkata	
114. 064087	Mr. Mishra Amit Kumar ACA	02/03/2010	132. 066540	Mr. Sanjay Yadav ACA	30/04/2009
	Mumbai			Pune	
115. 064415	Ms. Pavan Kumari Rana ACA	12/11/2009	133. 072485	Mr. Santanu Ganguly ACA	24/09/2009
	Dewas			Kolkata	
116. 064556	Mr. Manoj Agarwal ACA	14/10/2009	134. 078735	Mr. Aadi Aadi Pareek FCA	08/06/2009
	Neamatpur			Guwahati	
117. 064536	Mr. Sandeep Kumar Agarwal ACA	14/10/2009	135. 088877	Mr. Guha Abhijit ACA	10/08/2009
	Durgapur			New South Wales	
118. 064572	Mr. Sourabh Mjukherjee ACA	16/07/2009	136. 091194	Mr. Binod Jain FCA	01/12/2009
	Hyderabad			Kolkata	
119. 065118	Mr. A. B. Debasis Rout ACA	08/02/2010	137. 095192	Mr. Nandy Rajeev ACA	23/11/2009
	Cuttack			California	
120. 065187	Mr. Hanuman Das Rathie ACA	11/12/2009	138. 121791	Mr. Mandula Srinivas Rao ACA	05/03/2010
	Mumbai			Chennai	
121. 065363	Mr. Ibrahim Lodhger ACA	22/12/2009	139. 207880	Ms. Rajvee P ACA	25/03/2010
	Kolkata			Chennai	
122. 065448	Mr. Awadhes Kumar ACA	21/07/2009	140. 211241	Ms. Preethy Singhal ACA	20/04/2009
	Bangalore			Kolkata	
123. 065477	Mr. Ashok Kumar Singh ACA	14/09/2009	141. 214881	CA. S Narendra Patro ACA	30/09/2009
	Hydrabad			Dubai	
124. 065630	CA. Parul Kumari ACA	23/11/2009	142. 216808	Mr. Gudla Tajewar Rao ACA	08/09/2009
	Kolkata			Jaypore	

T. KARTHIKEYAN
Secy.

3ECA/5/2/2009-2010 : With reference to this Institute's Notification Nos. 3ECA/4/1/2008-2009 Dated - 30 Sep 2009, 3ECA/4/1/2008-2009 Dated 30 Nov 2009 & 3ECA/4/1/2009-2010 Dated 13/1/2010 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulations 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of Members with effect from 1/10/2008 & 1/10/2009 the names of the following members:-

S.No.	MRN	Member Name & Place	S.No.	MRN	Member Name & Place
1.	003497	Mr. Pal Sudhir Chandra FCA Kolkata	14.	016621	Mr. Nandi Dipak Kumar FCA Hooghly
2.	003734	Mr. Bhattacharyya Nityananda FCA Kolkata	15.	019175	Mr. Rajagopal V FCA Guwahati
3.	005376	Mr. Basu Hiralal FCA Kolkata	16.	042847	Mr. Venkatram Venkateswaran FCA Kolkata
4.	008126	Mr. Prasad Akhileshwar FCA Kolkata	17.	050021	Mr. Agarwaia Suresh FCA Kolkata
5.	008642	Mr. Tapas Kumar Choudhury FCA Kolkata	18.	050136	Mr. Singhi Vinod Kumar FCA Kolkata
6.	008894	Mr. Ray Jiban Krishna FCA Kolkata	19.	050668	Mr. Bhattacharya Sanjib FCA Kolkata
7.	010801	Mr. Bhikham Chand Lamboria FCA Kolkata	20.	050742	Mr. Sinha Baijai Lal ACA Kolkata
8.	011819	Mr. Gupta Kailash Chandra FCA Kolkata	21.	050943	Mr. Niyogi Tarun Kanti FCA Kolkata
9.	013087	Mr. Manik Chandra Bhora FCA Guwahati	22.	051107	Mr. Jagdish Prasad Lahoty FCA Kolkata
10.	013358	Mr. Ram Samokhan Tripathi FCA Mumbai	23.	051461	Mr. Ramesh Kumar Agrawal ACA Kolkata
11.	013646	Mr. Batra Narinder Kumar FCA Bhubaneswar	24.	051476	Mr. Ranjit Sengupta FCA Kolkata
12.	014464	Mr. Dilip Kumar Saha FCA Kolkata	25.	052194	Mr. Jajodia Vimal Kumar FCA Howrah
13.	015649	Mr. Padhi Bhagwan FCA Berhampur	26.	052345	Mr. Jhunjhunwala Rajesh FCA Kolkata

27.	052354	Mr. Srikumar Mitra FCA Howrah	44.	054217	Mr. Agrawal Ratan Lal FCA Brajrajnagar
28.	052371	Mr. Guha Mazumder Gautam ACA Kolkata	45.	054239	Mr. Sureka Sanjay FCA Kolkata
29.	052380	Mr. Saha Biswanath ACA Sonebhadra	46.	054243	Mr. Samir Sengupta FCA Kolkata
30.	052423	Mr. Gupta Kailash Kumar FCA Kolkata	47.	054508	Mr. Goenka Pradeep Kumar ACA Kolkata
31.	052813	Mr. Chattopadhyay Ashok Kumar FCA Kolkata	48.	054579	Mr. Rakesh Mohan Bagri FCA Rourkela
32.	052949	Mr. Barman Anjan Kumar FCA Kolkata	49.	054661	Mr. Ashutosh Agarwal FCA Kolkata
33.	053052	Mr. Das Susanta Kumar FCA Howrah	50.	054754	Mr. Das Ranjan ACA Singapore
34.	053406	Mr. Birla Vijay Kumar ACA Kolkata	51.	054788	Mr. Balsaria Anirudh Kumar FCA Kolkata
35.	053439	Mr. Sodani Tapan FCA Kolkata	52.	054818	Mr. Nandi Abhijit ACA Kolkata
36.	053485	Mr. Agrawal Santosh Kumar FCA Kolkata	53.	054874	Mr. Jain Alok ACA Kolkata
37.	053631	Mr. Neogy Som Shanker ACA Navi Mumbai	54.	054887	Mr. Shaw Jaiprakash ACA Kolkata
38.	053730	Mr. Bhattacharya Alok ACA Howrah	55.	054933	Mr. Swaminathan K N ACA Navi Mumbai
39.	053795	Mr. Rathi Bhanwar Lal FCA Kolkata	56.	054939	Mr. Mehra Ashwani FCA Kolkata
40.	053830	Mr. Kapoor Jatin ACA Kolkata	57.	054945	Mr. Sengupta Saibal FCA Kolkata
41.	053840	Ms. Mohta Usha FCA Kolkata	58.	054989	Mr. Panda Upamanyu ACA Berhampur
42.	053919	Mr. Buchasia Anil FCA Kolkata	59.	055211	Mr. Bhansali Naresh Kumar Hiratal FCA Kolkata
43.	054099	Mr. Lobo Chrisanthus Adrain ACA Melbourne	60.	055219	Mr. Debashis Ghosh FCA Kolkata

61.	055488	Mr. Agarwala Ratan Kumar FCA	78.	056743	Mr. Dey Sukanta FCA
		Guwahati			Dimapur
62.	055648	Mr. Jain Sanjay Kumar FCA	79.	056792	Mr. Sen Susmit ACA
		Kolkata			Pune
63.	055731	Mr. Goyal Sanjay Kumar ACA	80.	056800	Mr. Seth Bakul Krishana FCA
		Hindmotor			Kolkata
64.	055767	Mr. Mohanty Niranjana FCA	81.	056802	Mr. Sengupta Arindam ACA
		Cuttack			Kolkata
65.	055909	Mr. Gupta Sanjay Kumar FCA	82.	056882	Ms. Chaudhary Suman FCA
		Mumbai			Kolkata
66.	056066	Mr. Sanjay Pansari ACA	83.	056931	Mr. Lahoty Navin Kumar FCA
		Rochester Hills			Kolkata
67.	056081	Ms. Bhargava Anjali ACA	84.	056999	Mr. Chakraborty Rajib ACA
		California			Bangalore
68.	056097	Mr. Poddar Rajesh FCA	85.	057027	Mr. Singh Shiv Pujan ACA
		Kolkata			Kolkata
69.	056129	Mr. Saraf Subhash Kumar FCA	86.	057166	Mr. Pradip Kumar Modi FCA
		Dankuni			Kolkata
70.	056312	Mr. Mohta Santosh Kumar FCA	87.	057170	Mr. Jhunjhunwala Niraj Kumar FCA
		Kolkata			Kolkata
71.	056322	Mr. Subash Chandra Mohapatra FCA	88.	057234	Mr. Ghosh Kubalay ACA
		Kolkata			Kolkata
72.	056461	Mr. Barua Sreemont Prasad ACA	89.	057264	Mr. Samajdar Biplab ACA
		Abu Dhabi			Kolkata
73.	056504	Mr. Khemka Vivek FCA	90.	057457	Mr. Sunanda Banerjee FCA
		Kolkata			Kolkata
74.	056537	Mr. Agarwal Pradip ACA	91.	057511	Mr. Bhalotia Rajesh ACA
		Kolkata			Kolkata
75.	056580	Mr. Pani Bana Bihari FCA	92.	057582	Mr. Gopalka Arvind FCA
		Bhubaneswar			Kolkata
76.	056589	Mr. Khaitan Dinesh Kumar ACA	93.	057585	Mr. Nawalgaria Sandeep FCA
		Kolkata			Kolkata
77.	056737	Mr. Pani Samarendra ACA	94.	057602	Mr. Saha Sujit ACA
		Bhubaneswar			Kolkata

95.	057767	Ms. More Rashmi	FCA	112.	058982	Mr. Poddar Mahavir	ACA
		Kolkata				Rourkela	
96.	057770	Mr. Singh Amar	FCA	113.	059071	Mr. Kanjilal Sandipan	ACA
		Kolkata				Kolkata	
97.	057823	Mr. Chaudhuri Sandip	FCA	114.	059092	Mr. Subhabrata Dutta	FCA
		Kolkata				Kolkata	
98.	057863	Mr. Ray Amit Kumar	FCA	115.	059157	Mr. Chakrabarty Snehashis	ACA
		Hyderabad				Dubai	
99.	057969	Ms. Ray Dasgupta Dhritipriya	ACA	116.	059209	Mr. Neogi Kaustav	ACA
		Kolkata				Mumbai	
100.	057982	Mr. Pasari Rajesh	ACA	117.	059224	Mr. Kausik Datta	FCA
		Noida				Kolkata	
101.	058038	Mr. Jhawar Rajeev	ACA	118.	059348	Ms. Ganeriwala Vineeta	ACA
		Kolkata				Kolkata	
102.	058044	Mr. Jhunjunwala Sujit Kumar	FCA	119.	059443	Mr. Subhendu Goswami	ACA
		Kolkata				Kolkata	
103.	058076	Mr. Rajesh Agarwal	FCA	120.	059557	Mr. Mishra Sanjeev Kumar	FCA
		Kolkata				Kolkata	
104.	058210	Mr. Kamal Singh Bhutoria	ACA	121.	059679	Mr. Singh Dilip Kumar	FCA
		Kolkata				Kolkata	
105.	058395	Mr. Khannah Vikash	ACA	122.	059697	Mr. Sen Partha Sarathi	ACA
		Mumbai				Kolkata	
106.	058422	Mr. Mitra Anindya	FCA	123.	059745	Mr. Bothra Mahendra Kumar	ACA
		Kolkata				Kolkata	
107.	058498	Mr. Rathie Sushil Kumar	ACA	124.	059764	Mr. Roy Pradip	ACA
		Kolkata				Navi Mumbai	
108.	058621	Mr. Agarwal Manoj Kumar	FCA	125.	059772	Ms. Shilpa Lohia Modi	FCA
		Kolkata				Khurda	
109.	058640	Ms. Srishti Mahensaria	FCA	126.	059973	Mr. Jain Ajay	ACA
		Kolkata				Kolkata	
110.	058700	Mr. Chakrabarty Partha	ACA	127.	060247	Mr. Poddar Amit	ACA
		Kolkata				Kolkata	
111.	058864	Mr. Sinha Ravi Anand	ACA	128.	060283	Ms. Bagri Mamta	ACA
		Kolkata				Kolkata	

129.	060286	Mr. Bathwal Bikash FCA Kolkata	146.	060826	Mr. Choubey Sanjeev Kumar ACA Tinsukia
130.	060343	Mr. Vinay Jain FCA New Delhi	147.	060831	Mr. Debashisa Mohanty FCA Bhubaneswar
131.	060346	Mr. Kabiraj Pratim ACA Kolkata	148.	060841	Mr. Behera Maheswar ACA Bhubaneswar
132.	060356	Mr. Mohammed Riyaz FCA Bhubaneswar	149.	060905	Mr. Indradeep Singh Dhillon FCA Kolkata
133.	060371	Mr. Nirmal Jagwani FCA Kolkata	150.	060992	Ms. Ray Chaudhuri Ritwika ACA Singapore
134.	060396	Mr. Navin Maheshwari FCA Kolkata	151.	060993	Mr. Mitra Sibasis ACA Konnagar
135.	060433	Mr. Sahoo Santosh Kumar FCA Bhubaneswar	152.	061004	Mr. Ramani Sudhakar ACA Kingston
136.	060489	Mr. Kundra Atul ACA Dubai	153.	061009	Mr. Ray Chaudhuri Bappaditya ACA Kolkata
137.	060493	Ms. Grewal Davinder Kaur ACA Kolkata	154.	061240	Mr. Gupta Anup ACA Kolkata
138.	060521	Mr. Lahoti Vivek FCA Kolkata	155.	061245	Mr. Anil Kumar Agarwal FCA Rishra
139.	060574	Mr. Himansu Sekhar Das FCA Bhubaneswar	156.	061254	Mr. Rupani Dipesh V ACA Kolkata
140.	060593	Mr. Chandak Amit ACA Kolkata	157.	061303	Mr. Ghosh Joydeep ACA Gurgaon
141.	060610	Mr. Agarwal Alope ACA Kolkata	158.	061313	Mr. Pradhan Kanhu Charan ACA Bhubaneswar
142.	060648	Mr. Vishnu Gopal Agarwal FCA Kolkata	159.	061319	Mr. Sen Shovik ACA Bangalore
143.	060661	Mr. Misra Achintya ACA Nairobi	160.	061339	Mr. Chakraborty Joydeep ACA Kolkata
144.	060713	Mr. Pradyuman Baidya FCA Kolkata	161.	061349	Mr. Rupanjan Bhattacharyya FCA Mundra Kutch
145.	060786	Ms. Tripti Agarwal FCA Kolkata	162.	061385	Mr. Dwigbijoy Banik Choudhury ACA Kolkata

163.	061403	Mr. Harlalka Amit	ACA	180.	062276	Mr. Sen Saugata	ACA
		Kolkata				Kolkata	
164.	061419	Mr. Grewal Parvinder Singh	ACA	181.	062313	Mr. Sambit Pattanaik	FCA
		Abbotsford				Bhubaneswar	
165.	061556	Mr. Sethia Manoj Kumar	ACA	182.	062382	Mr. Jain Rakesh	ACA
		Kolkata				Mumbai	
166.	061662	Ms. Ganguly Saswati	ACA	183.	062419	Mr. Sourav Manas Ghosh	ACA
		Kolkata				Bangalore	
167.	061690	Mr. Bajrang Lal Agrawal	FCA	184.	062459	Mr. Chakrabarti Arindam	ACA
		Kolkata				Darjeeling	
168.	061694	Mr. Seal Puranjit	ACA	185.	062468	Mr. Agarwal Alok Kumar	ACA
		Kolkata				Kolkata	
169.	061701	Ms. De Eshna	FCA	186.	062470	Mr. Jaiswal Pankaj	ACA
		Kolkata				Guargaon	
170.	061702	Mr. Ghosh Somak	ACA	187.	062474	Ms. Periwai Richa	ACA
		Kolkata				Kolkata	
171.	061976	Mr. Sonatan Goswami	FCA	188.	062640	CA. Navin Agarwal	FCA
		Kolkata				Kolkata	
172.	062002	Mr. Durga Prasad Pattanaik	FCA	189.	062641	Ms. Anchal Bhatte	FCA
		Bhubaneswar				Kolkata	
173.	062056	Mr. Aman Agarwal	ACA	190.	062652	Ms. Gupta Rani	ACA
		Kolkata				Noida	
174.	062059	Mr. Fatepuria Rahul	ACA	191.	062664	Mr. Moulik Anirban	ACA
		Kolkata				Kolkata	
175.	062086	Mr. Ganguli Indraneel	ACA	192.	062729	Ms. Binita Agarwal	FCA
		New York				Guwahati	
176.	062137	Ms. Tahur Zahrah	ACA	193.	062877	Mr. Kotoky Trisonku	ACA
		Kolkata				Duliajan	
177.	062161	Mr. Rajesh Choraria	FCA	194.	062911	Ms. Udit Jain	ACA
		Kolkata				Calgary	
178.	062201	Mr. Pankaj Jain	FCA	195.	062935	Ms. Agarwal Mridu	ACA
		Kolkata				Kolkata	
179.	062207	Mr. Agarwal Vijay	ACA	196.	062990	Mr. Kaushik Raha	FCA
		Kolkata				California	

197.	063000	Ms. Sengupta Rima ACA Kolkata	214.	063731	Mr. Nitin Kumar ACA Howrah
198.	063103	Mr. Avinash Jha FCA London	215.	063746	Mr. Agarwal Anshul ACA Kolkata
199.	063261	Mr. Patwari Pawan Kumar ACA Kolkata	216.	063749	Mr. Bhattacharyya Achin ACA Kolkata
200.	063289	Mr. Saraf Vikash ACA Bangalore	217.	063806	Mr. Vishal Kumar Bharuka ACA Kolkata
201.	063328	Mr. Narendra Mandhana FCA Dalkhola	218.	063893	Mr. Agarwal Nikhil Kumar ACA Kolkata
202.	063336	Mr. Warriar Dilip ACA Mumbai	219.	063928	Mr. Agarwala Uttam Kumar ACA Balurghat
203.	063433	Mr. Mishra Sujit Kumar ACA Ranchi	220.	063983	Mr. Madhur Tibrewal ACA Kolkata
204.	063465	Mr. Sahu Ashotosh ACA Vasco Da Gama Goa	221.	064066	Mr. Acharya Vikram ACA Bally
205.	063485	Mr. Singh Rajwinder ACA Bhubaneswar	222.	064113	Mr. Deepak Chamaria ACA Kolkata
206.	063487	Mr. Rakesh Sethia ACA Kolkata	223.	064175	Ms. Agarwal Sweta ACA Kolkata
207.	063490	Mr. Khemka Ankit ACA Ghaziabad	224.	064180	Mr. Adhikary Asis ACA Kolkata
208.	063516	Ms. Das Madhulika ACA Kolkata	225.	064186	Mr. Poddar Prashant ACA Kolkata
209.	063587	Mr. Jaweed Sheikh Mohammed ACA Cuttack	226.	064187	Ms. Agarwal Manisha ACA Kolkata
210.	063594	Mr. Budhia Indra Kumar ACA Kolkata	227.	064240	Mr. Manoj Agarwal ACA Kolkata
211.	063676	Mr. Behera Sanjiv Kumar ACA Bhadrak	228.	064259	Mr. Bang Gopal ACA Dubai
212.	063706	Mr. Patel Pankaj ACA Kolkata	229.	064284	Ms. Poonam Khandelwal ACA Bangalore
213.	063727	Mr. Suvajit Choudhury ACA Kolkata	230.	064298	Ms. Rashmi Bihani ACA Kolkata

231.	064304	CA. Pradip Kumar Sahoo	ACA	249.	065206	Mr. Vinay Gupta	ACA
		Bhubaneswar				Kolkata	
232.	064336	Mr. Tarak Nath Dey	ACA	250.	065279	Mr. Ashish Jhunjunwala	ACA
		Kolkata				Mumbai	
233.	064425	Mr. Vinay Rungta	ACA	251.	065289	Mr. Niraj Agarwal	ACA
		Kolkata				Howrah	
234.	064470	Mr. Anurag Sanghai	ACA	252.	065290	Mr. Sudhir Agrawal	ACA
		Bangalore				Bolangir	
235.	064587	Mr. Amit Ruia	ACA	253.	065365	Mr. Vivek Goyal	ACA
		Kolkata				Rishra	
236.	064739	Mr. Sambhu Nath Ghosh	ACA	254.	065394	Mr. Sanjay Kumar Singh	ACA
		Kolkata				Guwahati	
237.	064754	Ms. Kavita Agarwal	ACA	255.	065439	Ms. Nidhi Agarwal	ACA
		Barakar				Kolkata	
238.	064777.	Ms. Nutan Gaba	ACA	256.	065456	Mr. Ajay Jha	ACA
		Kolkata				Mumbai	
239.	064829	Mr. Rabi Kumar Jha	ACA	257.	065457	Ms. Neha Marodia	ACA
		Guargaon				Kolkata	
240.	064878	Mr. Manish Sharma	ACA	258.	065459	Mr. Manoj Kumar Rath	ACA
		Makhla				Jaypore	
241.	065001	Mr. Ashish Kandoi	ACA	259.	065506	Ms. Deepa Bhutra	ACA
		Mumbai				Hindmotor	
242.	065019	Ms. Payal Daruka	ACA	260.	065507	Mr. Ravi Saraf	ACA
		Kolkata				Howrah	
243.	065020	Mr. Arun Kasat	ACA	261.	065525	Mr. Sashi Bhusan Mishra	ACA
		Navi Mumbai				Kolkata	
244.	065051	Mr. Amit Kumar Agarwal	ACA	262.	065530	Mr. Mujibur Rahman	ACA
		Kolkata				Kalyani	
245.	065081	Mr. Kapeesh Gupta	ACA	263.	065578	Mr. Ravi Kumar Sharma	ACA
		Kolkata				Chennai	
246.	065097	Mr. Vivek Jain	ACA	264.	065598	Mr. Abhishek Dugar	ACA
		Bandel				Kolkata	
247.	065159	Mr. Naveet Jhawar	ACA	265.	065615	Mr. Bijay Bagaria	ACA
		Kolkata				Guwahati	
248.	065205	Mr. Vishal Kumar Bajaj	ACA	266.	065693	Mr. Sandeep Agrawal	ACA
		Kolkata				Jamshedpur	

267.	065717	Mr. Rajkamal Singh	ACA	285.	066523	Ms. Manorama Kumari Shaw	ACA
		Raniganj				Jamshedpur	
268.	065721	Ms. Sangeeta Bansal	ACA	286.	066530	Mr. Abhishek Kumar Munka	ACA
		Kolkata				Kolkata	
269.	065771	Mr. Bishwajeet Kumar	ACA	287.	066639	Mr. Niraj Bhimseria	ACA
		Bhagalpur				Purulia	
270.	065848	Mr. Gangeshwar Sharma	ACA	288.	066677	Mr. Tamal Kumar Nag	ACA
		Kolkata				Mumbai	
271.	065886	CA. Kishor Chandak	ACA	289.	066815	Mr. Pramod Kumar Prasad	ACA
		Kolkata				Duliajan	
272.	065942	Mr. Nitin Kumar Patodi	ACA	290.	066823	Mr. Saroj Kumar Panigrahi	ACA
		Howrah				Bhubaneswar	
273.	066005	Mr. Ranjeet Bothra	ACA	291.	066839	Ms. Punam Jajodia	ACA
		Panipat				Howrah	
274.	066048	Mr. Prashant Biyala	ACA	292.	066901	CA. Vineet Kumar Somani	ACA
		Pune				Pune	
275.	066142	Mr. Chittaranjan Sahoo	ACA	293.	066939	Mr. Pankaj Bahety	ACA
		Kolkata				Kolkata	
276.	066182	Mr. Amit Kumar Mishra	ACA	294.	066941	Mr. Haresh Patel	ACA
		Kolkata				Kolkata	
277.	066184	Ms. Suruchi Tulsyan	ACA	295.	066953	Mr. Saurabh Pal	ACA
		Kolkata				Kolkata	
278.	066205	Mr. Charles Francis	ACA	296.	066974	CA. Kiran Dubey	ACA
		Kolkata				Delhi	
279.	066323	Mr. Chandra Sekhar Prasad	ACA	297.	067163	Mr. Niraj Kumar Verma	ACA
		Kolkata				Kolkata	
280.	066433	Ms. Monika Gandhi	ACA	298.	067207	Mr. Manish Ladha	ACA
		Kolkata				Howrah	
281.	066447	Mr. Vijay Kumar Goel	ACA	299.	067223	Mr. Manish Harlalka	ACA
		Kolkata				Howrah	
282.	066449	Mr. Bikash Purohit	ACA	300.	067237	Ms. Neelam Patwari	ACA
		Kolkata				Kolkata	
283.	066465	Mr. Kamala Kant Shastri	ACA	301.	067260	Mr. Shambhu Choudhary	ACA
		Durgapur				Kolkata	
284.	066501	Mr. Vineet Jajodia	ACA	302.	067268	Ms. Priti Priyadarshini	ACA
		Kolkata				Raigang	

303.	067289	Mr. Krishna Bahadur Khatri	ACA	312.	212321	Mr. Pankaj Ramesh Kabra	ACA
		Kathmandu				Mumbai	
304.	067298	Mr. Ashish Kumar Kar	ACA	313.	401907	CA. Anand Prakash	FCA
		Kolkata				Kolkata	
305.	070370	Mr. Mittal Kailash Chandra	FCA	314.	404588	Mr. Seksaria Ashok Kumar	ACA
		Guwahati				Kolkata	
306.	074942	Mr. Bazaz Nirmal	FCA	315.	406365	CA. Sumanta Roy	ACA
		Kolkata				Kolkata	
307.	084228	Mr. Singh Harpreet	ACA	316.	410104	CA. Swati Agrawal	ACA
		Gurgaon				Titlagarh	
308.	095652	Mr. Bires Das	FCA	317.	505496	Mr. Singhal Rupesh Kumar	ACA
		Bhubaneswar				Siliguri	
309.	097487	Mr. Bhutra Vikas	ACA	318.	505851	Ms. Amita Bajpai	ACA
		Hindmotor				Lucknow	
310.	100379	Mr. Banerjee Bani Broto	ACA	319.	507202	Ms. Nikita Sinha	ACA
		Kolkata				Kolkata	
311.	206754	Mr. Ravichandran S	FCA				
		Port Blair					

T. KARTHIKEYAN
SECRETARY

THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.
Chartered Accountants
New Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai,
Patna, Chandigarh and Hyderabad

221-223, Deen Dayal Marg, New Delhi-110002
Phones : 91-11-23236958-60, 23237772
Fax : 91-11-23230831 Gram : AUDIT
E-mail : tvand@vsnl.com
tvande@rediffmail.com

AUDITORS' REPORT

To the Members of BAR COUNCIL OF INDIA

1. We have audited the attached the Balance Sheet of Bar Council of India as at 31st March, 2010 and also the Income and Expenditure Account for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Institution's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. *Attention is invited on:*
Note No. 4 of Schedule 15 regarding shortfall of provision for Pension Fund liability amounting to Rs. 1,64,30,216 based on actuarial valuation as on 31-3-2010.
4. Further to the above, we state that:
 - (a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Council so far as appears from our examination of those books; and
 - (c) The statement of Financial Position and the Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.
5. Subject to item contained in Paragraph (3) above, to which attention have been drawn and the consequential effect of adjustment on the value of assets, liabilities, the quantum of income and expenditure and their effect on the surplus for the year, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the Accounting Policies and Notes thereon, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;
 - (a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Institution as at 31st March, 2010 and

- (b) In the case of the Income and Expenditure Account, of the Surplus for the year ended on that date.

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.

Chartered Accountants

FRN 000038N

(M.P. Thakur)

Partner

M.N. 052473

Place : New Delhi

Date : 26-9-2010

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2010

	<i>Schedule</i>	<i>As at 31-3-2010</i>	<i>As at 31-3-2009</i>
Sources of Funds:			
Corpus Fund	1	77968883.41	60107083.98
Earmarked Funds	2	93880511.23	73555200.23
Assets Fund (Grant-In-Aid)	3	17826834.00	17931290.00
Loans & Advances	4	2000000.00	2000000.00
Security Deposits From Affiliated institutions		63200000.00	56800000.00
Total		<u>254876228.64</u>	<u>210393574.21</u>
Application of Funds:			
Fixed Assets	5		
Gross Block		41593963.82	24752483.34
Less: Depreciation		<u>18245805.97</u>	<u>17792668.49</u>
Net Block		23348157.85	6959814.85
Earmarked Investments	6	93880511.23	73555200.23
Other Investments			
Deposits with Scheduled Banks	7	119542006.00	101866772.00
Current Assets, Loans & Advances	8	47451247.99	46954904.56
Less: Current Liabilities & Provisions	9	<u>14510694.43</u>	<u>3283117.43</u>
Net Current Assets		32940553.56	43671787.13
Less: Inspection Fees			
Received In Advance		<u>14835000.00</u>	<u>15660000.00</u>
Total		<u>254876228.64</u>	<u>210393574.21</u>

Accounting Policies and

Notes to Accounts 15

Schedules 1 to 15 form an integral part
of the accounts

As per our Report of Even Date

For **THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO.**

Chartered Accountants

FOR BAR COUNCIL OF INDIA

Sd/-
(M.P. Thakur)
Partner

Place : New Delhi

Date : 26-9-2010

Sd/-
Accounts Officer
cum
Asst. Secretary
B.C.I.

Sd/-
Assistant
Secretary
B.C.I.

Sd/-
Chairman
B.C.I.

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2010

	Schedule	Current Year Rs.	Previous Year Rs
Income			
Fees	10	10274169.43	8425421.15
Inspection Fees		27720000.00	20150000.00
Grants-in-Aid		188100.00	700000.00
Registration Fees		20000.00	45000.00
Building Licence Fee		3101000.00	638640.00
Other Incomes	11	11851512.00	10934627.31
TOTAL		53154781.43	40893688.46
Expenditure			
Salaries, Allowances And			
Employee Benefits	12	17089173.00	12536280.00
Establishment and other Expenses	13	7102761.00	6367536.00
Expenses on Council's Activities & Mtgs.	14	11661549.00	8960029.00
Expenditure on Directorate of Legal Education		540186.00	-----
Donation of Law Books		190000.00	693754.00
Depreciation	5	996744.00	826950.00
Less: Amount Transferred From			
Assets Funds Grants (-)	104456.00	892288.00	219023.00
TOTAL		37475957.00	29165526.00
Less: Recovery From Welfare Fund	(-)	2182975.00	1414109.00
Towards Administration Expenses (Refer 2(ii)(b) Schedule -15)		35292982.00	27751417.00
Surplus for the Year		17861799.43	13142271.46
Transferred to Corpus Fund			
Accounting Policies & Notes to Accounts	15		

As per our Report of Even Date
For **THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO.**
Chartered Accountants

FOR BAR COUNCIL OF INDIA

Sd/-
(M.P. Thakur)
Partner
Place : New Delhi
Date : 26-9-2010

Sd/-
Accounts Officer
cum
Asst. Secretary
B.C.I.

Sd/-
Assistant
Secretary
B.C.I.

Sd/-
Chairman
B.C.I.

SCHEDULE --- 1 CORPUS FUND

	As At 31-3-2010 Rs.	As At 31-3-2009 Rs.
Balance As Per Last Balance Sheet	60107083.98	46964812.52
Add: Surplus/Deficit for the Year	17861799.43	13142271.46
TOTAL	77968883.41	60107083.98

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE — 2

EARMARKED FUNDS

	<u>As At</u> <u>31-3-2010</u> Rs.	<u>As At</u> <u>31-3-2009</u> Rs.	
(i) Welfare Fund			
Balance As On 1-4-2009	53554950.77	45386496.77	
Add: Income			
Contribution From State Bar Council	10914874.00	7070542.00	
Interest Received	5481057.00	4054121.00	
Misc Receipts	7000.00	38250.00	
	16402931.00	11162913.00	
Less : Assistance To Advocates	1973500.00	1575000.00	
Bank Charges	7977.00	5350.00	
Administration Expenses	2182975.00	12238479.00	1414109.00
As Per Income & Expenditure A/c	65793429.77	53554950.77	8168454.00
(ii) Provident Fund			
As Per Last Balance Sheet	4739772.52	5798537.93	
Add: Employees Subscription	462942.00	410678.00	
Add: Employees Voluntry Subscription	504000.00	417000.00	
Add: Contribution Received From Bci - For Shortfall Interest	,----	95472.00	
Add: Interest Received	436848.00	426590.27	
	6143562.52	7148278.20	
Less: Permanent Withdrawals	,----	900000.00	
Less: Payment During The Year	,----	6143562.52	1508505.68
			4739772.52
(iii) Gratuity Fund			
As Per Last Balance Sheet	3745476.94	3507724.57	
Add: Contribution	2118536.00	663290.00	
(Refer Note No. 3 of Schedule 15)			
Add: Interest Received	259910.00	220419.37	
Less: Payment to Members	628085.00	5495837.94	645957.00
			3745476.94
(iv) Pension Fund			
As Per Last Balance Sheet	11515000.00	6966577.00	
Add: Contribution/Provision	4681342.00	4093649.00	
(Refer Note No.(4) of Schedule-15)			
Add: Interest Received	865245.00	664294.00	
	17061587.00	11724520.00	
Less: Payments to Ex-Members/ Dependents	613906.00	16447681.00	209520.00
	613906.00	16447681.00	11515000.00
Total	93880511.23	73555200.23	

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE --- 3

	<i>As at</i> 31-3-2010 Rs.	<i>As at</i> 31-3-2009 Rs.
ASSETS FUND		
(GRANTS -IN-AID)Balance as on 1-4-2009	17931290.00	851404.00
Add: Grant-in-aid received from Ministry of Law and Justice, Legal Departments Govt. of India, N.D. (Refer note NO. 7 of Schedule 15)	,----- 17931290.00	 17298909.00 18150313.00
LESS: Amount of depreciation transferred to Income & Expenditure Account	104456.00	219023.00
TOTAL	<u>17826834.00</u>	<u>17931290.00</u>

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE --- 4

LOANS & ADVANCES

	<i>As at</i> 31-3-2010 Rs.	<i>As at</i> 31-3-2009 Rs.
LOANS & ADVANCES		
Advance from Bar Council of India Trust	2,000,000	2,000,000
TOTAL	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE --- 5

PART-A

FIXED ASSETS—OWN FUNDS

		(Amount in Rs.)									
S.No.	Particulars	Rate of Depreciation (% P.A.)	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NE BLOCK		
			As At 1/4/2009 (1)	Additions/Deletions (2)	Sale/Exchange/Adjustment -3	As At 31/3/2010 (4) = (1) + (2) - (3)	As At 1/4/2009 (5)	For the Year 2009-2010 (6)	As At 31-3-2010 (8) = (5) + (6) - (7)	As At 31-3-2010 (9) = (4) - (8)	As At 31-3-2009 (10)
1	Land	---	42030.00	---	---	42030.00	---	---	---	42030.00	42030.00
2	Building	10%	15047055.40	---	---	15047055.40	11,649,910.06	339715.00	11,989,625.06	3,057,430.34	3,397,145.34
3	Lift	15%	695361.63	---	---	695361.63	672,105.13	3488.00	675,593.13	19,768.50	23256.50
4	Furniture & Fittings	10%	982299.54	---	19446.52	962853.02	684,853.00	29745.00	695,151.48	267,701.54	297,446.54
5	Electrical Fittings	10%	318244.55	5027	26094	301177.55	226,907.00	10036.00	210,849.00	90,328.55	91,337.55
6	Office Equipments	15%	749867.90	24482	233005	541344.90	539,610.30	33947.00	340,552.30	200,792.60	210,257.60
7	Air Conditioner/Cooler	15%	572754.32	---	141636	431118.32	442,000.00	19613.00	319,977.00	111,141.32	130,754.32
8	Refrigerator/Gas	15%	17580.00	16900	---	34480.00	17,045.00	2615.00	19,660.00	14,820.00	535.00
9	Office Cycles	15%	5231.00	---	---	5231.00	785.00	667.00	1,452.00	3,779.00	4,446.00
10	Books & Publications	100%	122972.00	---	---	122972.00	122,972.00	---	122,972.00	---	---
11	D.G.Set	15%	123425.00	---	123425	0.00	118,471.00	4954	816,928.00	790,594.00	4,954.00
12	Computers	60%	498722.00	1108800	---	1607522.00	482,636.00	354292.00	41,568.00	69,380.00	36,086.00
13	Water Cooler	15%	110948.00	---	---	110948.00	29,324.00	12244.00	894,366.00	175,480.00	206,447.00
14	Transformer	15%	1069846.00	---	---	1069846.00	863,398.00	30967.00	1,092,504.00	274,046.00	322,407.00
15	Fire Fighting Equipment	15%	1366550.00	---	---	1366550.00	1,044,143.00	48361.00	2,533.00	9,317.00	10,961.00
16	Digital Camera	15%	11850.00	---	---	11850.00	888.00	1644.00	---	---	---
Total			21794737.34	1159208.00	543606.52	22350339.82	16,875,049.49	892288.00	17,223,730.97	5,126,608.85	4,859,687.85
Previous Year			21521045.34	448,784.00	235,092.00	21734734.34	16502214.49	607,927.00	16875049.49	4859687.85	---

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE --- 5

PART-B

FIXED ASSETS—(GRANTS-IN-AID)

(Amount in Rs.)												
S.No.	Particulars	Rate of Depreciation (% P.A.)	GROSS BLOCK				DEPRECIATION			NE BLOCK		
			As At 1/4/2009 (1)	Additions/ Deletions (2)	Adjust- ment	As At 31/3/2010 (3)=(1)+(2)	As At 1/4/2009 (4)	For the Year 2009-2010 (5)	Adjust- ment	As At 31-3-2010 (6)=(4)+(5)	As At 31-3-2010 (7)=(3)-(6)	As At 31-3-2009 (8)
1	Building	10%	410,297.00	410,297.00	62,851	34,745.00	97,596	312701.00	347446.00
2	Furniture & Fittings	10%	184,625.00	184,625.00	42,426	14,220.00	56,646	127979.00	142199.00
3	Air Conditioner/Cooler	15%	105,746.00	105,746.00	30,416	11,300.00	41,716	64030.00	75330.00
4	Books & Publications	100%	286,904.00	286,904.00	286,904	286,904
5	Computers	60%	568,674.00	568,674.00	495,022	44,191.00	539,213	29461.00	73652.00
	Total (B)		1,556,246.00	1,556,246.00	917,619	104,456.00	1,022,075	534,171.00	638627.00
	Previous Year		1,550,000.00	6,246.00	1,556,246.00	698,596.00	219,023.00	917619.00
	Total (A + B)		23,290,983.34	1,159,209.00	543,606.52	23,906,585.82	17,792,668.49	996,744.00	543,606.52	18,245,805.97	5,660,779.85	5,498,314.85
	Previous Year		23,071,045.34	455,030.00	235,092.00	23,290,983.34	17,200,810.49	826,950.00	235,092.00	17,792,668.49	5,498,314.85
(C)	Capital—Work-in-Progress* (Building Renovation)		1,461,500.00	16,225,878.00	17,687,378.00	17,687,378.00	1461500
	Grand Total (A + B + C)		24,752,483.34	17,385,087.00	543,606.52	41,593,963.82	17,792,668.49	996,744.00	543,606.52	18,245,805.97	23,348,157.85	6,959,814.85
	Previous Year		23,071,045.34	1,916,530.00	235,092.00	24,752,483.34	17,200,810.49	826,950.00	235,092.00	17,792,668.49	6,959,814.85	5870234.85

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE — 6

EARMARKED INVESTMENTS

	As at 31-3-2010 Rs.	As at 31-3-2009 Rs.
(I) Welfare Fund Investments		
Balance In Uco Bank-Savings A/C.9363	851217.99	454882.99
Fixed Deposit with Uco Bank	27829405.00	16331950.00
Fixed Deposit with Central Bank	2943028.00	2943028.00
Fixed Deposit with S.B.I	13365553.00	15959889.00
Fixed Deposit with Syndicate Bank	6627655.00	5074580.00
Fixed Deposit with Allahabad Bank	6460789.00	5725046.00
Accrued Interest	1761776.00	6953429.00
TDS-Interest on FDR	455822.00	---
Sundry Debtors -BCI	5498183.78	112145.78
	65793429.77	53554950.77
(II) Provident Fund Investment		
Balance in UCO Bank S.B.A/C 261025	1506319.68	292430.68
Special Deposit -Uco Bank	1190217	1190217.00
Fixed Deposit with UCO Bank	1755548	854828.00
Fixed Deposit with Central Bank	---	---
Fixed Deposit with Syndicate Bank	1475651	1129858.00
Fixed Deposit with State Bank Of India	---	500000.00
P.F.Loan	160987.29	282347.29
Accrued Interest	32747.55	490091.55
TDS-Interest on FDR	22092.00	---
	6143562.52	4739772.52
(III) Gratuity Fund Investment		
Balance In UCO Bank- Saving A/C 440	792430.34	1009990.34
Special Deposit - UCO Bank	318433.00	318433.00
Fixed Deposit With UCO Bank	2233927.00	1728423.00
Accrued Interest	12711.60	321700.60
Due From Bar Council of India	2118536.00	366930.00
TDS-Interest on FDR	19800.00	---
	5495837.94	3745476.94
(IV) Pension Fund Investment		
Balance In Canara Bank S.B. A/C. 19116	150184.00	78298.00
Fixed Deposit -Syndicate Bank	300000.00	300000.00
Fixed Deposit - Central Bank	3077857.00	3077857.00
Fixed Deposit - Canara Bank	5863701.00	3863701.00
Fixed Deposit -Allahabad Bank	539838.00	427000.00
Fixed Deposit with State Bank of India	---	450000.00
Fixed Deposit UCO Bank	1100032.00	1100032.00
Accrued Interest	1278331.00	704320.00
Due From Bar Council of India	4107554.00	1513792.00
TDS-Interest on FDR	30184.00	---
	16447681.00	11515000.00
TOTAL	93,880,511.23	73,555,200.23

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE --- 7

OTHER INVESTMENTS

	As at 31-3-2010 Rs.	As at 31-3-2009 Rs.
FIXED DEPOSITS WITH BANKS FOR BAR COUNCIL OF INDIA		
Allahabad Bank	3134996.00	3000000.00
Central Bank	3757020.00	3757020.00
Canara Bank	10989048.00	4356644.00
Uco Bank	7911639.00	6067205.00
SBI	-----	2000000.00
Syndicate Bank	2500000.00	2500000.00
	28292703.00	21680869.00
LEGAL EDUCATION		
Uco Bank	3087751.00	587751.00
Canara Bank	4749141.00	7873167.00
Central Bank	2427480.00	2427480.00
State Bank of India	3285783.00	2584691.00
Syndicate Bank	4896500.00	3749091.00
Allahabad Bank	5484709.00	4742000.00
	23931364.00	21964180.00
SECURITY DEPOSIT FROM LAW COLLEGES (AFFILIATION)		
Canara Bank	12263639.00	7863639.00
Central Bank	7244877.00	7244877.00
Uco Bank	11914115.00	10885139.00
State Bank Of India	11707368.00	12207368.00
Syndicate Bank	12381700.00	8481700.00
Allahabad Bank	11806240.00	67317939.00
	67317939.00	11539000.00
	58221723.00	
TOTAL	119542006.00	101,866,772.00

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE --- 8

CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

	As at 31-3-2010 Rs.	As at 31-3-2009 Rs.
CURRENT ASSETS		
A) Stock of Books at Cost (As Certified by the Management)	121168.00	51328.00
B) Cash & Bank Balances		
Cash In Hand	166371.25	80218.25
Canara Bank-31050	3569490.99	3044073.99
UCO Bank -132	670581.81	877726.81
Canara Bank-31065	4661186.90	1832468.90
Canara Bank-31313(Grants)	193310.00	193310.00
Syndicate Bank 24171010000239 (Grants)	1005053.00	15841695.00
Syndicate Bank 24171010000258 (DLE)	1863759.00	-----
Balance with Schedules Banks in Different States	14231612.84	7249459.41
	26361365.79	29118952.36
C) Amount Receivable		
I) Interest Accrued on Investments	9280315.00	15284801.00
II) TDS-Interest on FDR	1044020.00	-----
III) From State Bar Councils	81314.20	81314.20
IV) Sundry Debtors-Trust	42438.00	38971.00
V) Inspection Fees Receivable	-----	-----
VI) Amount Receivable - Banks	7706661.00	-----
VIII) Amount Receivable - Contractors	63781.00	-----
	18218529.20	15405086.20
D) Loans & Advances		
I) Loan To Staff (Housing, Marriage & Other)	859629.00	868152.00
II) Advances—Members	193540.00	31500.00
—Staff	320124.00	167681.00
—Others	77645.00	7200.00
III) Prepaid Expenses	68830.00	74588.00
IV) Security Deposits	1230417.00	1230417.00
(With Desu & MCD + DVB & Tel.(Reliance)	2750185.00	2379538.00
TOTAL	47451247.99	4,69,54,904.56

BAR COUNCIL OF INDIA
SCHEDULE --- 9
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

	<i>As at</i> 31-3-2010	<i>As at</i> 31-3-2009
	Rs.	Rs.
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
Sundry Creditors	426989.00	133335.00
Due to Gratuity Fund	2118536.00	366930.00
D.C. Deposit Fees	1016764.65	968814.65
Unutilised Grant-In-Aid From Law Ministry	188100.00	188100.00
Due to Welfare Fund	5498183.78	112145.78
Due to Pension Fund	4107554.00	1513792.00
Earnest Money (Contractors)	350000.00
Security Deposit (Contractors)	804567.00
TOTAL	14510694.43	3283117.43

BAR COUNCIL OF INDIA
SCHEDULE --- 10
FEES

	<i>Current</i> Year	<i>Previous</i> Year
	Rs.	Rs.
Enrolment Fees	8881852.43	7198731.15
Membership /Transfer Fees	650595.00	531945.00
D.C.& Other Fees	741722.00	694745.00
TOTAL	10274169.43	8425421.15

BAR COUNCIL OF INDIA**SCHEDULE — 11****OTHER INCOMES**

	<i>Current Year</i>	<i>Previous Year</i>
	<i>Rs.</i>	<i>Rs.</i>
Interest on Fixed Deposits	11524461.00	8962706.00
Interest on Loans & Advances	78411.00	71307.00
Miscellaneous Income	248640.00	35834.31
Excess Provision for Expenses Written Back	-----	1864780.00
TOTAL	11,851,512.00	10,934,627.31

BAR COUNCIL OF INDIA**SCHEDULE --- 12****EXPENDITURE**

	<i>Current Year</i>	<i>Previous Year</i>
	<i>Rs.</i>	<i>Rs.</i>
SALARIES, ALLOWANCES & EMPLOYEE BENEFITS		
ESTABLISHMENT/SALARIES (Refer note 5 of Schedule -15)	8930934.00	6518707.00
MEDICAL REIMBURSEMENT	322757.00	362837.00
BONUS	48356.00	65135.00
LEAVE ENCASHMENT	519730.00	656584.00
LEAVE TRAVEL CONCESSION	123907.00	5674.00
COUNCIL CONT. TO PROVIDENT FUND A/C (For shortfall of interest)	-----	95472.00
COUNCIL CONT. TO GRATUITY FUND A/C	2118536.00	366930.00
COUNCIL CONT TO PENSION FUND A/C. ((Refer note 4(i) of Schedule 15)	4681342.00	4093649.00
STAFF CONVEYANCE	343611.00	371292.00
	17089173.00	12536280.00

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE --- 13

ESTABLISHMENT & OTHER EXPENSES

	<i>Current Year</i>	<i>Previous Year</i>
	Rs.	Rs.
Rates & Taxes (Including Municipal Taxes)	79023.00	79023.00
Printing & Stationery	626597.00	506303.00
Water & Electricity	998421.00	916528.00
Advt./Gazette Notification	557165.00	282304.00
Postage, Telegram & Telephone	459583.00	416436.00
General Repairs	131049.00	229026.00
Court Proceedings/Income Tax Fees/ Professional Expenses	259209.00	251154.00
Periodical & Journal	2432.00	2191.00
Audit Fees	27393.00	26574.00
Website Charges	,.....	200000.00
Bank Charges	14072.00	20485.00
Miscellaneous Expenses	312564.00	181227.00
Contribution to State Bar Councils	475000.00	300000.00
Contribution to Bar Council of India Trust	2570000.00	2470000.00
Conference Expenses	,----	317434.00
Felicitation Expenses	42858.00	7085.00
Subscription to IBA	,----	,.....
Security Charges	158006.00	112106.00
Subscription To IIC	22060.00	11236.00
Insurance Premium	30007.00	38424.00
Subscription to Manupatra	25000.00	,.....
Service Tax on Building Licence Fee	312322.00	,.....
	<u>7102761.00</u>	<u>6367536.00</u>

BAR COUNCIL OF INDIA
SCHEDULE — 14
EXPENSES ON COUNCIL'S ACTIVITIES & MEETINGS

	<i>Current Year</i>	<i>Previous Year</i>
	Rs.	Rs.
Travelling—Council	3021311.00	2791243.00
Travelling—D.C. Mtg.	2050442.00	1223882.00
Travelling—Inspection	5527298.00	4617943.00
Travelling—LE Mtg.	960234.00	248510.00
Meeting Expenses	102264.00	78451.00
TOTAL	11661549.00	8960029.00

BAR COUNCIL OF INDIA

SCHEDULE --- 15

ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS AS ON MARCH 31, 2010

A. ACCOUNTING POLICIES :

1. Income and expenditure are recognised on accrual basis except contribution towards Welfare fund which is accounted for on receipt basis and inspection fee for law colleges and expenses thereto is recognised on inspection of law colleges.

2. **FUND :**

The word "fund" has been used to denote the intention to keep the balances invested ultimately.

- (i) **CORPUS FUND**

Corpus Fund represents donations received from Law Colleges and others and annual surplus/deficit of the Bar Council of India.

- (ii) **WELFARE FUND**

- (a) Welfare Fund represents contribution received from Advocates in accordance with the Bar Council of India Rules.

- (b) 20% of Welfare Fund Contribution received from State Bar Councils is credited to Income & Expenditure Account of Bar Council of India as recovery of administrative expenses.

3. **INTEREST**

- (i) Interest pertaining to a Specific Fund has been credited to the respective Funds account.

- (ii) Interest income accrued at the end of the year on FDRs with scheduled Banks have been recognised on the basis of simple rate of interest.

4. **FIXED ASSETS**

Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties & taxes and incidental & direct expenses related to such acquisition.

5. **DEPRECIATION**

Depreciation on fixed Assets is provided on Written Down Value method, at the rates prescribed under the Income Tax Act, 1961.

6. **GRANT-IN-AID**

- (a) Government grants are recognised on receipt basis as income and expenses incurred there from are shown as expenditure. Unutilised amount is treated as liability as at the year end.

- (b) Government grants related to Specific Fixed Assets are treated as deferred income which is recognised in the account on a systematic and rational basis over the useful life of the assets.

7. INVESTMENTS

Investments have been classified as 'long term investments' and are carried at cost since all the investments have been held in fixed deposits with Scheduled Banks.

8. RETIREMENT BENEFITS

- (i) Pension-cum-Family Pension Rules of the Employees of the Bar Council of India, w.e.f. 1-4-2002 has been made applicable to the employees of the Bar Council of India. Accordingly the "BCI-Contributory Provident Fund" has been discontinued and in its place Pension Fund has been introduced. The contribution made earlier by Bar Council of India to contributory Provident Fund alongwith accrued interest has been transferred to the Pension Fund. Bar Council of India makes its contribution to the fund at the specified rate.
- (ii) General Provident Fund Account of the Employees of the Bar Council of India represent the amount of subscription of employees at the applicable rate of the pay together with accrued interest thereon.
- (iii) The Bar Council of India has maintained a special fund called "Gratuity Fund". Contribution to this fund is made @ 8.33% of the eligible pay. The fund is administered by the Trustees appointed by the Council.
- (iv) The leave encashment is accounted for on payment basis.

B. NOTES TO ACCOUNTS

1. Estimated amount of contract remaining to be executed and not provided for building renovation work less advances amounts to Rs. 43,58,397/- (previous year Rs. 1,40,32,373/-).
2. Provident Fund is recognized under rule 3(q) of the part- A of the IVth schedule of the Income Tax Act 1961 vice letter No. JP-1 (6)/63/3332 dated 25-12-1965 (order no. 1 of the 1965-66). However the fund is not recognized by the Regional Provident Fund Commissioner.
3. Gratuity Fund is recognized under the Income Tax Act 1961. The provision for Gratuity liability has been made on the basis of 8.33% of the Basic Pay, Grade Pay and Dearness Allowances of the employees as provided in the Gratuity Fund Rules of the Bar Council India. The actual gratuity liability based on the actuarial valuation as on 31-10-2009 comes to 54,95,838/- against which for Rs. 37,45,475/- has been provided till 31-3-2009. During the current financial year the provision of the Gratuity liability of Rs. 21,18,536/- has been made including Rs. 16,86,497/- on account of shortfall as per the actuarial valuation as on 31-10-2009.
4. The liability for Pension Fund upto 31-10-2009 has been determined based on actuarial valuation amounting Rs. 3,28,77,897/-. The Pension Fund liability of Rs. 1,15,15,000/- has been provided for till 31-3-2009. The shortfall in provision comes to Rs. 2,05,37,770/-. During the current financial year, provision for Pension Fund liability has been made for Rs.46,81,342/-. The Pension Fund balance amounts to Rs. 1,64,47,681/- as on 31-3-2010. The shortfall in provision of liability amounts to Rs. 1,64,30,216 on 31-3-2010. The provision for shortfall of arrear Pension Fund liability would be made in four equal installments during next four subsequent years along with the relevant year liability.

5. Council has approved and adopted the implementation of 6th Pay Commission of the Central Government for its employees w.e.f 1st September 2008. During the current financial year Council has approved the payment of arrears salaries (Total Rs. 30,40,796/-) for its employees for the period from 1-1-2006 to 31-8-2008 in five installments w.e.f the Financial Year 2009-10. Accordingly Salaries & Allowances include Rs. 6,08,160/- (Ref. Schedule- 12) as arrear salaries as such current year figure is not comparable with previous year.
6. Fixed deposits with scheduled Bank includes Rs. 6,32,00,000/- on 31-3-2010 (Rs. 5,68,00,000/- on 31-3-2009) received from Law Colleges as Security deposit for affiliation included in Schedule- 7.
7. Government of India, Ministry of law and Justice Department of Legal Affairs, New Delhi vice letter ref. NO. F.NO.- 13017/1/2007- Admn III (LA) dated 22-10-2008 has released the grants-in -aid for Rs. 1,72,98,909 to Bar Council of India (BCI) for the first phase of the renovation work of its building during the financial year 2008-09. The renovation work of building is in progress and a sum of Rs. 1,76,87,378/- have been incurred / paid for such work till 31-3-2010 and same has been shown under the head "Capital Work-in-Progress Building Renovation" (in Schedule 5B). Pending completion of such work and capitalization the amount, the grant would be recognized in the Income & Expenditure account over the useful life of the depreciable assets by way of reduced depreciation charge.
8. Previous figures have been regrouped/ reclassified wherever considered necessary.
Schedule referred above form an integral part of accounts.

As per our Report of even date

for **Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.,**
Chartered Accountants
FRN 000038N

BAR COUNCIL OF INDIA

Sd/-
(M.P. Thakur)
Partner

Sd/-
Accounts Officer
cum
Asst. Secretary
B.C.I.

Sd/-
Assistant
Secretary
B.C.I

Sd/-
Chairman
B.C.I

Place : New Delhi
Date : 26-9-2010